



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 20]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 19—मई 25, 2012 (वैसाख 29, 1934)

No. 20]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 19—MAY 25, 2012 (VAISAKHA 29, 1934)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग III—खण्ड 4

### [PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई, दिनांक 17 अप्रैल 2012

बैंपवि. सं. आरईटी.बीसी. 94/12.02.001/2011-12—समय-समय पर यथासंशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 24 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्वारा अधिसूचित करता है कि पूर्व में जारी 09 मई 2011 की अधिसूचना बैंपवि. सं. आरईटी.बीसी. 91/12.02.001/2010-11 के पैरा 2(ii) का संशोधित रूप निम्नानुसार है :—

“सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत भारत में कुल निवल मांग और मियादी देयताओं के दो प्रतिशत तक की चलनिधि सहायता प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को संपार्श्विक के रूप में दी गई प्रतिभूतियां जिन्हें संबंधित बैंक के अपेक्षित एसएलआर संविभाग में से निकाला गया है”।

बी. महापात्र  
कार्यपालक निदेशक

स्टेट बैंक ऑफ पटियाला

पटियाला

शुद्धिपत्र

भारत सरकार के दिनांक 31.05.2011 के राजपत्र के भाग-III के खंड 4 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 119 में “भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम .....” शब्दों से शुरू होने तथा “..... विनियम बनाता है, यथा :-” शब्द के साथ अंत होने वाले शुरूआती पैरा को निम्नानुसार स्थानापन्न कर दिया गया है :—

“भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 63 की उपधारा (1) एवं उपधारा (2) के खंड (o) द्वारा प्रदत्त अधिकारों/शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के निदेशक बोर्ड से परामर्श और भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन द्वारा स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (कर्मचारी) पेंशन विनियमन, 1995 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियमन बनाता है, यथा :—”

एस. चन्द्रशेखरन  
महाप्रबंधक (कोष, वित्त एवं लेखा तथा वैय. बैंकिंग)

## राष्ट्रीय आवास बैंक

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 2012

सं. राआबैंक-सामान्य विनियमावली/2012—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (53/1987) की धारा 55 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड, भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन और केन्द्र सरकार के परामर्श से राष्ट्रीय आवास बैंक सामान्य विनियमावली, 1988 को संशोधित करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :—

1. (1) इन विनियमों को राष्ट्रीय आवास बैंक सामान्य (संशोधित) विनियमावली, 2012 कहा जाएगा,
- (2) उन्हें 18 अक्टूबर, 2011 से प्रभावी माना जाएगा।
2. राष्ट्रीय आवास बैंक सामान्य विनियमावली, 1988 में, विनियम 7 में --
  - (क) उप विनियम (1) में, शब्द और अंक "5,000 रु." के लिये, शब्द और अंक "10,000 रु." बदला जाएगा, और
  - (ख) उप विनियम (2) में, शब्द और अंक "2,500 रु." के लिये, शब्द और अंक "5,000 रु." बदला जाएगा।

आर. वी. वर्मा  
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

## व्याख्यात्मक ज्ञापन

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग) ने अपने परिपत्र सं. 15/1/2011-बीओ. 1 दिनांक 18 अक्टूबर, 2011 द्वारा बैंकों के बोर्ड के निदेशकों को बोर्ड और समिति बैठकों में उपस्थित होने के लिये देय शुल्क की दरें क्रमशः 10,000/- रु. और 5,000/- रु. संशोधित की हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक सामान्य विनियमावली 1988 में कथित संशोधन 18 अक्टूबर, 2011 से प्रभावी होना है।

टिप्पणी :—मुख्य विनियमावली भारत के असाधारण राजपत्र, भाग-II खंड 3, उप-खंड (ii) में एस.ओ. 935 (ई) दिनांक 08 अक्टूबर, 1988 और संशोधन एस.ओ. 1041 (ई) दिनांक 29 अगस्त, 2003, जीएसआर(ई) दिनांक 01 जुलाई, 2004 और 24 अगस्त, 2004 प्रकाशित हुआ था।

## भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 2012

(चार्टर्ड एकाउंटेंट्स)

सं. 29-सीए/लॉ/डी-216/2012--चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने, उक्त अधिनियम की ध

ारा 21(6)(ग) के अनुसरण में, चार्टर्ड एकाउंटेंट निर्देश सं. 1/2009 में 04 नवम्बर, 2011 को यह आदेश दिया है कि श्री परवीन कुमार कत्याल, एफसीए, चार्टर्ड एकाउंटेंट, 28 दूसरा तल, पुष्पा मार्केट, लाजपत नगर-2, नई दिल्ली-110024 (सदस्य सं. 082539) के नाम को, उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 के अधीन "अन्य अवचार" के अर्थान्तर्गत वृत्तिक अवचार का दोषी पाए जाने के कारण, एक वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री परवीन कुमार कत्याल का नाम तारीख 01 जून, 2012 से एक वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। उस अवधि के दौरान वह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के निबंधनानुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में व्यवसाय नहीं करेंगे।

टी. कार्तिकेयन  
सचिव

सं. 29-सीए/लॉ/डी-231/2012--चार्टर्ड एकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने, उक्त अधिनियम की धारा 21(6)(ग) के अनुसरण में, चार्टर्ड एकाउंटेंट निर्देश सं. 2/2009 में 28 मार्च, 2011 को यह आदेश दिया है कि श्री मनोज कुमार सचदेवा, एफसीए, चार्टर्ड एकाउंटेंट, ई-419, दूसरा तल, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048 (सदस्य सं. 085586) के नाम को, उन्हें चार्टर्ड एकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21 के साथ पठित धारा 22 के अधीन "अन्य अवचार" के अर्थान्तर्गत वृत्तिक अवचार का दोषी पाए जाने के कारण, तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए। तदनुसार, यह सूचित किया जाता है कि उक्त श्री मनोज कुमार सचदेवा का नाम तारीख 01 जून, 2012 से तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। उस अवधि के दौरान वह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के निबंधनानुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में व्यवसाय नहीं करेंगे।

टी. कार्तिकेयन  
सचिव

नई दिल्ली-110002, दिनांक 2 मई 2012

सं. 13-सी.ए. (परीक्षा)/आई.एस.ए/जून/2012--चार्टर्ड एकाउंटेंट्स रेगुलेशन 1988 (जो अधिसूचना संख्या-1/सी.ए. (7)/59/2001 दिनांक 28 सितम्बर 2001 के द्वारा संशोधित किया गया) के नियम-7 अनुसूची 'एफ' के रेगुलेशन 204 के अनुसार, दि कॉसिल ऑफ दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया को अधिसूचना जारी करने में प्रसन्नता है कि इन्फोरमेशन सिस्टम्स ऑडिट (आई.एस.ए.) कोर्स की निर्धारित परीक्षा (असेसमेन्ट टेस्ट) दिनांक 23 जून 2012 (शनिवार) को प्रातः 10.30 बजे से 2.30 बजे सांय तक निम्नलिखित केन्द्रों पर होगी, बशर्ते

कि प्रत्येक केन्द्र में परीक्षा के लिये पर्याप्त संख्या में परीक्षार्थी निवेदन करते हैं।

परीक्षा केन्द्र :--

1. आगरा
2. अहमदाबाद
3. अकोला
4. अमृतसर
5. औरंगाबाद
6. बैंगलोर
7. बरेली
8. भोपाल
9. भुवनेश्वर
10. चंडीगढ़
11. चेन्नई
12. कोयम्बटूर
13. दिल्ली/न्यू दिल्ली
14. देहरादून
15. फरीदाबाद
16. गोवा
17. गोहाटी
18. ग्वालियर
19. हैदराबाद
20. इंदौर
21. जबलपुर
22. जयपुर
23. जालन्धर
24. जमशेदपुर
25. जोधपुर
26. कानपुर
27. कोल्हापुर
28. कोलकाता
29. लखनऊ
30. लुधियाना
31. मुंबई

32. नागपुर

33. नासिक

34. पटना

35. पूना

36. रायपुर

37. राजकोट

38. रांची

39. सिलीगुड़ी

40. सूरत

41. श्रीसूर

42. वदोदरा

43. वापी

44. वाराणसी

45. विशाखापटनम्

परिषद् अपने विशेषाधिकार के अन्तर्गत किसी भी परीक्षा केन्द्र को किसी भी समय बिना कोई कारण दिये रद्द कर सकती है। यह परीक्षा इंस्टीट्यूट के केवल पात्र सदस्य जो कि पहले से ही पंजीकृत हैं के लिये है। इस परीक्षा (असेसमेन्ट टेस्ट) के लिये परीक्षा शुल्क 1,000/- (एक हजार रुपये) मात्र है।

परीक्षा शुल्क की राशि का भुगतान केवल डिमांड ड्राफ्ट द्वारा होगा जो किसी भी शेड्यूल बैंक का होना चाहिये डिमांड ड्राफ्ट 'सचिव' दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया के पक्ष में होना चाहिये और उसकी अदायगी नई दिल्ली पर हो। आवेदन पत्र उपयुक्त शुल्क के साथ इस प्रकार भेजा जाना चाहिए कि वह अपर सचिव (परीक्षा) के कार्यालय में दिनांक 01 जून, 2012 तक पहुंच जायें।

इस परीक्षा के लिये आवेदन निर्धारित आवेदन पत्रों पर ही किया जाना चाहिये जो कि अपर सचिव (परीक्षा), दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट ऑफ इंडिया, आईसीएआई भवन, इन्द्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली-110002 से 100/- रुपये प्रति आवेदन पत्र भुगतान करने पर मिल सकता है। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट के रीजनल और ब्रांचों के कार्यालय में भी उपलब्ध है और नकद भुगतान करने पर 14 मई, 2012 से प्राप्त किये जा सकते हैं। आवेदन पत्र इंस्टीट्यूट की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूआईसीएआई.ओआरजी से प्रिन्ट करके परीक्षा शुल्क 1,100/- रुपये डिमांड ड्राफ्ट के साथ भी भेजा जा सकता है। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 01 जून, 2012 है। आवेदन पत्र निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक द्वारा अपर सचिव (परीक्षा), नई दिल्ली को भेजा जाना है।

दिनांक 01 जून, 2012 के पश्चात् आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

जी. सोमशेखर  
अपर सचिव (परीक्षा)

मुंबई-400005, दिनांक 18 जनवरी 2012

3डब्ल्यूसीए(5)/1/2010-11 : संस्थान की अधिसूचना सं. 3डब्ल्यूसीए(4)/3/2009-2010, तारीख 28 दिसंबर, 2010 और 3डब्ल्यूसीए(4)/3/2010-2011, तारीख 4 अक्टूबर, 2011 के प्रतिनिर्देश से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् ने निम्नलिखित सदस्यों के नामों को उनके नामों के सामने दर्शित तारीखों से रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट कर लिया है :-

क्रम सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम	पुनः प्रविष्टि की तारीख
1.	003672	श्री कान्तन आर. श्रीनिवास एफसीए	01/10/2010
2.	005621	श्री जोशी एम. श्रीधरराव एफसीए	01/10/2010
3.	005635	श्री मेहता जी. शांतिलाल एफसीए	01/10/2010
4.	006938	श्री जोष एम. प्रल्हादरत्न एफसीए	01/10/2010
5.	007083	श्री अहूजा गोपाल मोदूमल एफसीए	01/10/2010
6.	007343	श्री वाकुर पी. भालचन्द्र एफसीए	01/10/2010
7.	007650	श्री साठे गंगाधर गणेश एफसीए	01/10/2009
8.	009205	श्री बेलायुधन मूथालाम्पेट एफसीए	01/10/2009
9.	009282	श्री एन. रामाकृष्णन एफसीए	01/10/2010
10.	009578	श्री गुजराली जतिन हरिलाल एफसीए	01/10/2010
11.	009694	श्री शाह आर. हरजीवनदास एफसीए	01/10/2010
12.	009798	श्री श्रीनिवासन जे एसीए	01/10/2009
13.	010058	श्री चौकीसी बी. आशालाल एफसीए	01/10/2010
14.	010398	श्री सुशीलचन्द्र टी. कयाडिया एसीए	01/10/2010
15.	011286	श्री खामटे एम. श्रीकृष्णा एसीए	01/10/2010
16.	011730	श्री नानावटी ए. चन्द्रकांत एफसीए	01/10/2010
17.	013502	श्री शेष शीतलभाई एस एफसीए	01/10/2010
18.	013743	श्री रामैया वीरेन्द्र लक्ष्मीदास एफसीए	01/10/2009
19.	013772	श्री पटेल प्रवीन विठ्ठलभाई एसीए	01/10/2010
20.	014383	श्री विलयम सैराव एफसीए	01/10/2010
21.	014395	श्री जगदीश पी टी एफसीए	01/10/2010
22.	015789	श्री सुब्रह्म दिवजेन्द्र देसाई एफसीए	01/10/2010
23.	015939	श्री उत्तम लाल जैन एफसीए	01/10/2010
24.	015983	श्री अय्यर सी. सुब्रह्मरामन एफसीए	01/10/2010
25.	016076	श्री शाह के. द्वारकादास एसीए	01/10/2010
26.	016365	श्री कल्याणरामन टी के एफसीए	01/10/2010
27.	016516	श्री रामाकृष्णन के बी एसीए	01/10/2009
28.	016575	श्री देवेन्द्र सी. मंडारी एफसीए	01/10/2010
29.	017324	श्री धरप श्रीकांत लक्ष्मण एसीए	01/10/2009
30.	017516	श्री डोलकिया बंकिमचन्द्र बी एसीए	01/10/2010
31.	017887	श्री विनोद जी. भंसाली एफसीए	01/10/2010
32.	017890	श्री विद्या जी. रणछोडभाई एसीए	01/10/2010
33.	017977	श्री भांडावत पारस एफसीए	01/10/2010
34.	019022	श्री मधु सुदन पी एसीए	01/10/2010
35.	021754	श्री सी. अय्यास्वामी एफसीए	01/10/2010
36.	022497	श्री वासुदेवन जी. एसीए	01/10/2010
37.	022648	श्री सी एस वैकिटेश्वरन एफसीए	01/10/2010
38.	023104	श्री एम गोवर्धन एफसीए	01/10/2010
39.	024289	श्री श्रीधर एस एसीए	01/10/2010
40.	024690	श्री सुब्रमनियम एस एसीए	01/10/2010
41.	027569	श्री श्रीधर डी एसीए	01/10/2009
42.	029998	श्री भारकर वी एसीए	01/10/2009
43.	030014	श्री बोहरा श्री गोपाल एफसीए	01/10/2009

44.	030071	श्री आर अनंताकृष्णन एफसीए	01/10/2009
45.	030141	श्री जासनी एच. मथुरादास एफसीए	01/10/2010
46.	030148	श्री देसाई शिरीश मनुभाई एफसीए	01/10/2010
47.	030186	श्री श्रीराम गोविन्द जोशी एफसीए	01/10/2010
48.	030286	श्री घाटे सी. भालचन्द्र एसीए	01/10/2010
49.	030332	श्री फर्नांडिस लेसली एफसीए	01/10/2010
50.	030412	श्री पटेल एन. ईश्वरभाई एफसीए	01/10/2010
51.	030486	श्री तुरेल सैम इंदुलजी एसीए	01/10/2010
52.	030501	श्री कोरिया जय प्रकाश एफसीए	01/10/2010
53.	030987	श्री कामत राजेन्द्र एकनाथ एसीए	01/10/2010
54.	031108	श्री जाधव विलास रामचन्द्र एफसीए	01/10/2010
55.	031134	श्री मुस्तफा याहयामाई जमाली एफसीए	01/10/2010
56.	031256	श्री शेटी बेल्सी मोहनदास एफसीए	01/10/2009
57.	032073	श्री पिंटे ग्लीसन पी एफसीए	01/10/2010
58.	032201	श्री अरुण बाबुलाल शाह एफसीए	01/10/2010
59.	032334	श्री अनिलकुमार आर. नय्यर एफसीए	01/10/2010
60.	032595	श्री मंडारी मदन एसीए	01/10/2009
61.	032606	श्री जोशी बी. नरहर एफसीए	01/10/2010
62.	032702	सुश्री सांधवी नीता नयन एसीए	01/10/2009
63.	032915	श्री रजनीकांत के. जोशी एसीए	01/10/2010
64.	033082	श्री अग्रवाल एन. हीरालाल एफसीए	01/10/2010
65.	033144	श्री सिन्हा मृणाल कुमार एसीए	01/10/2010
66.	033225	श्री अरविन्द गंगाधर घाग एफसीए	01/10/2010
67.	033260	श्री रायगांधी वी. श्रीकचंद एफसीए	01/10/2010
68.	033387	श्री शाह अनिल नरेन्द्र एफसीए	01/10/2010
69.	033392	श्री शिंदे शिवाजी अर्जुन एफसीए	01/10/2010
70.	033425	श्री शाह गौतम देवशीभाई एसीए	01/10/2010
71.	033504	श्री नालावडी ओनील यशवंत एसीए	01/10/2010
72.	033970	श्री विपिनकुमार के. मेहता एसीए	01/10/2010
73.	034149	श्री गुप्ता ए.आर. मदनलाल एसीए	01/10/2010
74.	034332	श्री महेश एस. शेटी एफसीए	01/10/2010
75.	034357	श्री गांधी आर. वसंतकुमार एफसीए	01/10/2010
76.	034402	श्री सतरा विजय नानजी एफसीए	01/10/2010
77.	034537	सुश्री डॉंगरेवृशाली एस. एसीए	01/10/2010
78.	034563	श्री बोरसे अशोक भास्करराव एफसीए	01/10/2010
79.	034679	श्री सिकंदर विसेट पं.ल एफसीए	01/10/2009
80.	034726	श्री निखिल सी. मोरसावाला एफसीए	01/10/2010
81.	034763	श्री शाह ए. रतिलाल एफसीए	01/10/2010
82.	034775	श्री लांबा अनिल शिवराम एफसीए	01/10/2010
83.	035120	श्री काले सोपान गणु एफसीए	01/10/2010
84.	035311	श्री करिंतिनकुमार आर. मेहता एफसीए	01/10/2010
85.	035535	श्री उपाध्याय एन. ललितकुमार एफसीए	01/10/2009
86.	035750	सुश्री सूर्यानारायणन मैथिली एफसीए	01/10/2010
87.	035778	श्री जोशी अरुण गोविन्द एफसीए	01/10/2010
88.	035821	श्री कल्पेश कनकावी दागली एसीए	01/10/2010
89.	036259	श्री अवाल एस. यशवंतराय एसीए	01/10/2010



90.	036316	श्री पटेल कल्पेश अंबालाल एसीए	01/10/2010
91.	036345	श्री कुलकर्णी प्रदीप विठ्ठल एसीए	01/10/2010
92.	036496	श्री शाह गिरिश लक्ष्मीचंद एफसीए	01/10/2009
93.	036531	श्री श्रीकर एम. बालजेकर एसीए	01/10/2009
94.	036535	श्री सावंत एम. सीताराम एसीए	01/10/2010
95.	036776	श्री दलाल एम. जयेंद्रभाई एफसीए	01/10/2010
96.	036922	श्री श्रीराम वैद्यनाथ एफसीए	01/10/2010
97.	037064	श्री हेगडे के. प्रभाकर एफसीए	01/10/2010
98.	037192	श्री सम्भूत आर. काशीनाथ एफसीए	01/10/2010
99.	037288	श्री बलराम एम. चंगावल्ली एसीए	01/10/2010
100.	037362	श्री शाह प्रकाश रसिकलाल एसीए	01/10/2010
101.	037458	श्री मेहता डी. बिपिनचन्द्र एफसीए	01/10/2010
102.	037618	श्री नाडकरनी जयंत शंकर एफसीए	01/10/2010
103.	037654	श्री शाह जयेश अरुणकुमार एसीए	01/10/2010
104.	037707	श्री घाटे हिमांशु एकनाथ एफसीए	01/10/2009
105.	037709	श्री शाह नरेन्द्र फूलचंद एसीए	01/10/2010
106.	037717	श्री रमेश एम. चिचानी एसीए	01/10/2010
107.	037983	श्री दलाल प्रशांत सूर्यकांत एफसीए	01/10/2010
108.	038053	श्री उदास किशोर प्रभाकर एसीए	01/10/2010
109.	038106	श्री गोरे किशोर नाचयण एफसीए	01/10/2010
110.	038328	श्री सलियन जयंता नागपा एफसीए	01/10/2010
111.	038463	श्री रमेशचन्द्र एम. नागर एफसीए	01/10/2010
112.	038474	श्री सेवक एस. भवरलाल एफसीए	01/10/2010
113.	038510	श्री पारिख डी. प्रवीनचन्द्र एफसीए	01/10/2010
114.	038553	श्रीमती सुर्गा कमलापुत्री एफसीए	01/10/2009
115.	038634	श्री जोशी किशोर रामबाबु एफसीए	01/10/2010
116.	038642	श्री लालवानी अजय बहाल एसीए	01/10/2010
117.	038647	श्री खान इस्तियाक ए.एस. हक एफसीए	01/10/2010
118.	038756	श्री पावरी सुनील मनुभाई एफसीए	01/10/2010
119.	038869	श्री लाहोटी विकास एसीए	01/10/2010
120.	039063	श्री मोलेदिना एम. मोहम्मदअली एफसीए	01/10/2010
121.	039132	श्री दरे शैलेश जयंतभाई एफसीए	01/10/2010
122.	039391	सुश्री तलसानिया जयश्री सुधीर एफसीए	01/10/2010
123.	039501	श्री दत्ताप्रसाद के. उगरेकर एफसीए	01/10/2010
124.	039595	श्री त्रिवेदी बी.के. जयंतीलाल एफसीए	01/10/2010
125.	039714	श्री कृष्ण वेंकटचलम एफसीए	01/10/2010
126.	039740	श्री शाह नयनेश कांतिलाल एफसीए	01/10/2010
127.	039784	श्री सेठी मनोज एफसीए	01/10/2010
128.	039822	श्री स्वामी आर. नाचयण एसीए	01/10/2010
129.	039858	श्री मेहता बी. कांतिलाल एसीए	01/10/2010
130.	039867	श्री जैन एस. फुटेरमल एफसीए	01/10/2010
131.	040103	श्री शुक्ला विवेक जयंत एफसीए	01/10/2010
132.	040210	श्री शाह भक्त वनमालीदास एफसीए	01/10/2010
133.	040336	श्री राकेश जी. पाठक एफसीए	01/10/2009
134.	040339	श्री अय्यर के. सेसन एफसीए	01/10/2010
135.	040399	श्री मनोज जे. राठौर एफसीए	01/10/2010
136.	040448	श्री एस. गोविन्दस्वामी एफसीए	01/10/2010
137.	040507	श्री काखर ए. मेनघारम एफसीए	01/10/2010
138.	040832	श्री अनिल एल. बोधरा एफसीए	01/10/2009
139.	040858	श्री खुराना आर.के. कृष्ण एसीए	01/10/2010
140.	041029	श्री गुणवंत के. कोटेचा एसीए	01/10/2010
141.	041087	श्री देनकर पी. सुधाकर एसीए	01/10/2010
142.	041188	श्री कृष्ण के. कंवल एसीए	01/10/2010
143.	041267	श्री अडवानी पी. तोलाराम एफसीए	01/10/2010
144.	041341	सुश्री जयश्री आर. एफसीए	01/10/2010
145.	041542	सुश्री देसाई एस. ईश्वरलाल एफसीए	01/10/2010

146.	041565	श्री पोतदार वी. केशव एसीए	01/10/2009
147.	041632	श्री अय्यर वी. समानाथन एसीए	01/10/2010
148.	041634	श्रीमती नलिनी एल. सीए	01/10/2010
149.	041713	श्री अशोक आर. चितलगे एफसीए	01/10/2010
150.	041814	श्री आचार्य सी. इंदोरदेव एसीए	01/10/2010
151.	042010	श्री फिचादिया ए. कांतिलाल एसीए	01/10/2010
152.	042196	श्री सक्तीकर यू. श्रीराम एसीए	01/10/2010
153.	042299	श्री कजरकर एम. बालकृष्ण एसीए	01/10/2010
154.	042514	श्री प्रवीन के. चौधरी एसीए	01/10/2010
155.	042587	सुश्री मक्कावाला आर. फखरुद्दीन एफसीए	01/10/2010
156.	042665	श्री कामथ एस. रत्नाकर एसीए	01/10/2009
157.	042700	श्री चौधरी बी. सिंह एफसीए	01/10/2010
158.	042702	श्री जानी तुषार योगेन्द्र एफसीए	01/10/2010
159.	042840	सुश्री राजपूत एन. चेतन एफसीए	01/10/2009
160.	042981	सुश्री माने सतीश उषवरराव एफसीए	01/10/2010
161.	043046	सुश्री फादिया पिकू सुभाष एसीए	01/10/2009
162.	043185	श्री अटल संजय सुरजमल एफसीए	01/10/2010
163.	043219	श्री राडिया मुकेश हंसराज एफसीए	01/10/2010
164.	043449	श्री जहागीरदार पी. वासुदेव एफसीए	01/10/2010
165.	043512	श्री कुलकर्णी एच. अनंत एफसीए	01/10/2010
166.	043537	श्री फजल एम.ए. सैयद एफसीए	01/10/2010
167.	043549	श्री कृष्णकुमार वी. एसीए	01/10/2010
168.	043631	श्री चतुर्वेदी सी. प्रकाश एसीए	01/10/2010
169.	043645	श्री व्यास नरेन्द्र एन. एफसीए	01/10/2010
170.	043665	श्री राजेन्द्र एस. एफसीए	01/10/2010
171.	043686	श्री नईमुद्दीन जे. अंसारी एफसीए	01/10/2010
172.	043823	श्री फिलिप ए. रोडरिगज एसीए	01/10/2009
173.	043949	श्री तेज प्रकाश डी. एफसीए	01/10/2010
174.	043950	श्री नांगलिया एच. एसीए	01/10/2010
175.	044063	सुश्री महालक्ष्मी आर. मुदलियार एसीए	01/10/2010
176.	044165	श्री देव पीयूष सुधाकर एसीए	01/10/2010
177.	044278	श्री वेंकटसुब्रह्मनियन बी. अय्यर	01/10/2010
178.	044398	श्री पटेल प्रणय जयंतिलाल एसीए	01/10/2009
179.	044419	श्री चांदवानी एन. अर्जुनदास एसीए	01/10/2010
180.	044424	श्री ठक्कर ए. रणछोडदास एफसीए	01/10/2009
181.	044626	श्री सुनील सी. खिनवसास एफसीए	01/10/2010
182.	044655	श्री विजय बी. वालवाडकर एफसीए	01/10/2010
183.	044768	श्री ललित एस. एसीए	01/10/2009
184.	044951	श्री शाह भक्त कंचनलाल एफसीए	01/10/2009
185.	044983	श्री बालासुब्रह्मनियन सुरेश एसीए	01/10/2010
186.	045008	श्री राजेश कुमार मुन्ना एफसीए	01/10/2010
187.	045034	श्री राजेश कृष्णप्पा कोटियन एसीए	01/10/2010
188.	045338	सुश्री गांधी मोनिका आर एसीए	01/10/2010
189.	045381	श्री संदीप विकास मुखर्जी एफसीए	01/10/2010
190.	045445	श्री राजीव कुमार सिंघल एफसीए	01/10/2009
191.	045581	श्री पंजवानी एन. अलीमोहम्मद एफसीए	01/10/2009
192.	045707	श्री छजेड अजीत भगवानदास एफसीए	01/10/2010
193.	045713	श्री डॉक्टर नादिर महियार एसीए	01/10/2009
194.	045957	श्री तावडे ए. व्यंकटेश एसीए	01/10/2010
195.	046002	श्री शाह एस. मनुभाई एफसीए	01/10/2010
196.	046026	श्री क्लेट्स जेरोम डिसूजा एसीए	01/10/2010
197.	046087	श्री करीम ए एम गंगानी एफसीए	01/10/2010
198.	046127	श्री मेहता एन. चन्द्रकांत एफसीए	01/10/2009
199.	046291	श्री विपुल कांतिलाल सीमथ्या एफसीए	01/10/2010
200.	046343	श्री अभित ओमप्रकाश गुप्ता एफसीए	01/10/2010

201.	046374	श्री गांधी के. ताराचंद एफसीए	01/10/2010
202.	046456	श्री पाठक एस. मधुसूदन एसीए	01/10/2010
203.	046528	श्री अमर एस. दीक्षित एफसीए	01/10/2010
204.	046574	सुश्री सुनीता एस. नारंग एफसीए	01/10/2010
205.	046623	श्री माली आनंद सीताराम एसीए	01/10/2010
206.	046675	सुश्री वंदना रमेश पाकले एसीए	01/10/2009
207.	046687	श्री नागर अश्विन कुमार एफसीए	01/10/2010
208.	046729	श्री जगोतिया श्री राम एसीए	01/10/2010
209.	046798	श्री महेन्द्र के. भरतेचा एफसीए	01/10/2010
210.	046886	श्री चौकर मिलिंद अरविन्द एसीए	01/10/2010
211.	046902	श्री राजुभाई एस. जरीवाल एसीए	01/10/2010
212.	046930	श्री भट्ट आर. कुमुदचन्द्र एसीए	01/10/2010
213.	046943	श्री मेहता परेश हिममलाल एसीए	01/10/2010
214.	046975	श्री नायर अजीत वेलायुधन एसीए	01/10/2010
215.	046981	श्री मखीजा महेश उषव एफसीए	01/10/2010
216.	047020	श्री गुप्ता ए. रोशनलाल एसीए	01/10/2009
217.	047093	श्री अजय बालकृष्णा भटवाल एफसीए	01/10/2009
218.	047177	सुश्री अपर्णागिरी गिरिश फाटक एसीए	01/10/2010
219.	047181	श्री सचदेव आर. कृष्णाकुमार एसीए	01/10/2010
220.	047196	श्री जोशी एम. मधुसूदन एफसीए	01/10/2010
221.	047204	श्री जावकर एम. विजयकुमार एसीए	01/10/2010
222.	047296	श्री परांजपे पी. वासुदेव एफसीए	01/10/2010
223.	047309	श्री रामप्रसाद जे. एसीए	01/10/2010
224.	047408	श्री वकनाली एस. प्रभाकर एसीए	01/10/2010
225.	047437	श्री अजय मदान एफसीए	01/10/2010
226.	047454	श्री जैन एम. कुमार कांतिलाल एसीए	01/10/2010
227.	047471	श्री चितलगे वी. सीतासम एसीए	01/10/2010
228.	047487	श्री बंगलोरवाला सी. रतिलाल एसीए	01/10/2009
229.	047576	श्री अनिल अरविन्द कुलकर्णी एफसीए	01/10/2010
230.	047623	श्री संजीव रामचन्द्र कोसे एफसीए	01/10/2010
231.	047635	सुश्री मेधा महेश जावकर एसीए	01/10/2010
232.	047680	श्री मनोज नारायण एसीए	01/10/2010
233.	047728	सुश्री शाह कविता राकेश एफसीए	01/10/2010
234.	047824	श्री उदयकुमार सुब्रह्मण्य एफसीए	01/10/2010
235.	047836	श्री म्हैसकर माधव जयंत एसीए	01/10/2009
236.	047883	श्री बजाज पी गोपीनाथ एफसीए	01/10/2010
237.	047898	श्री कृष्णामूर्ति के. एसीए	01/10/2009
238.	047922	श्री शर्मा राजेश कुमार एसीए	01/10/2010
239.	047980	श्री नीलजीकर सतीश वासुदेव एफसीए	01/10/2010
240.	048081	श्री रमेश के.टी. एसीए	01/10/2010
241.	048187	श्री विक्रम एस केलकर एसीए	01/10/2010
242.	048259	श्री सचिन शरद टिपनीस एफसीए	01/10/2010
243.	048554	श्री गोखले एम. गजानन एसीए	01/10/2010
244.	048610	श्री जैन हंसमुख लाल एसीए	01/10/2010
245.	048747	श्री फादिया अमर हर्षद एसीए	01/10/2010
246.	048757	श्री अग्रवाल एच. धनराज एसीए	01/10/2009
247.	048813	श्री कमल एस. कोठारी एसीए	01/10/2010
248.	048896	श्री चटवानी विपुल जमनादास एसीए	01/10/2010
249.	048909	श्री मिस्त्री संजय सुंदरलाल एसीए	01/10/2010
250.	048931	श्री नालावदी एस. यशवंत एसीए	01/10/2010
251.	048998	सुश्री दीप्ति विशाल शाह एसीए	01/10/2010
252.	049003	श्री दारुवाला सुशील रेज्डी एसीए	01/10/2010
253.	049029	सुश्री नेहा संघवी एसीए	01/10/2010
254.	049066	श्रीमती मेरीएनी सी. मेन्डोन्का एसीए	01/10/2010
255.	049074	श्रीमती शर्मिष्ठी एस. कुलकर्णी एसीए	01/10/2010
256.	049099	श्री मेहता एम. प्रदीपकुमार एसीए	01/10/2010

257.	049129	श्री जगोतिया श्याम लाल एसीए	01/10/2010
258.	049182	श्री दीपक अर्जुन शिंदे एफसीए	01/10/2010
259.	049215	श्री मल्लु संजय हनुमान एसीए	01/10/2010
260.	049382	सुश्री सिमरन राम मनसुखानी एसीए	01/10/2010
261.	049384	श्री अडवानी खेल सावु एसीए	01/10/2010
262.	049524	श्री सुनील दत्ताराम कुलकर्णी एफसीए	01/10/2010
263.	049538	सुश्री सचवानी के. बालकृष्ण एसीए	01/10/2010
264.	049746	श्री गंडेजा ए. मधुसूदन एफसीए	01/10/2010
265.	049759	श्री प्रशांत आर. कोयान्दे एफसीए	01/10/2010
266.	049767	श्री हुशद होशांग रानीना एफसीए	01/10/2010
267.	049807	श्री गंगवानी विजय चंदर एसीए	01/10/2010
268.	049809	श्री सचिन वाई. मारदीकर एफसीए	01/10/2009
269.	049848	श्रीमती मीनल राजेश गाला एफसीए	01/10/2009
270.	050770	श्री कमल किशोर नारिया एफसीए	01/10/2010
271.	052063	श्री हरी शंकर बॅनर्जी एसीए	01/10/2009
272.	052903	श्री नायर रंगेश एसीए	01/10/2010
273.	054226	श्री अनिल मोदानी एफसीए	01/10/2010
274.	056637	श्री अनुज गोयल एफसीए	01/10/2009
275.	057491	श्री सुरना संजय कुमार एसीए	01/10/2010
276.	057566	श्री रॉय बिधान चन्द्र एफसीए	01/10/2010
277.	057570	श्री कार अनिरुध्न एसीए	01/10/2010
278.	057765	श्री रॉय सुमन एसीए	01/10/2009
279.	057929	श्री सील सुदीप्ता एसीए	01/10/2010
280.	058093	सुश्री जैन लीना एफसीए	01/10/2010
281.	058538	श्री छायाजी मनोज सुंदर एफसीए	01/10/2010
282.	059282	श्री सुदीप चौधरी एसीए	01/10/2010
283.	059400	सुश्री मुन्ना सुजाता एसीए	01/10/2010
284.	059517	श्री दलाल संजोय एसीए	01/10/2010
285.	060557	श्रीमती शालिनी मेमानी एसीए	01/10/2010
286.	060772	श्री नहाट राजेश कुमार एसीए	01/10/2010
287.	062349	सुश्री अग्रवाल विनीता एसीए	01/10/2009
288.	062724	श्री मिश्रा अजय कुमार एसीए	01/10/2010
289.	063010	श्री अग्रवाल जीतेन्द्र एसीए	01/10/2010
290.	064151	श्री सतनालिका सोमेश एसीए	01/10/2010
291.	064600	सुश्री श्रुति झा एसीए	01/10/2010
292.	070256	श्री तारा चंद छेजारा एफसीए	01/10/2009
293.	070415	श्री मित्तल अतुल कुमार एफसीए	01/10/2010
294.	070452	श्री मदन लाल छाजेर एसीए	01/10/2009
295.	070452	श्री मदन लाल छाजेर एसीए	01/10/2010
296.	071785	श्री मल्होत्रा अनिल दत्त एफसीए	01/10/2010
297.	072500	सुश्री शास्त्रा रामचन्द्रन एसीए	01/10/2009
298.	072888	श्री संजीव कुमार विजय एसीए	01/10/2010
299.	073205	श्री चन्द्रा पी गोयल एफसीए	01/10/2010
300.	074512	श्री मणि पी. एसीए	01/10/2009
301.	075006	श्री राजेश कुमार अग्रवाल एफसीए	01/10/2010
302.	075078	श्री संजय कुमार जैन एफसीए	01/10/2010
303.	075379	श्री मनोज कुमार एसीए	01/10/2010
304.	075544	श्री गर्ग विनीत एफसीए	01/10/2010
305.	075680	श्री शर्मा सुनील कुमार एफसीए	01/10/2010
306.	075739	श्री राकेश साखरवत एफसीए	01/10/2010
307.	075772	श्री पवन कुमार भूतरा एसीए	01/10/2010
308.	076186	श्री अग्रवाल पुरुषोत्तम एसीए	01/10/2010
309.	077563	श्री शरद बुधिया एसीए	01/10/2009
310.	078409	श्री सिद्धार्थ जैन एसीए	01/10/2010
311.	079527	श्री ऐश्वर्या दीपक एसीए	01/10/2010
312.	080081	श्री शांताराम जी. लाटकर एसीए	01/10/2010

313.	080977	श्री भानोजी आर. टंकाला एफसीए	01/10/2010
314.	085553	श्री छाबड़ा पवन कुमार एफसीए	01/10/2010
315.	086256	श्री राजन एस एन एसीए	01/10/2009
316.*	089567	श्री सुनील कुमार रस्तोगी एसीए	01/10/2010
317.	093407	श्री झाब अजय एफसीए	01/10/2010
318.	094038	श्री अडवानी कविता एफसीए	01/10/2010
319.*	094991	श्री कुकरेजा विकास एसीए	01/10/2009
320.	096206	सुश्री गुरविन्दर कौर बावा एसीए	01/10/2010
321.	097697	श्री हरिहर प्रसाद पी जी एसीए	01/10/2010
322.	100025	सुश्री शेट्टी शामा शेकर एसीए	01/10/2010
323.	100043	सुश्री मादमादे अंजली राहुल एसीए	01/10/2010
324.	100090	श्री बाटलीवाला आर. दिनशा एसीए	01/10/2010
325.	100117	श्री मनीष वी. शाह एफसीए	01/10/2010
326.	100177	श्री सुदर्शन एच. मदन एसीए	01/10/2010
327.	100238	श्री सुनील श्रीपद फली एसीए	01/10/2010
328.	100257	श्री शास्त्राज एस.के. कंवर एसीए	01/10/2009
329.	100269	श्री शाह अमित भूपेन्द्र एसीए	01/10/2010
330.	100286	श्री मिश्रा अनूप कुमार एसीए	01/10/2010
331.	100303	सुश्री पई शीला नारायण एसीए	01/10/2010
332.	100340	श्री पिल्लै एस. भार्गव एसीए	01/10/2010
333.	100451	श्री दत्ताल समीर भूपेन्द्र एसीए	01/10/2010
334.	100586	श्री परंजपे एस. सुरेश एसीए	01/10/2010
335.	100668	श्री बंगलौर आर. गोपाल एसीए	01/10/2009
336.	100727	श्री अमिताभ जे. खेमका एफसीए	01/10/2009
337.	100924	श्री रामासुब्रमनियम एच. एसीए	01/10/2010
338.	101004	श्री सुंदरम ए. एसीए	01/10/2010
339.	101056	श्री वैभव भारत सली एफसीए	01/10/2010
340.	101078	श्री गिरिशकुमार एस. गौड एफसीए	01/10/2009
341.	101102	श्री बम्ब मयूर सुभाष एसीए	01/10/2010
342.	101130	कारदोसो एस. इदा एसीए	01/10/2010
343.	101167	श्री शाह परेश देवेन्द्र एसीए	01/10/2010
344.	101275	श्री जोसफ मनी एसीए	01/10/2010
345.	101303	सुश्री गोडबोले आर. हर्षवर्धन एसीए	01/10/2010
346.	101337	श्री मुन्वर एम. अनवारे एफसीए	01/10/2010
347.	101352	श्री देवमंजरी सी. मर्चेंट एफसीए	01/10/2010
348.	101354	श्री मनीष असावा एसीए	01/10/2009
349.	101357	श्री मुन्ना विजय नटवरलाल एसीए	01/10/2009
350.	101379	श्री राजेश कुमार समदानी एसीए	01/10/2010
351.	101460	श्री आशिष जी के गोवल एसीए	01/10/2010
352.	101476	श्री विपुल प्रवीनचन्द्र शाह एफसीए	01/10/2009
353.	101549	सुश्री गोखले गौरी विनायक एसीए	01/10/2009
354.	101576	श्री माधुवनचेरी एन. बेबी एसीए	01/10/2009
355.	101723	श्रीमती रेखा संजय पई एसीए	01/10/2010
356.	101732	सुश्री लक्ष्मी एल एफसीए	01/10/2010
357.	101846	श्रीमती गंगोत्री कोरके एसीए	01/10/2010
358.	101892	श्री पालन मेहुल जयंत एसीए	01/10/2009
359.	101958	श्री श्रीराम वी. एसीए	01/10/2010
360.	101960	श्री मुखर्जी आर. रंजन एसीए	01/10/2009
361.	101989	सुश्री शास्त्रा जी. भावे एसीए	01/10/2010
362.	102054	श्री वैकटकृष्णन एस. एसीए	01/10/2009
363.	102084	श्री पाई संजय रामनाथ एसीए	01/10/2010
364.	102096	श्री विपुल मुरजी गाला एफसीए	01/10/2010
365.	102166	सुश्री डियास मिल्डरेड आनंद एसीए	01/10/2009
366.	102192	श्री कुणाल प्रवीन शाह एफसीए	01/10/2010
367.	102238	श्रीमती पिकी हौरन शाह एसीए	01/10/2010
368.	102238	सुश्री डिपूजा ई.एफ. एंथोनी एसीए	01/10/2010

369.	102240	सुश्री आनंद रचना के. एसीए	01/10/2009
370.	102254	सुश्री माधवी श्रीकांत फडके एसीए	01/10/2010
371.	102264	श्री लेले विश्वास शाम एसीए	01/10/2009
372.	102264	श्री लेले विश्वास शाम एसीए	01/10/2010
373.	102265	श्री सौरभ प्रकाश कुलकर्णी एसीए	01/10/2010
374.	102283	श्री दवे भावेश हरीशभाई एसीए	01/10/2010
375.	102354	सुश्री रेडकर अर्चना राजा एसीए	01/10/2010
376.	102524	श्री अशोक राजु शेट्टी एफसीए	01/10/2010
377.	102552	श्री अजीज जी कोटादिया एफसीए	01/10/2010
378.	102597	श्री खासगीवाला ए. अहमद एसीए	01/10/2010
379.	102743	श्री शाह मेहुल किरन एसीए	01/10/2010
380.	102757	श्री नवीनकुमार एस. बडजात्या एफसीए	01/10/2010
381.	102797	श्री गोपाल सी. पांडे एफसीए	01/10/2010
382.	102848	श्री राकेश पी जैन एफसीए	01/10/2010
383.	102874	श्री हेमल किशोर उचट एसीए	01/10/2010
384.	102921	सुश्री डिमेलो लॉरेन मरिया एसीए	01/10/2010
385.	102984	श्री शरदकुमार जी. पुरोहित एफसीए	01/10/2009
386.	103055	श्री लक्ष्मीनारायण पी. कार्तिकेयन ए.	01/10/2010
387.	103133	श्री शाह अमित हेमन्त एसीए	01/10/2010
388.	103175	श्री बारलोटा पी. परमल एसीए	01/10/2010
389.	103207	श्रीमती सैफाली डी. सेहवानी एफसीए	01/10/2009
390.	103225	श्री निरंजन वसंतलाल मोदी एफसीए	01/10/2010
391.	103284	श्री विकास विजयकुमार खेमानी एफसीए	01/10/2010
392.	103339	श्री दिनेश कुमार लोढा एसीए	01/10/2010
393.	103356	श्री शाह धवल एच. एसीए	01/10/2009
394.	103408	श्री दीपक मुन्ना एसीए	01/10/2010
395.	103416	श्री मुंजाल बंकिम अल्मोला एसीए	01/10/2010
396.	103452	श्री अग्रवाल एस. राजबहादुर एसीए	01/10/2010
397.	103594	श्री पैदास्कर एस. श्रीपद एसीए	01/10/2010
398.	103596	श्री रघुवीर अजवानी एसीए	01/10/2010
399.	103601	श्री काठे अनिल लक्ष्मण एसीए	01/10/2009
400.	103624	श्री मेनन ए. श्रीधर एसीए	01/10/2010
401.	103704	श्री पलितनवाल एच.एस. हुसैन	01/10/2010
402.	103813	सुश्री वागले एस. शरदकुमार एसीए	01/10/2009
403.	103913	श्री मिहिर चंदुलाल सेलरका एफसीए	01/10/2010
404.	104019	श्रीमती मधुर एम. कस्मबेलकर एसीए	01/10/2010
405.	104037	श्री हेतल आर. शाह एसीए	01/10/2010
406.	104065	श्री श्रीधर आर.ए. नारायणस्वामी एफसीए	01/10/2009
407.	104130	श्री कल्पेश नीतिश शाह एसीए	01/10/2009
408.	104134	श्री रमेश के. स्पेशचन्द्र एसीए	01/10/2010
409.	104148	श्री मुखी ए. हाजीमोहम्मद एसीए	01/10/2010
410.	104195	श्री लीमेश के. गांधी एफसीए	01/10/2009
411.	104216	श्री गणेश अन्ना शेट्टी एफसीए	01/10/2010
412.	104306	श्री विजय ए. मोरे एफसीए	01/10/2010
413.	104505	श्री हरीश के. कोठारी एफसीए	01/10/2009
414.	104511	श्री विशाल कुमार आर. बंदलीश एसीए	01/10/2010
415.	104524	श्री नरेन्द्र एल. दवे एसीए	01/10/2010
416.	104608	सुश्री काजल एस. कामत एसीए	01/10/2010
417.	104654	श्री मुकेश कुमार देवपुरा एफसीए	01/10/2009
418.	104656	श्री विक्रम प्रल्हाद कुमताकर एसीए	01/10/2009
419.	104665	श्री समीर विनोदचन्द्र शाह एफसीए	01/10/2010
420.	104775	श्री दुदिया चेतनकुमार बी. एसीए	01/10/2010
421.	104811	श्री केतन सुभाष कुलकर्णी एसीए	01/10/2010
422.	104823	श्री मनोज दामोदर पुरोहित एफसीए	01/10/2010

423.	104853	श्री प्रवीन बंसीलाल खारवा एफसीए	01/10/2009	479.	107536	श्री मिहिर एस. पुजारा एफसीए	01/10/2010
424.	104879	श्री दयानंद अरुण खीरे एफसीए	01/10/2010	480.	107682	श्री अजीत रामकृष्ण शेट्टी एफसीए	01/10/2010
425.	104959	सुश्री सधा महादेवन एसीए	01/10/2010	481.	107701	श्री अमोद रामचन्द्र गोखले एसीए	01/10/2010
426.	105033	श्री माबेन अगस्तीन जेम्स एसीए	01/10/2010	482.	107805	श्री अमोघ रविन्द्र गोरे एसीए	01/10/2009
427.	105273	श्री हिमांशु बी. देसाई एसीए	01/10/2010	483.	107849	सुश्री प्रियंका एच. शाह एसीए	01/10/2009
428.	105356	श्री अग्रवाल एस. ओमप्रकाश एसीए	01/10/2010	484.	107901	सुश्री सोनल देवेन्द्र वेदक एसीए	01/10/2010
429.	105362	श्री कल्पेश बी. देसाई एसीए	01/10/2010	485.	107930	श्री हितेश चन्द्रकांत शाह एसीए	01/10/2010
430.	105392	श्रीमती अनिता नीलेश डांगे एसीए	01/10/2010	486.	107946	श्री चंदर प्रकाश गुरनानी एसीए	01/10/2010
431.	105401	श्री देवांगकुमार पी. प्रजापति एसीए	01/10/2010	487.	107950	श्री अग्रवाल राजेश एफसीए	01/10/2010
432.	105556	श्री रुपल रमेश पंचाल एसीए	01/10/2010	488.	107970	श्री के. सर्वकटेशन एसीए	01/10/2010
433.	105647	श्री रामप्रसाद जे एसीए	01/10/2009	489.	108012	श्री शेटे अमित एसीए	01/10/2010
434.	105725	श्री फनेन्द्र एच. मुनोट एफसीए	01/10/2010	490.	108133	श्री राहुल यशवंत सुतार एसीए	01/10/2010
435.	105796	श्री भस्त एस. दीघे एसीए	01/10/2010	491.	108174	श्री राकेश के. त्रिपाठी एसीए	01/10/2010
436.	105803	श्री कमलेश नवस्तनमल जैन एसीए	01/10/2010	492.	108178	श्रीमती अदिती मेहुल शाह एसीए	01/10/2010
437.	105810	श्री कमलेश पी. खांडेर एफसीए	01/10/2010	493.	108248	श्री तुषार दिनेश शाह एसीए	01/10/2010
438.	105812	सुश्री वृत्ति शाशिकांत गावठे एसीए	01/10/2009	494.	108265	श्री बलराज हिममतलाल खाखर एफसीए	01/10/2010
439.	105822	श्री विश्वास हेनरी देसाई एसीए	01/10/2010	495.	108305	श्री संदीपकुमार नानजी सले एसीए	01/10/2009
440.	105978	श्री पुनीत सी. सनोन एसीए	01/10/2010	496.	108305	श्री संदीपकुमार नानजी सले एसीए	01/10/2010
441.	105980	श्री तातीपस्ती एस. राव शास्त्री एफसीए	01/10/2010	497.	108471	श्री केवल महेन्द्र मुनि एसीए	01/10/2010
442.	105996	श्री अमीतकुमार अशोक जैन एसीए	01/10/2010	498.	108483	श्री अभिनव जैन एफसीए	01/10/2009
443.	105998	सुश्री आशादेवी जे. पाठक एसीए	01/10/2010	499.	108495	श्रीमती पल्लवी ए. पाटनकर एफसीए	01/10/2010
444.	106071	श्री जयंत तुकाराम फालके एफसीए	01/10/2010	500.	108503	श्री एकनाथ बी. खापने एसीए	01/10/2010
445.	106100	श्री नरेन्द्र सुरेश जोशी एसीए	01/10/2010	501.	108562	श्रीमती करुणा पंकज मट्ट एसीए	01/10/2010
446.	106118	श्री लिसटन चार्ल्स लेवीस एसीए	01/10/2010	502.	108615	श्रीमती मृणाल मंदर थोराट एसीए	01/10/2010
447.	106199	श्री सवजीकुमार जी. सुखादिया एसीए	01/10/2010	503.	108668	श्रीमती निवेदिता आर. पंचवाघ एसीए	01/10/2010
448.	106227	श्री समीर अशोक भालेराव एसीए	01/10/2010	504.	108684	श्रीमती संजल समीर शाह एसीए	01/10/2010
449.	106235	श्री धीरज शांतिलाल ओस्वाल एफसीए	01/10/2010	505.	108812	श्री जयप्रकाश एस. शेवीया एफसीए	01/10/2010
450.	106268	श्री जैमित डी. वसावाडा एफसीए	01/10/2010	506.	108829	श्री आशुतोष रविन्द्र जोशी एसीए	01/10/2010
451.	106376	श्री केंतनकुमार एस. शाह एसीए	01/10/2010	507.	108921	श्री सीतल एन. शंकरगौडा एफसीए	01/10/2010
452.	106420	श्री श्यामसुंदर ए. एसीए	01/10/2010	508.	108962	श्री श्यामसुन्दर एम. बालिगा एसीए	01/10/2010
453.	106442	श्री अरुण कुंजुमन थम्पी एसीए	01/10/2009	509.	108964	श्री प्रशांत सी. शाह एसीए	01/10/2009
454.	106497	श्री डिसूजा मारियो एसीए	01/10/2010	510.	109003	श्री घोलम एच.ए. मंसूरी एसीए	01/10/2009
455.	106590	श्री सुनील बुडीवाला एफसीए	01/10/2010	511.	109039	श्री नितिन पी. कटारिया एसीए	01/10/2010
456.	106593	श्रीमती हेमा उपेन देसाई एफसीए	01/10/2010	512.	109040	श्री कुणाल कीर्ति शाह एसीए	01/10/2009
457.	106608	श्री योगेश इंदरमल हलकारा एसीए	01/10/2010	513.	109041	श्री मुनेन्द्र आर. गजुला एसीए	01/10/2010
458.	106718	श्री हरीश खंडेलवाल एफसीए	01/10/2010	514.	109053	श्री प्राणेश शांतिलाल जैन एफसीए	01/10/2010
459.	106722	श्री विपुल धीरज सोनी एफसीए	01/10/2010	515.	109060	श्री मनीश होंगर एफसीए	01/10/2010
460.	106734	सुश्री नीरु एन मूठळा एसीए	01/10/2009	516.	109108	श्री मनीष महेन्द्र कोडिया एसीए	01/10/2010
461.	106794	श्री नरेन्द्र एच. शाह एसीए	01/10/2010	517.	109145	श्री सुदीप बी. आर्यपालिल एफसीए	01/10/2010
462.	106819	श्री गणेश पी. मट्ट एसीए	01/10/2010	518.	109172	श्री अमर राजमल काकरिया एफसीए	01/10/2010
463.	106852	सुश्री रेखा मोहनलाल शिवानी एसीए	01/10/2010	519.	109199	श्रीमती प्रीतम एम. चंडक एसीए	01/10/2010
464.	106875	श्री दिनेश कुमार दुदानी एफसीए	01/10/2010	520.	109205	श्री ब्रायन बोस्को डिसूजा एफसीए	01/10/2010
465.	106946	श्री विनिता राजानन सारवंत एसीए	01/10/2010	521.	109207	श्री विशाल हसमुख शाह एसीए	01/10/2010
466.	106980	श्री मंडारी महेन्द्र एसीए	01/10/2010	522.	109248	श्री संदीप श्रीपद दानी एसीए	01/10/2010
467.	107027	श्री राहुल महादेव निवाठे एसीए	01/10/2010	523.	109345	श्रीमती अपर्णा आर चौधुले एसीए	01/10/2010
468.	107034	श्री मंडारी अविनाश एसीए	01/10/2010	524.	109350	सुश्री सिल्विया लियो मस्कारेनस एसीए	01/10/2010
469.	107103	श्री चितन शैलेश शाह एसीए	01/10/2010	525.	109358	श्री तरुण वीरेन्द्र शाह एसीए	01/10/2010
470.	107103	श्री चितन शैलेश शाह एसीए	01/10/2010	526.	109423	श्री रोहित मनोहर खत्री एसीए	01/10/2009
471.	107122	सुश्री मीनल मुकुंदराय गटेवा एफसीए	01/10/2010	527.	109491	श्री गौरंग बी. शाह एसीए	01/10/2010
472.	107201	श्री प्रभु राघवेन्द्र एसीए	01/10/2009	528.	109508	सुश्री राधिका अप्पुलिगम एसीए	01/10/2009
473.	107274	श्री विनोद श्यामलाल आहुजा एसीए	01/10/2010	529.	109578	श्री चारिश हेनरी डिसूजा एसीए	01/10/2010
474.	107305	श्री दिनेश एम. जसरापुरिया एसीए	01/10/2010	530.	109630	श्री विनित प्रभाकरन नायर एसीए	01/10/2010
475.	107328	श्री वेदप्रकाश पांडे एफसीए	01/10/2010	531.	109655	श्रीमती वृशाली डी. किशानी एसीए	01/10/2010
476.	107340	श्री जिग्नेश एस. शाह एसीए	01/10/2010	532.	109733	श्री मंगतमल टी. बाफना एसीए	01/10/2010
477.	107462	श्रीमती लीना मनोज अरविन्द एसीए	01/10/2010	533.	109811	श्रीमती कल्पना अक्षय शाह एसीए	01/10/2010
478.	107522	श्री अमित सुधीर पटवर्धन एसीए	01/10/2010	534.	109903	श्री प्रफूल पन्नालाल सोमानी एसीए	01/10/2010

535.	109964	श्री सुनील शिवराम अदावडे एफसीए	01/10/2010
536.	109987	श्री विनायक अरुण शिम्पी एफसीए	01/10/2010
537.	110048	श्रीमती मनाली कमल कपाडिया एफसीए	01/10/2010
538.	110062	श्री जय कुमारपाल वोरा एसीए	01/10/2010
539.	110172	सुश्री नंदिता गणपति एसीए	01/10/2009
540.	110223	श्री अद्वैत एस. मोरवेकर एसीए	01/10/2009
541.	110297	श्री मौलिक कालुभाई तेजानी एसीए	01/10/2010
542.	110358	श्री समीर सुहास काले एसीए	01/10/2010
543.	110371	श्री नीलेश कुमार अजमेरा एसीए	01/10/2010
544.	110412	श्री जयेश कन्हैयालाल जैन एफसीए	01/10/2010
545.	110517	श्रीमती नृपति ओमकार गुर्जर एसीए	01/10/2010
546.	110519	श्री समीर उदय सालुंके एसीए	01/10/2009
547.	110520	सुश्री निरुती जगदीश परमार एसीए	01/10/2009
548.	110555	श्री नंदन पी. झवेरी एसीए	01/10/2009
549.	110564	श्री महेश शरद वर्तक एसीए	01/10/2010
550.	110701	सुश्री प्रेशमा झावर एसीए	01/10/2010
551.	110712	श्री जतिन्द्रकुमार जे. अग्रवाल एसीए	01/10/2010
552.	110751	श्री नयन महेश शाह एसीए	01/10/2010
553.	110769	श्री जीतेन कनैयालाल शाह एफसीए	01/10/2010
554.	110863	श्री विजयकुमार आर. जाजु एफसीए	01/10/2010
555.	110993	सुश्री प्राप्ति अनिल आचार्य एफसीए	01/10/2010
556.	111047	श्री नीरव पी. शाह एसीए	01/10/2009
557.	111149	श्री पद्म विठ्ठलदास अन्ना एफसीए	01/10/2009
558.	111195	श्री देणुगोपाल काईमल एसीए	01/10/2009
559.	111216	श्री आलोक एस. अग्रवाल एफसीए	01/10/2010
560.	111247	सुश्री स्वाति हिमांशु कोठारी एफसीए	01/10/2010
561.	111285	श्री नरेन्द्र रंगलाल जैन एसीए	01/10/2009
562.	111410	सुश्री श्रीजा आर मगर एसीए	01/10/2010
563.	111429	सुश्री नेहा पी. मालपानी एसीए	01/10/2010
564.	111473	श्री योगेशकुमार एल सिघानिया एफसीए	01/10/2010
565.	111517	सुश्री माला गुरुवक्ष दौलतानी एसीए	01/10/2009
566.	111556	श्री अनिश जे. झावेरी एफसीए	01/10/2010
567.	111573	श्री श्रीकांत दिलीप कावडे एफसीए	01/10/2010
568.	111586	श्री विष्णु जीतेन्द्र शाह एसीए	01/10/2009
569.	111635	श्री प्रसाद प्रभाकर बोहिल एसीए	01/10/2009
570.	111696	श्री अनिलकुमार जे. शिशोदिया एसीए	01/10/2010
571.	111769	श्री प्रवीण वी. मुन्ना एसीए	01/10/2010
572.	111915	श्री अजय जगदीश वागले एसीए	01/10/2010
573.	111936	श्री जगदीश बी. शेटी एफसीए	01/10/2010
574.	112017	सुश्री संगीता सुब्रमनियन एसीए	01/10/2010
575.	112051	सुश्री दीपा शाम हासरजनी एसीए	01/10/2010
576.	112096	श्रीमती रम्या मिलाप मासूर एफसीए	01/10/2010
577.	112131	श्री परेश सुरेश जैन एसीए	01/10/2010
578.	112151	श्री प्रशांत पी. गुंजल एसीए	01/10/2009
579.	112241	श्री विकास एस. चतुर्वेदी एफसीए	01/10/2009
580.	112335	श्री हितेश ए. मदान एसीए	01/10/2009
581.	112348	श्री नितिन शिवा कस्कर एफसीए	01/10/2009
582.	112373	श्री सुपल जनकभाई शाह एसीए	01/10/2010
583.	112385	श्री अविनाश प्रकाश गोयल एसीए	01/10/2009
584.	112406	श्री अश्विन वेलजीभाई पटेल एफसीए	01/10/2010
585.	112446	श्री अमित दत्तात्रय खेडेकर एसीए	01/10/2009
586.	112449	श्री शिवांतु आई. बनर्जी एसीए	01/10/2010
587.	112473	श्री सुभाष सदाशिव सिंदे एफसीए	01/10/2010
588.	112514	श्री रुचिर वी. शाह एसीए	01/10/2010
589.	112522	श्रीमती नम्रता पी. सोमानी एसीए	01/10/2010

590.	112562	श्री विशाखा ललित अहिर एसीए	01/10/2010
591.	112602	सुश्री दीक्षा एम. सिंह बिल्लन एसीए	01/10/2010
592.	112659	श्रीमती शालिनी मन्थाना एफसीए	01/10/2010
593.	112774	श्री रजनीश एस. शर्मा एसीए	01/10/2010
594.	112812	श्री कल्पेश महेन्द्र शाह एसीए	01/10/2010
595.	112837	श्री अमिश शशिकांत मेहता एसीए	01/10/2009
596.	112914	श्री शरद शंकरन एसीए	01/10/2010
597.	112963	श्री सचिन सुरेश अग्रवाल एसीए	01/10/2010
598.	113001	श्री विमल कुमार तिवारी एसीए	01/10/2010
599.	113045	श्रीमती गीता पाठिक दिवाते एसीए	01/10/2010
600.	113231	श्री पुष्पक एम. गांधी एसीए	01/10/2009
601.	113245	श्री समीर भरत सेठ एसीए	01/10/2010
602.	113305	श्री सुनील अर्जुन नागरानी एसीए	01/10/2009
603.	113307	श्री विशाल आर. मोदी एसीए	01/10/2009
604.	113344	सुश्री रुचा अजीत पुराणिक एसीए	01/10/2010
605.	113358	श्री पाठिक प्रदीप दिवाते एसीए	01/10/2010
606.	113377	श्री ऋषिकेश वी. फडके एफसीए	01/10/2010
607.	113413	श्री मेहुलकुमार सी.एल. पटेल एफसीए	01/10/2010
608.	113424	सुश्री बीना कनक के. कोठारी एसीए	01/10/2010
609.	113428	श्री बालाचन्द्रन आर एसीए	01/10/2010
610.	113441	श्री सुरेश दाऊ जंकर एसीए	01/10/2010
611.	113563	श्रीमती मिताली श्रीनिवास पी. एसीए	01/10/2010
612.	113650	श्री देवीदास कृष्णा शेटी एसीए	01/10/2010
613.	113698	सुश्री छाया मनसुखलाल वोरा एसीए	01/10/2010
614.	113722	श्री यवनकुमार एस. अग्रवाल एसीए	01/10/2010
615.	113737	श्री वेणु गोपाल राठी एसीए	01/10/2009
616.	113835	श्री दिनेश स्मेश के. मुधा एसीए	01/10/2010
617.	113863	श्री शिशिर अग्रवाल एसीए	01/10/2010
618.	113972	श्री प्रेम राजलाबा एफसीए	01/10/2010
619.	114075	श्रीमती सौतल संजय कटीरा एसीए	01/10/2010
620.	114078	श्री फौजन फारुखी पटेल एसीए	01/10/2010
621.	114079	श्री अरविन्द के.डी. जोशी एफसीए	01/10/2010
622.	114123	श्री अरुण विष्णु बेडेकर एफसीए	01/10/2010
623.	114177	श्री विशाल बी. भटनागर एफसीए	01/10/2009
624.	114240	श्रीमती नीलम आनंद शाह एसीए	01/10/2010
625.	114310	श्री राहुल एस. तुंगत्कर एसीए	01/10/2010
626.	114462	श्री राकेश प्रलादराय पारिक एफसीए	01/10/2010
627.	114508	श्री मंगेश उदेशिंग यादव एफसीए	01/10/2010
628.	114594	श्री देवांग देवीदास पटेल एसीए	01/10/2010
629.	114606	श्री अल्पेश वी. पटेल एसीए	01/10/2009
630.	114638	श्री ओलीवर एफ. फर्नांडिस एसीए	01/10/2010
631.	114680	श्री जिग्नेश वासुदेव जोशी एसीए	01/10/2010
632.	114709	श्री एल्विन बी. मजुवनचेरी एसीए	01/10/2009
633.	114734	श्री मेहुल मनसुखलाल गांधी एसीए	01/10/2009
634.	114760	श्री अभिनव ओ. यादव एफसीए	01/10/2010
635.	114897	श्री मनीष कनकराय गधानी एसीए	01/10/2009
636.	114951	श्रीमती मोनिका आनंद लुनिया एसीए	01/10/2009
637.	114960	श्रीमती जलान रीता संजयकुमार एसीए	01/10/2010
638.	114964	श्री अमित सुधीर मूलगुंड एसीए	01/10/2010
639.	114982	श्री कमल ओ. सुल्तानिया एसीए	01/10/2009
640.	115044	सुश्री ममता जी. शक्ति शाह एसीए	01/10/2010
641.	115263	श्री विवेक एस. मंजुलार्बेन मारु	01/10/2010
642.	115307	श्री रोनी फ्रेडरिक क्वाड्रस एसीए	01/10/2009
643.	115375	श्री विवेक महादेव टोरेने एसीए	01/10/2010
644.	115376	श्री संजय बी. कुलकर्णी एसीए	01/10/2010
645.	115377	श्री गौरव जयप्रकाश साधु एफसीए	01/10/2010



646.	115378	श्री राजेश जितल एसईए	01/10/2010
647.	115426	श्री राजेश नागेश रेवाकर एसईए	01/10/2009
648.	115447	श्री साजन शिवाजी पाताडे एसईए	01/10/2010
649.	115455	सुश्री मंजुला ललित शास्त्रा एसईए	01/10/2009
650.	115481	श्री अनिल कुमार हलवाई एसईए	01/10/2009
651.	115519	श्रीमती अपर्णा पी. वायडांडे एसईए	01/10/2010
652.	115538	श्रीमती रुचि शुक्ला एसईए	01/10/2010
653.	115542	श्री प्रशांत बी. मेहता एसईए	01/10/2010
654.	115550	सुश्री प्रीति श्रीकुमार नायर एसईए	01/10/2010
655.	115602	श्रीमती पूनम आशिष पाठक एसईए	01/10/2010
656.	115663	सुश्री नितिशा दीपक ठक्कर एसईए	01/10/2010
657.	115676	सुश्री श्रुति रघुनाथ एसईए	01/10/2010
658.	115680	श्री जहांगीर आदि मास्टर एसईए	01/10/2010
659.	115732	श्री धीरेन्द्र महेन्द्र ठक्कर एसईए	01/10/2009
660.	115755	सुश्री जागृति चन्द्रकांत जोशी एसईए	01/10/2010
661.	115866	श्री अनिरुद्ध मिलिंद जोशी एसईए	01/10/2010
662.	115905	सुश्री स्वप्ना सुभाष शिंदे एसईए	01/10/2010
663.	115908	श्री तेज कुमार राठी एसईए	01/10/2010
664.	115955	श्री समित योगेश पई सीए	01/10/2009
665.	116036	श्री तरुण मेहता एसईए	01/10/2010
666.	116061	श्री प्रणव सुरेश सघानी एसईए	01/10/2010
667.	116088	श्री सचिन रमेश मुन्दा एसईए	01/10/2010
668.	116202	श्री गौतम किशोर आशा देसाई एसईए	01/10/2010
669.	116242	श्री मीतेश कीर्तिकुमार शाह एसईए	01/10/2010
670.	116273	श्री कविन धीरेन्द्र शाह एसईए	01/10/2009
671.	116314	सुश्री जुही भागव एसईए	01/10/2010
672.	116349	श्री जीगेर किशोर सैया एसईए	01/10/2010
673.	116429	सुश्री मेघना आर.बी. पौराना एसईए	01/10/2010
674.	116507	श्री जिग्नेश केशवजी सावला एसईए	01/10/2010
675.	116567	श्री वैकिटेश्वर एस. एसईए	01/10/2010
676.	116610	श्री शैलेश जे.ओ. चौहान एसईए	01/10/2010
677.	116661	श्री मृदुल अशोक बाबेरवाल एसईए	01/10/2009
678.	116681	श्री मुकेशकुमार के. वोस एसईए	01/10/2010
679.	116702	श्री तुषार एस. नाहर एसईए	01/10/2010
680.	116706	श्री अभिनंदन सी. इंगलवर एसईए	01/10/2010
681.	116715	सुश्री ममता रतनशि आर. शाह एसईए	01/10/2010
682.	116754	श्रीमती युगाधर एम. बोधे एसईए	01/10/2010
683.	116756	श्री रंजीत ध्यानचंद जैन एसईए	01/10/2009
684.	116763	श्री जयशील के. वाछरजनी एसईए	01/10/2010
685.	116795	श्री दर्शित के. तन्ना एसईए	01/10/2010
686.	116810	सुश्री पूर्वी किरनकुमार बंकर एसईए	01/10/2010
687.	116872	श्री अविनाश गजानन भाला एसईए	01/10/2010
688.	116897	श्री संदीप गुप्ता एसईए	01/10/2010
689.	116932	श्री मिलिंद एन. अग्रवाल एसईए	01/10/2010
690.	117083	श्री समीर नजीर खैख एसईए	01/10/2010
691.	117108	सुश्री उमा विश्वनाथन अय्यर एसईए	01/10/2010
692.	117239	श्रीमती वैशाली जयंत फालके एसईए	01/10/2010
693.	117241	श्री नीमेशकुमार एच. पटेल एसईए	01/10/2010
694.	117246	सुश्री दीपा आर. शाह एसईए	01/10/2010
695.	117287	श्री तेजस रामदासभाई सोनी एसईए	01/10/2010
696.	117377	श्री वैभव एच. हर्षा शाह एसईए	01/10/2010
697.	117415	श्री दीपेश तलाखी छेडा एसईए	01/10/2010
698.	117448	श्री रोहित विभाकर खरे एसईए	01/10/2010
699.	117467	श्री राहुल रविन्द्र राज मेहता एसईए	01/10/2010
700.	117475	श्री प्रकाश बी. लबादिशा एसईए	01/10/2010
701.	117497	सुश्री रघा एस.आर. जाम्बावदेकर एसईए	01/10/2010

702.	117510	श्रीमती ख्याति मीतुल शाह एसईए	01/10/2010
703.	117518	सुश्री विदुला एम. सावलापुरकर एसईए	01/10/2009
704.	117557	सुश्री रेखा रंगनाथन एसईए	01/10/2010
705.	117572	श्री जीगेश आई. पंचाल एसईए	01/10/2009
706.	117573	श्री जयेश दत्ताराम कदम एसईए	01/10/2010
707.	117613	श्री योगेश ननजुंदा पीसे एसईए	01/10/2010
708.	117614	श्री आनंद हारकादास साबु एसईए	01/10/2010
709.	117625	श्री अमोद दिनकर भाटे एसईए	01/10/2010
710.	117713	श्री मंदर वाई. अठाले एसईए	01/10/2010
711.	117717	सुश्री पुष्पा एन. सिंह बिष्ट एसईए	01/10/2010
712.	117728	श्रीमती मोना रोहित पोद्दार एसईए	01/10/2010
713.	117752	श्री जीतेन्द्र शांतिलाल जैन एसईए	01/10/2010
714.	117762	श्री विकास कुमार अग्रवाल एसईए	01/10/2010
715.	117771	सुश्री प्रिया हरीदासन एसईए	01/10/2010
716.	117825	श्री जयराम के. पुरस्वानी एसईए	01/10/2010
717.	117841	श्रीमती ममता नितिन सेठी एसईए	01/10/2010
718.	117858	श्री नरेश बी. प्रसाद लाहोटी एसईए	01/10/2009
719.	117870	श्री मनीष सोमानी एसईए	01/10/2009
720.	117895	श्री तारक एन. एम. मेहता एसईए	01/10/2010
721.	117929	सुश्री पूर्वा जे.एस. दिवेकर एसईए	01/10/2009
722.	117985	श्रीमती मनस्विनी एम. कुलकर्णी एसईए	01/10/2010
723.	118075	श्री योगेश के. पंचाक्षरी एसईए	01/10/2010
724.	118084	सुश्री दीप्ति प्रभात सिंह एसईए	01/10/2010
725.	118145	सुश्री नम्रता विनायक पदवाल एसईए	01/10/2010
726.	118155	श्री जीतेन्द्र के.ओ. शर्मा एसईए	01/10/2010
727.	118160	सुश्री रुपाली के. वागल एसईए	01/10/2009
728.	118173	श्रीमती निकिता डी. मूलचंदानी एसईए	01/10/2010
729.	118192	श्री तुषार एम. पटवा एसईए	01/10/2009
730.	118264	श्री नीरज ए. गंगवानी एसईए	01/10/2010
731.	118269	श्रीमती नाजनीन के मकुजीना एसईए	01/10/2010
732.	118292	श्री उमेश शामराव भोसले एसईए	01/10/2010
733.	118320	श्री संतोष के.एच. कांडेकर एसईए	01/10/2010
734.	118463	सुश्री अपर्णा के. पीटी एसईए	01/10/2010
735.	118473	श्री शैलेश जे. दहाके एसईए	01/10/2010
736.	118494	श्री धीरज रमेश कोचर एसईए	01/10/2010
737.	118545	श्री आशिष एस. मालपानी एसईए	01/10/2010
738.	118564	सुश्री लोपा शांतिलाल सुतार एसईए	01/10/2010
739.	118572	श्री कृष्णाकुमार के. पटेल एसईए	01/10/2010
740.	118579	श्री संदीप मोतीलाल शाह एसईए	01/10/2009
741.	118579	श्री संदीप मोतीलाल शाह एसईए	01/10/2010
742.	118611	श्री समीर बी. वगोरिया एसईए	01/10/2010
743.	118647	श्री मीतुल महेन्द्र शाह एसईए	01/10/2010
744.	118652	श्री किशोर एस. पुनयानी एसईए	01/10/2010
745.	118772	श्री हिमांशु जे. कामदार एसईए	01/10/2010
746.	118779	श्री शशिकुमार आर. गुप्ता एसईए	01/10/2009
747.	118831	श्री नवतेज आर.बी. ठक्कर एसईए	01/10/2010
748.	118852	श्री मुकेशकुमार डी. भगत एसईए	01/10/2010
749.	118867	श्रीमती प्राची एन. जातेगांवकर एसईए	01/10/2010
750.	118913	श्री कार्तिकेयन पी. योगीश्वर एसईए	01/10/2010
751.	118928	श्री अमित कासाट एसईए	01/10/2010
752.	119051	श्री स्वजित सुरेश पटनी एसईए	01/10/2010
753.	119192	श्रीमती दीप्ति तुषार मसुरकर एसईए	01/10/2010
754.	119264	श्रीमती शिल्पा प्रकाश राणे एसईए	01/10/2010
755.	119268	श्री गोकुल वर्षाचजन एसईए	01/10/2010
756.	119272	श्री अरुण कुमार एसईए	01/10/2010
757.	119315	श्री अभिषेक अरविन्द मिस्त्री एसईए	01/10/2009

758.	119364	श्री नीलेश सुभाष ब्रम्हेचा एसीए	01/10/2010
759.	119450	सुश्री नंदिता के. रौतेला एसीए	01/10/2010
760.	119483	श्री योगेश एस. विसापुरकर एफसीए	01/10/2010
761.	119563	श्री मनुल्या एन. शाह एसीए	01/10/2010
762.	119608	श्री योगेश बाबुराव पंचाल एसीए	01/10/2010
763.	119623	सुश्री अनुसंधा सदाशिवन एफसीए	01/10/2010
764.	119752	श्री मोहम्मद एम. महुद्यावाला एफसीए	01/10/2010
765.	119819	श्री विनय कुमार आई. पटेल एसीए	01/10/2009
766.	119884	श्री सिद्धार्थ एस. बछवत एसीए	01/10/2010
767.	119885	श्री नीरव अरविन्द मोराखिया एसीए	01/10/2010
768.	119904	सुश्री चैताली जी. नानोसकर एसीए	01/10/2010
769.	119978	श्री सपन अनिल संधानी एसीए	01/10/2010
770.	120017	श्री विनयकुमार आर. त्रिपाठी एसीए	01/10/2009
771.	120043	श्री प्रीतम प्रकाश कोचर एसीए	01/10/2010
772.	120078	श्री कश्यप पी.डी. सोलंकी एसीए	01/10/2010
773.	120092	श्री आशिष सुरेश शाह एसीए	01/10/2010
774.	120105	श्री प्रवीन प्रभाकरन एन एसीए	01/10/2010
775.	120138	श्री मधु सुदन बिरला एसीए	01/10/2010
776.	120173	सुश्री शर्मिला एम. भंडारी एसीए	01/10/2009
777.	120173	सुश्री शर्मिला एम. भंडारी एसीए	01/10/2010
778.	120177	श्री प्रवीनभाई एल. प्रजापति एसीए	01/10/2010
779.	120195	श्रीमती दीपिका देवांग पटेल एसीए	01/10/2010
780.	120289	सुश्री रुचि जी. शशि शाह एसीए	01/10/2010
781.	120312	श्री अविनाश डी. महुलकर एसीए	01/10/2010
782.	120365	श्री कुणाल बाबुलाल लाखरा एसीए	01/10/2010
783.	120389	श्री केतन धीरुभाई सवालिया एसीए	01/10/2010
784.	120416	श्री के आर केशवन एसीए	01/10/2010
785.	120463	श्री गुणवंत एम. बम्मानिया एसीए	01/10/2010
786.	120480	श्री हितेन अशोककुमार पटेल एसीए	01/10/2009
787.	120586	श्री आदित्य मोरेश्वर आपटे एसीए	01/10/2010
788.	120641	सुश्री गुलशन जल गारदा एसीए	01/10/2009
789.	120656	सुश्री शम्स ताजदीन एन. बुद्धानी एसीए	01/10/2010
790.	120678	श्रीमती अरुणा चेतन भट्ट एसीए	01/10/2009
791.	120678	श्रीमती अरुणा चेतन भट्ट एसीए	01/10/2010
792.	120695	श्री नविन दिलीपकुमार जैन एसीए	01/10/2010
793.	120731	श्री विनय कुम्भट एफसीए	01/10/2010
794.	120756	श्री अनिल कुमार पोखवाल एसीए	01/10/2010
795.	120782	श्रीमती तृप्ति वीरज कोचर एफसीए	01/10/2010
796.	120843	श्री दीप पवनकुमार जगगी एसीए	01/10/2010
797.	120845	श्री अभित पी. कटारिया एसीए	01/10/2010
798.	120850	श्रीमती ऋता विनय वेखडे एसीए	01/10/2010
799.	120854	श्री मनोज पुच्छलिक भट्ट एसीए	01/10/2010
800.	120882	श्रीमती गीता राजीवकुमार सुक्ता एसीए	01/10/2009
801.	120929	श्री प्रीतेश ए. गांधी एसीए	01/10/2010
802.	120999	श्रीमती शांति कृष्णन एसीए	01/10/2010
803.	121107	सुश्री मध्यांगी एम एसीए	01/10/2010
804.	121154	श्री मविन प्रहलादभाई पटेल एसीए	01/10/2010
805.	121166	श्री सुनील मुरली ककानी एसीए	01/10/2009
806.	121219	श्री अविश कैलाश अग्रवाल एसीए	01/10/2010
807.	121236	सुश्री सुमाना के. चक्रवर्ती एसीए	01/10/2009
808.	121322	सुश्री बकुल पवन छगन एसीए	01/10/2010
809.	121349	श्री दीपक महेश अग्रवाल एसीए	01/10/2010
810.	121539	श्री निरलोन परेशकुमार दवे एसीए	01/10/2009
811.	121582	श्री रामानुजम श्रीनिवासन एसीए	01/10/2010
812.	121632	श्री गुंजन कुमार मुन्ना एसीए	01/10/2010

813.	121743	श्री शिखर अग्रवाल एफसीए	01/10/2010
814.	121783	श्रीमती सविता सौरभ मंत्री एसीए	01/10/2010
815.	121800	श्री आनंद एस. मोदानी एसीए	01/10/2010
816.	121830	श्री संजय शंकरन नाथर एसीए	01/10/2010
817.	121854	श्री दिनेश बाबुराव विदिलकर एसीए	01/10/2010
818.	121918	सुश्री मृणाल स्मार्कांत ए. गुदल एसीए	01/10/2010
819.	121979	सुश्री मेघा दिनेश डी. पांड्या एसीए	01/10/2010
820.	121982	श्री मोहित गजानन भाला एफसीए	01/10/2010
821.	121991	श्री संतोषकुमार वी. वर्मा एसीए	01/10/2010
822.	122028	श्री दीपक एल. अग्रवाल एसीए	01/10/2010
823.	122063	श्री नितिन पेशुराम हरवानी एसीए	01/10/2009
824.	122067	श्री रविशंकर एन. छात्रकारिया एसीए	01/10/2010
825.	122098	श्री चिन्मय अरविन्द जोशी एफसीए	01/10/2010
826.	122104	श्रीमती हिना रुशित दवे एसीए	01/10/2010
827.	122111	श्रीमती स्वेता कौशल गांधी एसीए	01/10/2010
828.	122143	श्री जीतेन्द्र के. अग्रवाल एसीए	01/10/2009
829.	122151	सुश्री रेखा एस.के. एस. तिबरेवाला	01/10/2010
830.	122180	श्री महावीर इंदरचंद पटनी एफसीए	01/10/2010
831.	122211	श्री सोमेश अत्रे एसीए	01/10/2010
832.	122305	श्री मनोज एच. मकवाना एफसीए	01/10/2010
833.	122370	श्री मयूर गौतम संवेती एसीए	01/10/2010
834.	122374	सुश्री विनिता कृष्णन एसीए	01/10/2010
835.	122397	श्री चिराग के. ठक्कर एसीए	01/10/2010
836.	122437	श्री हिमांशु डी तन्ना एसीए	01/10/2010
837.	122446	श्री वीरज चन्द्रकांत जोशी एसीए	01/10/2010
838.	122543	सुश्री पुनम कल्याणराव पाटिल एसीए	01/10/2010
839.	122549	श्री नीरज एस. गोनपल्लीवर एसीए	01/10/2010
840.	122595	श्री मोहज ए.आर. लक्कड्याटवाला एसीए	01/10/2010
841.	122609	श्री विपुल वसंतभाई दत्तानी एफसीए	01/10/2010
842.	122628	श्री विकास पंसाही एसीए	01/10/2010
843.	122669	श्री दीपक दीनदयाल फोगला एसीए	01/10/2010
844.	122711	श्री अंकित महेशभाई तलसानिया एसीए	01/10/2010
845.	122769	श्री साकेत मदन गोडबोले एसीए	01/10/2010
846.	122776	श्री कन्हैया मनहरलाल सेठ एसीए	01/10/2010
847.	122818	सुश्री नमरीता एस. रीता देसाई एसीए	01/10/2010
848.	122846	सुश्री कविता सुंदर शेट्टी एसीए	01/10/2010
849.	122865	श्री अशोक विठ्ठल कुंदर एसीए	01/10/2009
850.	122997	सुश्री नैरवी महेश लोटिया एसीए	01/10/2009
851.	123055	श्री चिरागकुमार एच. अटवाल एसीए	01/10/2010
852.	123070	श्री प्रवीर कुमार रॉय एसीए	01/10/2010
853.	123085	सुश्री प्रजाक्ता अरुण जगदाले एसीए	01/10/2010
854.	123092	श्री अनूप एम.एस. चौरसिया एसीए	01/10/2010
855.	123150	श्रीमती अन्नपूर्णा आर. हेब्बर एसीए	01/10/2010
856.	123169	श्री विजय जी एसीए	01/10/2010
857.	123187	श्री दीपक राज अय्यर एसीए	01/10/2009
858.	123197	श्री चैतन्य एस. महाजन एफसीए	01/10/2010
859.	123240	सुश्री सीतल एस.के. गुप्ता एसीए	01/10/2010
860.	123260	श्री शाहिदाली एस. आर. सैयद एसीए	01/10/2009
861.	123291	श्री विपिन एस.के. शर्मा एसीए	01/10/2010
862.	123323	श्री संतोष एम. गोवावे एसीए	01/10/2010
863.	123429	श्री अभिषेक मेहता एसीए	01/10/2010
864.	123478	श्रीमती रश्मि विशाल शाह एसीए	01/10/2010
865.	123487	श्री अरुण श्रीधरन एसीए	01/10/2010
866.	123489	श्री दीपक डी. जैन एसीए	01/10/2010
867.	123505	सुश्री रत्नावती आर. देवादिगा एसीए	01/10/2010

866.	123568	श्री के.ए. रमना के एस आर अंजानेयुलु के ए एम तयारु	01/10/2009
869.	123674	श्री कोशल के दोशी एसीए	01/10/2010
870.	123690	सुश्री सुनीता एम. एल. दासोनी एसीए	01/10/2010
871.	123738	श्री विनीत ए.एस. हेरवाडकर एसीए	01/10/2009
872.	123773	श्रीमती भावना फर्नांडिस एसीए	01/10/2010
873.	123811	सुश्री नाजिया इकबाल अहमद शेख एसीए	01/10/2009
874.	123865	श्री सुजीत अनिल मागिया एसीए	01/10/2009
875.	123875	श्री अनुशकुमार शिवारामन एसीए	01/10/2010
876.	123890	श्री अमित जयेंद्र सेठ एफसीए	01/10/2010
877.	123905	श्री अनुज जैन एसीए	01/10/2010
878.	123929	सुश्री करुणा एल.के. भाटिया एसीए	01/10/2009
879.	123942	श्री अमर सेवतिलाल संघवी एफसीए	01/10/2010
880.	123943	श्री दिव्या अनिल गुलाटी एसीए	01/10/2010
881.	124064	श्री राजकुमार एस. जैसवाल एसीए	01/10/2010
882.	124116	श्री कपिल एम. पारेख एसीए	01/10/2009
883.	124181	सुश्री पालव सुरेश रेणुका शाह एसीए	01/10/2010
884.	124257	सुश्री उर्वी आर. शाह एसीए	01/10/2010
885.	124325	श्री निशितकुमार पी. जोशी एसीए	01/10/2010
886.	124360	सुश्री अश्विनी ए.ए. लातुस्कर एसीए	01/10/2010
887.	124369	श्री धर्मेष्ट के. मकवाना एसीए	01/10/2010
888.	124378	श्री हर्षद एस. आराधी एफसीए	01/10/2010
889.	124396	सुश्री लीना जयसिंग झुंगारे एसीए	01/10/2009
890.	124436	श्री विवेक महेश कोठारी एसीए	01/10/2010
891.	124525	श्री प्रवीण आनंद एन.बी. एसीए	01/10/2010
892.	124546	श्री प्रवीण बाबु कामत एसीए	01/10/2009
893.	124561	श्री मयंक गोपाल सैनी एसीए	01/10/2010
894.	124643	सुश्री स्वाति सुधीर फडके एसीए	01/10/2010
895.	124651	श्री हिमांशु अग्रवाल एसीए	01/10/2010
896.	124656	श्री अभिजीत भालचन्द्र जोशी एसीए	01/10/2010
897.	124736	सुश्री स्नेहा जयंति एम. रायसोनी एसीए	01/10/2010
898.	124808	श्री समीर नारायण भोगल एसीए	01/10/2010
899.	124814	सुश्री अदिति विजय कामत एसीए	01/10/2010
900.	124828	श्री ज्ञानेश लक्ष्मीचंद पसाद एसीए	01/10/2009
901.	124925	श्री सुजीत सुनील प्रधान एसीए	01/10/2010
902.	124927	श्री राफेल रामचन्द्र राणे एसीए	01/10/2010
903.	125010	श्री नविनकुमार ए.एन. बंगेर एसीए	01/10/2010
904.	125041	श्री महेश जी. मखीजानी एसीए	01/10/2010
905.	125071	श्रीमती किंजल विवेक कोठारी एसीए	01/10/2010
906.	125092	श्रीमती नीलमा वैभव जोशी एसीए	01/10/2009
907.	125146	श्री विशाल अशोक गजवानी एसीए	01/10/2009
908.	125156	सुश्री अपर्णा अशोक मोरे एसीए	01/10/2010
909.	125183	श्री नबेन्दु पोद्दार एसीए	01/10/2010
910.	125184	श्री साइरस बोमी दादाचनजी एसीए	01/10/2010
911.	125190	श्री नितिन गोखनदास मुखी एसीए	01/10/2010
912.	125261	श्रीमती गीता जीनेश मोटा एसीए	01/10/2010
913.	125273	श्री कुणाल एस.एस. सराफ एसीए	01/10/2010
914.	125281	श्री हार्दिक महेश उपाध्याय एसीए	01/10/2010
915.	125304	श्री गौरव बी. अमृति एसीए	01/10/2010
916.	125352	श्री नीमेश पी. पांड्या एसीए	01/10/2010
917.	125477	श्री प्रीतेश अविनाश अधिकारी एसीए	01/10/2010
918.	125523	श्री आशिष सुरेश आशा वैद्य एसीए	01/10/2010
919.	125717	श्री रोहित चन्द्रकांत तिकेकर एसीए	01/10/2009
920.	125771	श्रीमती योजना सी. दुबे एसीए	01/10/2010
921.	125836	श्री मौलिक पी. शाह एसीए	01/10/2009

922.	125967	श्री विजय हीरजीभाई देघिया एसीए	01/10/2010
923.	125973	श्री अमय राजीव घेरे एसीए	01/10/2010
924.	125992	श्री प्रणव पी.डी. छेडा एसीए	01/10/2010
925.	126015	सुश्री परिक्षा टी. शैयरदलाल एसीए	01/10/2010
926.	126034	श्री नचिकेत एम. वसंतगडकर एसीए	01/10/2010
927.	126115	सुश्री कमलेश कोठारी एसीए	01/10/2010
928.	126179	श्री सिद्धार्थ ए.एस. राउत एसीए	01/10/2010
929.	126388	श्री प्रदीप एम. कमाटे एसीए	01/10/2010
930.	126489	श्री अनिल अशोक खत्री एसीए	01/10/2009
931.	126550	श्री कपिल रमेशलाल बजीरानी एसीए	01/10/2010
932.	126561	सुश्री आश्रपाली जी. कुलकर्णी एसीए	01/10/2010
933.	126593	श्री तेजस अजीत दलवी एसीए	01/10/2010
934.	126623	श्री गुलजार इकबालभाई अजमेरी एसीए	01/10/2009
935.	126730	सुश्री कैजल सुरेश रेणुका शाह एसीए	01/10/2010
936.	126765	श्रीमती संगीता एस. भलेराव एसीए	01/10/2010
937.	126824	श्रीमती लीना अमीरकुमार सामंत एसीए	01/10/2010
938.	126872	श्री बी.एस. शारदा अय्यर	01/10/2010
939.	126881	श्री बीरेन फूलचंदभाई शाह एसीए	01/10/2010
940.	126980	श्री अमरसिंह जे. वर्मा एसीए	01/10/2010
941.	126984	श्री अमित अल्बन आर. मेरीयो एसीए	01/10/2010
942.	126992	श्रीमती श्वेता सुमित जैन एसीए	01/10/2010
943.	127062	श्री गिरीश हीराचंद जैन एसीए	01/10/2010
944.	127272	श्री संतोष जी. शिंगवान एसीए	01/10/2009
945.	127272	श्री संतोष जी. शिंगवान एसीए	01/10/2010
946.	127283	सुश्री नूतन मनोहर सोपारकर एसीए	01/10/2010
947.	127285	श्री राहुल दिलीप शाह एसीए	01/10/2009
948.	127373	सुश्री विद्या कृष्णन एसीए	01/10/2009
949.	127373	सुश्री विद्या कृष्णन एसीए	01/10/2010
950.	127389	श्रीमती दीपा जैन एसीए	01/10/2010
951.	127442	श्रीमती मोनिका सेनगुप्ता एसीए	01/10/2010
952.	127452	सुश्री मयूर एम.एम. राणे एसीए	01/10/2010
953.	127486	श्री शैलेश के.एच.एन. राठोड एसीए	01/10/2009
954.	127543	श्री सुबोध विजय कर्णिक एसीए	01/10/2010
955.	127654	श्री जयेश बवानजीभाई धनेजा एसीए	01/10/2010
956.	127723	श्री फौज अजीज अहमद एसीए	01/10/2010
957.	127750	श्री मिलिंद विठ्ठलदास रजनी एसीए	01/10/2010
958.	127764	श्री अप्पा मल्हारी शिंदे एसीए	01/10/2010
959.	127795	श्री कृतेश चन्द्रकांत गोपाणी एसीए	01/10/2010
960.	127835	सुश्री अंजली वासुदेव गीता भासले एसीए	01/10/2009
961.	127871	सुश्री पूजा रमेश हेमदेव एसीए	01/10/2010
962.	127878	श्री घनश्याम बहेती एसीए	01/10/2010
963.	127911	सुश्री आशा एन आर वैद्यनाथन पदमा एसीए	01/10/2010
964.	127930	श्री हेमल बलवंतभाई पडिया एसीए	01/10/2010
965.	127966	श्री जिग्नेश जीतेन्द्र हिमानी एसीए	01/10/2010
966.	128001	सुश्री खुशबू एस.आर. छावछरिया एसीए	01/10/2010
967.	128024	सुश्री नीता वीरमभाई शाह एसीए	01/10/2010
968.	128032	श्रीमती प्रिया अमित शेट्टे एसीए	01/10/2010
969.	128079	सुश्री यशोदरा बी. बारहाते एसीए	01/10/2009
970.	128114	श्री विक्रान्त शिवाजीराव सालुंके एसीए	01/10/2010
971.	128119	श्री मनीषकुमार डी. साल्वी एसीए	01/10/2010
972.	128164	सुश्री विद्या जानकीरामन एसीए	01/10/2009
973.	128184	श्री अनुपम कुमार अग्रवाल एसीए	01/10/2010
974.	128213	श्री मोहित जैन एसीए	01/10/2009
975.	128236	श्री अलेक्जान्डर गोसालो टस्कानो एसीए	01/10/2010



976.	128250	सुश्री मर्सी जोसफ एसीए	01/10/2010
977.	128266	सुश्री मुक्ति रश्मिभाई शाह एसीए	01/10/2009
978.	128272	श्री प्रदीप गर्ग एसीए	01/10/2010
979.	128281	सुश्री श्वेता एम. शाह एसीए	01/10/2009
980.	128284	श्री मुकेश कुमार लाहोटी एसीए	01/10/2010
981.	128319	श्री चेरियन ए. वरीकालाथिल एसीए	01/10/2010
982.	128320	श्री हंसल सिरिल फॉसेका एसीए	01/10/2009
983.	128352	श्री उमेश वी.एस. एसीए	01/10/2010
984.	128362	श्री प्रणव चन्द्र दास एसीए	01/10/2009
985.	128394	सुश्री वृशाली बी.जे. कसमबेलकर	01/10/2010
986.	128423	श्री पारस महेन्द्र शाह एसीए	01/10/2010
987.	128427	सुश्री प्रियका महावीर पटनी एसीए	01/10/2010
988.	128462	श्री जीतेन्द्र कुमार एसीए	01/10/2010
989.	128494	सुश्री शांतिलक्ष्मी आर. मुदलियर एसीए	01/10/2010
990.	128524	सुश्री प्राजक्ता एस. परजपे एसीए	01/10/2010
991.	128527	सुश्री कामिनी इंदरचंद जैन एसीए	01/10/2010
992.	128636	श्री किशन आर. मघानी एसीए	01/10/2010
993.	128660	श्री विलासराव शिवराम खताले एसीए	01/10/2010
994.	128685	सुश्री पूजा एच चांदवानी एसीए	01/10/2010
995.	128766	श्री नितिन सुभाष महाजन एसीए	01/10/2010
996.	128768	श्री प्रभात आर. शर्मा एसीए	01/10/2010
997.	128796	श्री उमेश जी. धर्मार्थ एसीए	01/10/2010
998.	128819	श्री जैगिन अमूल गांधी एसीए	01/10/2010
999.	128902	श्रीमती सायली राजेश ठाकुर एसीए	01/10/2010
1000.	128933	श्री कयूर अरुणभाई हिन्दोचा एसीए	01/10/2009
1001.	128961	श्रीमती मोनिका संजय लोढा एसीए	01/10/2010
1002.	128965	श्री रितेश भस्तरभाई पटेल एसीए	01/10/2010
1003.	129024	सुश्री उर्मि प्रदीप पांड्या एसीए	01/10/2010
1004.	129055	श्री अभित मोहन तानपुरे एसीए	01/10/2010
1005.	129064	श्री किशोर मनसुखलाल लोढा एसीए	01/10/2010
1006.	129122	श्री महेश ए.एस. शर्मा एसीए	01/10/2010
1007.	129164	श्री हरेश जे. मट्टोजा एसीए	01/10/2009
1008.	129175	श्री नागसी मीखाभाई सखाप एसीए	01/10/2010
1009.	129184	श्री रविकांत हृदयनाथरायण दुबे एसीए	01/10/2009
1010.	129348	श्री विनय संतोष सोमानी एसीए	01/10/2009
1011.	129352	श्री जय जगदीप मकड एसीए	01/10/2010
1012.	129373	श्रीमती मान्या हरी दुलानी एसीए	01/10/2010
1013.	129384	श्री नकुल बालकृष्ण क्षीरसागर एसीए	01/10/2010
1014.	129441	सुश्री अपर्णा रत्नाकर प्रभु एसीए	01/10/2010
1015.	129461	श्री विकास अग्रवाल एसीए	01/10/2009
1016.	129463	श्री मनोज यशवंत सनस एसीए	01/10/2010
1017.	129519	श्री मो. आरिफ जे.आई. अहमद मोमिन एसीए	01/10/2010
1018.	129525	श्रीमती दीपति जगदीश शेट्टी एसीए	01/10/2009
1019.	129527	श्री रुपक स्वामिनाथन एसीए	01/10/2010
1020.	129550	श्री कुशल विजय सुषम गार्गी एसीए	01/10/2010
1021.	129583	श्री वीरज कश्यप एसीए	01/10/2009
1022.	129593	श्री राकेश अग्रवाल एसीए	01/10/2010
1023.	129594	श्री मारियो सेजारियो ओलीवेस एसीए	01/10/2010
1024.	129634	श्री श्रीकांत वसंतराव जाधव एसीए	01/10/2010
1025.	129659	सुश्री सुरेखा विष्णु महाडिक एसीए	01/10/2010
1026.	129660	सुश्री श्वेता शिवाजी साठम एसीए	01/10/2010
1027.	129725	श्री केतन जेठालाल मारु एसीए	01/10/2010
1028.	129750	श्री संतोष सुभाषराव इंगले एसीए	01/10/2010
1029.	129773	श्री आशिष रंका एसीए	01/10/2010
1030.	129830	श्री मनीष कुमार गोयल एसीए	01/10/2010

1031.	129884	सुश्री कविता राजनाथरायण पाठक एसीए	01/10/2009
1032.	129908	श्री रितेश बिपिनचन्द्र त्रिवेदी एसीए	01/10/2009
1033.	129987	श्री नीलेश गोपाल भाई व्यास एसीए	01/10/2010
1034.	130007	श्री संजय कोकाते एसीए	01/10/2009
1035.	130018	सुश्री ख्याति राजेन्द्रभाई मट्ट एसीए	01/10/2010
1036.	130037	श्री नरेन्द्र सी. जोशी एसीए	01/10/2010
1037.	130058	सुश्री दीपा प्रकाश राव एसीए	01/10/2009
1038.	130146	सुश्री सोनिया नंदकिशोर जैसवाल एसीए	01/10/2010
1039.	130154	श्री रुपम बरदिया एसीए	01/10/2010
1040.	130158	श्रीमती ज्योति गजानन पाटिल एसीए	01/10/2010
1041.	130256	सुश्री डिम्पल वासु अस्वानी एसीए	01/10/2010
1042.	130270	श्री विशाल चंदुलाल अघिया एसीए	01/10/2010
1043.	130337	श्री जीतेश जनेन्द्र मनोट एसीए	01/10/2010
1044.	130361	श्री प्रियम परमभाई शाह एसीए	01/10/2010
1045.	130378	श्री सुजीत हेमकांत ठक्कर एसीए	01/10/2010
1046.	130390	श्री महेश एच. बर्डे एसीए	01/10/2010
1047.	130424	श्री कैलाश बहेती एसीए	01/10/2010
1048.	130428	सुश्री श्रद्धा रविन्द्र देसाई एसीए	01/10/2010
1049.	130440	श्री दर्शन जी. इन्दिरा प्रभु एसीए	01/10/2010
1050.	130445	श्रीमती रुचिता अग्रवाल एसीए	01/10/2010
1051.	130457	सुश्री श्वेता सरौन एसीए	01/10/2010
1052.	130534	सुश्री बीजल जसवंत गांधी एसीए	01/10/2010
1053.	130535	श्री अर्पण हेमंतकुमार दोदिया एसीए	01/10/2010
1054.	130610	सुश्री रिकू स्तनचंद मेरवा एसीए	01/10/2010
1055.	130690	सुश्री स्वाति भीमराव कांसे एसीए	01/10/2010
1056.	130694	श्री अंकुर धानजी केशर निशार एसीए	01/10/2010
1057.	130706	श्री आदित्य एन. छावछारिया एसीए	01/10/2010
1058.	130726	श्री लोकाेश जालमचंद जैन एसीए	01/10/2010
1059.	130832	सुश्री सीमा भानुदास शिकेरकर एसीए	01/10/2010
1060.	130839	श्री मोनसी एम. जया देबिया एसीए	01/10/2010
1061.	130844	श्री संकेत रविकांत सेठ एसीए	01/10/2010
1062.	130854	सुश्री आरुषी रमेश रामसिंघानी एसीए	01/10/2010
1063.	130894	श्री जुल्यीकार एम. त्रिवेदी एसीए	01/10/2010
1064.	130896	सुश्री प्रेरणा जी. सालसकर एसीए	01/10/2010
1065.	130917	श्री आदित्य रविकुमार एसीए	01/10/2009
1066.	130925	श्री आदित्य श्रीनिवास हेब्बर एसीए	01/10/2010
1067.	130956	श्री अफजल हारुनभाई मलकानी एसीए	01/10/2010
1068.	130961	श्री अनिल कुमार ब्रोलिया एसीए	01/10/2010
1069.	130966	श्री सुनील मदनलाल सचदेव एसीए	01/10/2010
1070.	130968	सुश्री अशका सुरेश दवे एसीए	01/10/2010
1071.	130975	श्री प्रकाश श्यामलाल शर्मा एसीए	01/10/2010
1072.	131075	श्री महेश के. गौर एसीए	01/10/2010
1073.	131089	श्री वैभव सुभाष अग्रवाल एसीए	01/10/2010
1074.	131118	सुश्री अनुराधा रमेश अग्रवाल एसीए	01/10/2010
1075.	131120	श्री राकेश जयराम एस. शेट्टी एसीए	01/10/2010
1076.	131186	श्री सारंग सुधीर गुधाते एसीए	01/10/2010
1077.	131213	श्रीमती रुचि सुधीर जेजुरकर एसीए	01/10/2009
1078.	131228	श्री चैतन्य डी. सुचिता जोशी एसीए	01/10/2010
1079.	131230	श्री अभिषेक आनंद आपटे एसीए	01/10/2010
1080.	131246	श्री हितेश शिवमुन्दियाल शर्मा एसीए	01/10/2010
1081.	131278	श्री शालिन अतुलकुमार पाखिख एसीए	01/10/2010
1082.	131287	श्री विनय गोपीनाथ बेन्दके एसीए	01/10/2010
1083.	131289	श्री आशिष जैन एसीए	01/10/2010
1084.	131341	श्री गौरव दिलीप फडनीस एसीए	01/10/2010
1085.	131369	सुश्री दैनी थॉमस एसीए	01/10/2010
1086.	131404	श्री राजेश उमाकांत अमेटा एसीए	01/10/2010

1087.	131433	श्री सौरभ राजगोपाल कारवा एसीए	01/10/2010	1143.	134335	श्री गौरव एम.एम. पोखरना एसीए	01/10/2010
1088.	131458	श्री सुशील नरेन्द्रनाथ ठक्कर एसीए	01/10/2010	1144.	134352	श्री अजय रमेशकुमार जैन एसीए	01/10/2010
1089.	131486	सुश्री सायली एच. चंदाविया एसीए	01/10/2010	1145.	134385	सुश्री इन्द्रा रामशाई काबरा एसीए	01/10/2010
1090.	131493	श्री शाहरुज जी. सोमवंशी एसीए	01/10/2010	1146.	134420	श्री नितिन जैन एसीए	01/10/2010
1091.	131515	श्री अमर नामदेव पवार एसीए	01/10/2010	1147.	134429	श्री संजयभाई एम. केवाडिया एसीए	01/10/2010
1092.	131573	श्रीमती प्रज्ञा सचिन शाह एसीए	01/10/2010	1148.	134457	श्री हीतेशकुमार ए. पटेल एसीए	01/10/2010
1093.	131591	श्री रविन्द्र कुमार जैसवाल एसीए	01/10/2010	1149.	134508	श्री राकेश गोविन्द माली एसीए	01/10/2010
1094.	131627	सुश्री मीनाक्षी बी. शिंदे एसीए	01/10/2010	1150.	134510	श्रीमती श्रीपाल प्रियंक डोलकिया एसीए	01/10/2010
1095.	131677	श्री महेश मणिलालभाई लिम्बानी एसीए	01/10/2010	1151.	134516	श्री दामोदर जे. जांगिड एसीए	01/10/2010
1096.	131690	श्रीमती पूजा आशिष शेल्ले एसीए	01/10/2010	1152.	134572	श्री अरुण कुमार पोद्दार एसीए	01/10/2010
1097.	131695	श्री सचिन विक्रमराव घायल एसीए	01/10/2010	1153.	134582	श्री विनीत विनोद लोढा एसीए	01/10/2010
1098.	131820	श्री कुमार नेमीचंद फुलफगर एसीए	01/10/2010	1154.	134589	सुश्री वृषाली यू. कोठावले एसीए	01/10/2010
1099.	131947	सुश्री आर्पी दिनेश मीना पारिख एसीए	01/10/2010	1155.	134619	श्री विश्वास गोयल एसीए	01/10/2010
1100.	131979	सुश्री कन्यागी कल्याणसुन्दरम एसीए	01/10/2010	1156.	134690	श्री आदित्य सदाशिव हवलदार एसीए	01/10/2010
1101.	132014	सुश्री पूनम अनिलकुमार गुप्ता एसीए	01/10/2010	1157.	134726	श्री विवेक धर्मपॉल महाजन एसीए	01/10/2010
1102.	132053	श्री महेश सुरेश जामदार एसीए	01/10/2010	1158.	134749	श्री विक्रम कोठारी एसीए	01/10/2010
1103.	132124	श्री हेतांग राजेन्द्र शाह एसीए	01/10/2010	1159.	134768	श्री अमित शंकर भट्ट एसीए	01/10/2010
1104.	132131	श्री राशांक एम. शुक्ला एसीए	01/10/2010	1160.	134801	सुश्री शीतल अशोक पाटकरी एसीए	01/10/2010
1105.	132146	सुश्री अदिती कुलपुष्प सिंघल एसीए	01/10/2010	1161.	134811	सुश्री रचना आर. अलका गहाने एसीए	01/10/2010
1106.	132148	सुश्री स्नेहबाला गोपाल बियानी एसीए	01/10/2010	1162.	134823	श्री अमेय अनिल कुलकर्णी एसीए	01/10/2010
1107.	132220	सुश्री सिंधु राधाकृष्णन एसीए	01/10/2010	1163.	134966	श्री कीर्तिकुमार अमृतलाल पटेल एसीए	01/10/2010
1108.	132248	श्री हीतेन्द्र घेलुभाई जागर एसीए	01/10/2010	1164.	135041	श्री पीयूष रमेश अग्रवाल एसीए	01/10/2010
1109.	132294	श्री पंकज सती एसीए	01/10/2010	1165.	135119	सुश्री चारु मेहरोत्रा एसीए	01/10/2010
1110.	132362	श्री नीमेश जयंत गीता सचदे एसीए	01/10/2010	1166.	135121	श्री हीरेन ए. आरुतीबेन दर्जी एसीए	01/10/2010
1111.	132412	श्री कपिल अरविन्द पापादे एसीए	01/10/2010	1167.	135171	सुश्री नेहल प्रभुदास दत्तानी एसीए	01/10/2010
1112.	132451	श्री रमेश कुमार आर. दधिच एसीए	01/10/2009	1168.	135172	श्री युसुफी हुसैनी टिनवाला एसीए	01/10/2010
1113.	132459	श्री विनोद कुमार जी. चांदवानी एसीए	01/10/2010	1169.	135278	श्रीमती जास्मिन भावेश बिड एसीए	01/10/2010
1114.	132621	श्री दयाकर शंभु शेड्टी एसीए	01/10/2010	1170.	135313	श्री जीतेन्द्र जयकुमार गुलवानी एसीए	01/10/2010
1115.	133043	श्रीमती सुरभि सुमित सक्ता एसीए	01/10/2010	1171.	135320	सुश्री दीप्ति राजेन्द्र व्हान एसीए	01/10/2010
1116.	133057	श्री संजय देमन घोलप एसीए	01/10/2010	1172.	135322	श्री समीर शम्बीर कपाडिया एसीए	01/10/2010
1117.	133235	श्री रोबिन कुमार गुप्ता एसीए	01/10/2010	1173.	135327	सुश्री कल्याणी श्रीकांत वैद्य एसीए	01/10/2010
1118.	133266	श्री वृशांग भस्त सेठ एसीए	01/10/2010	1174.	135361	श्री मनोज नीलकंठ रणदिवे एसीए	01/10/2010
1119.	133269	सुश्री रीना प्रभुदास लाल एसीए	01/10/2010	1175.	135489	श्री विनय गिरीश शाह एसीए	01/10/2010
1120.	133301	श्री सुमित कुमार लोढा एसीए	01/10/2010	1176.	135495	श्री अमोल मनन पारिख एसीए	01/10/2010
1121.	133364	श्रीमती निशा कल्पेश शाह एसीए	01/10/2010	1177.	135580	श्री सागर सुधीरभाई शुक्ला एसीए	01/10/2010
1122.	133386	सुश्री रिचा सुरिन्दर चौधरी एसीए	01/10/2010	1178.	135604	सुश्री अदिती मित्तल एसीए	01/10/2010
1123.	133434	श्री भावदीप श्रीखालाल वोरा एसीए	01/10/2010	1179.	135685	श्री आनंद विद्यालिंगन एसीए	01/10/2010
1124.	133552	श्री नवनीत दखेरा एसीए	01/10/2010	1180.	203169	श्री राजेन्द्रन सी एसीए	01/10/2009
1125.	133613	श्री संतोष तुकाराम शिंदे एसीए	01/10/2010	1181.	204753	श्री चन्द्र शेखर जी नागा एफसीए	01/10/2010
1126.	133623	श्री मोहज शम्बीर करसचीवाला एसीए	01/10/2010	1182.	206190	श्रीमती राधिका हरिहरन एफसीए	01/10/2010
1127.	133638	सुश्री गंगा बनाम पी.आर. खोलकर	01/10/2010	1183.	207685	श्री शिम्मी एम मैथ्यू एसीए	01/10/2010
1128.	133676	श्री इमवाद एच.ए. सुर्वे एसीए	01/10/2010	1184.	208687	श्री वेंकटेश केशव सेठ एफसीए	01/10/2010
1129.	133708	श्री जीत बिभास चटर्जी एसीए	01/10/2010	1185.	209116	श्री जगदेश एस एसीए	01/10/2009
1130.	133835	श्री हेमंत किरनचन्द्र वानी एसीए	01/10/2010	1186.	210291	श्री पारखा जे. गुप्ता गोडे एसीए	01/10/2010
1131.	133839	श्री सौरभ विनोदभाई कोठारी एसीए	01/10/2010	1187.	211369	श्री बलराम वी एसीए	01/10/2010
1132.	133944	श्री सुशांत अरुण नागरे एसीए	01/10/2010	1188.	212382	श्री मनोज महेशकुमार शाह एसीए	01/10/2009
1133.	133973	श्रीमती भाग्यश्री सतीश चौडक एसीए	01/10/2010	1189.	215712	सुश्री अपर्णा आर. वारियर एसीए	01/10/2010
1134.	134025	सुश्री श्वेता एस. सुशीला कावर एसीए	01/10/2010	1190.	220178	सुश्री लक्ष्मी देवी ए जे एसीए	01/10/2010
1135.	134135	श्री संत संवरमल शर्मा एसीए	01/10/2010	1191.	400136	श्री कृपलानी हरीश एसीए	01/10/2009
1136.	134150	श्री अमरवीर सरन दास एसीए	01/10/2010	1192.	400808	सुश्री अग्रवाल स्वाति एफसीए	01/10/2010
1137.	134194	श्री निशांत नंदकिशोर मुन्दादा एसीए	01/10/2010	1193.	400875	श्री मिश्रा मनोज कुमार एसीए	01/10/2010
1138.	134237	श्री मयूर रामजी देविया एसीए	01/10/2010	1194.	401879	श्री बियानी राज गोपाल एसीए	01/10/2010
1139.	134274	सुश्री नेहा जयंतकुमार रैना एसीए	01/10/2010	1195.	401941	सुश्री भंडारी मीनल एसीए	01/10/2009
1140.	134284	सुश्री भाविकाबेन जे पटेल एसीए	01/10/2010	1196.	402278	श्री पुनमिया आनंद एफसीए	01/10/2010
1141.	134332	श्री विशाल लक्ष्मणराव देशमुख एसीए	01/10/2010	1197.	403666	श्री हीतेन्द्र अग्रवाल एसीए	01/10/2010
1142.	134333	श्री विक्रान्त के अग्रवाल एसीए	01/10/2010	1198.	405807	श्री सहूल कोचर एसीए	01/10/2010

1199.	405808	श्री प्रदीप कुमार एसीए	01/10/2010
1200.	406322	सीए. गीता शिवानी एफसीए	01/10/2010
1201.	407167	सीए. हिमांशु खंडेलवाल एसीए	01/10/2010
1202.	407347	श्रीमती नीतू विशाल सिघानिया एसीए	01/10/2010
1203.	407632	सीए. अजय कुमार अग्रवाल एसीए	01/10/2010
1204.	408211	सीए. जयंत कुमार जैन एसीए	01/10/2010
1205.	408544	सीए. नीरज कुमार जैन एसीए	01/10/2010
1206.	410193	सीए. विकास जैन एसीए	01/10/2010
1207.	500941	श्री शर्मा मनोज कुमार एफसीए	01/10/2010
1208.	501227	श्री चंडक संदीप कुमार एफसीए	01/10/2010
1209.	506991	श्री शंकर लाल बजाज एसीए	01/10/2010

1210.	507307	सुश्री नेहा मिश्रा एसीए	01/10/2010
1211.	508006	श्री सिद्धार्थ जैन एसीए	01/10/2010
1212.	508864	श्री कुलदीप सिंह एसीए	01/10/2010
1213.	511065	श्री अजीत कुमार झा एसीए	01/10/2010
1214.	511506	श्री पियन कुमार सिंह एसीए	01/10/2010
1215.	511650	श्री कपिल ढाकल एसीए	01/10/2009
1216.	511782	श्री मनोज कुमार अग्रवाल एसीए	01/10/2010
1217.	511940	श्री बिपिन कुमार चौधरी एसीए	01/10/2010
1218.	512538	श्री कुंवर रिजवान एसीए	01/10/2010
1219.	514188	श्री विकास राय एसीए	01/10/2010
1220.	515365	श्री अनुज बाजपेयी एसीए	01/10/2010

टी. कार्तिकेयन  
सचिव

उडयूसीए(5)/2/2010-11 : संस्थान की अधिसूचना सं. 25-सीए(117)/1999, तारीख 17 जुलाई, 2010; 25-सीए(135, 138, 139, 140, 254)/200, तारीख 17 जुलाई, 2010; 25-सीए(229)/2002, तारीख 17 जुलाई, 2010; 25-सीए(52)/2002, तारीख 17 जुलाई, 2010; 25-सीए(61)/2000, तारीख 17 जुलाई, 2010; उडयूसीए(4)/1/2000-01 तारीख 15 जनवरी, 2001; उडयूसीए(4)/1/2001-02 तारीख 7 जनवरी, 2002; उडयूसीए(4)/1/2002-03 तारीख 10 फरवरी, 2003; उडयूसीए(4)/3/2003-04 तारीख 20 अप्रैल, 2004; उडयूसीए(4)/3/2004-05 तारीख 2 सितंबर, 2005; उडयूसीए(4)/3/2005-06 तारीख 28 अप्रैल, 2006; उडयूसीए(4)/3/2006-07 तारीख 16 मार्च, 2008; उडयूसीए(4)/3/2007-08 तारीख 4 जुलाई, 2008; उडयूसीए(4)/3/2009-10 तारीख 28 दिसंबर, 2010; उडयूसीए(4)/3/2010-11 तारीख 4 अक्टूबर, 2011; उडयूसीए(4)/3/1999-2000 तारीख 31 मार्च, 2000; उडयूसीए(4)/1/98-99 तारीख 12 जनवरी, 1999 के विनियमों से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1998 के विनियम 20 के अनुसार यह अधिसूचित किया जाता है कि प्रत्येक विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रत्येक उडयूसीए का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिधि में निम्नलिखित सदस्यों को नामों को उनके नामों के सामने दर्जित तारीखों से संश्लेषित में पुनः प्रसिद्ध कर लिया है :—

क्रम सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम	पुनः प्रसिद्धि की तारीख
1.	006368	श्री विमल को.डी. अग्रवाल एफसीए	03/06/2010
2.	007080	श्री राहुल लाल मदनलाल एफसीए	02/06/2010
3.	007567	श्री हन एन मधुसूदन एफसीए	16/10/2010
4.	007953	श्री कुलदीप सिंह एफसीए	28/06/2010
5.	008466	श्री जयसिंग आर एसीए	04/06/2010
6.	009504	श्री योग प्रकाश आनंद एफसीए	21/03/2011
7.	010265	श्री युक्त मल्लिक एफसीए	27/09/2010
8.	011548	श्री विनोद सुख कर्मा एफसीए	20/06/2010
9.	011804	श्री प्रदीप क.डी. शर्मा एफसीए	09/03/2011
10.	012896	श्री संतोष ओ. शर्मा एसीए	11/10/2010
11.	013661	श्री महेन्द्रलाल ए.ए. सिन्हा एसीए	11/09/2010
12.	014570	श्री लक्ष्मण जी. शर्मा एसीए	24/05/2010
13.	015361	श्री जयसिंग शर्मा एफसीए	18/11/2010
14.	015672	श्री के. लाल मधुसूदन एसीए	17/06/2010
15.	016087	श्री अनीस को.डी. शर्मा एफसीए	16/07/2010
16.	016463	श्री के.एन.ए. लाल शर्मा एसीए	10/06/2010
17.	016937	श्री दीपक लाल शर्मा एसीए	17/06/2010
18.	017044	श्री लाल शर्मा एसीए	30/06/2010
19.	017236	श्री लाल शर्मा एसीए	16/06/2010
20.	017523	श्री जयसिंग शर्मा एसीए	31/12/2010
21.	017984	श्री लाल शर्मा एसीए	10/12/2010
22.	017996	श्री लाल शर्मा एसीए	09/12/2010
23.	018184	श्री लाल शर्मा एसीए	31/03/2010
24.	020372	श्री लाल शर्मा एसीए	03/06/2010
25.	020526	श्री लाल शर्मा एसीए	28/06/2010
26.	021658	श्री लाल शर्मा एसीए	28/06/2010
27.	023115	श्री लाल शर्मा एसीए	11/05/2010
28.	023564	श्री लाल शर्मा एसीए	23/06/2010
29.	023599	श्री लाल शर्मा एसीए	18/06/2010
30.	024086	श्री लाल शर्मा एसीए	03/06/2010
31.	025571	श्री लाल शर्मा एसीए	31/01/2011
32.	026706	श्री लाल शर्मा एसीए	27/01/2011
33.	030006	श्री लाल शर्मा एसीए	04/06/2010
34.	030042	श्री लाल शर्मा एसीए	18/01/2011

35.	030406	श्री लाल शर्मा एसीए	28/06/2010
36.	030730	श्री लाल शर्मा एसीए	12/06/2010
37.	030788	श्री लाल शर्मा एसीए	24/06/2010
38.	030880	श्री लाल शर्मा एसीए	07/06/2010
39.	031221	श्री लाल शर्मा एसीए	28/06/2010
40.	031415	श्री लाल शर्मा एसीए	12/06/2010
41.	031444	श्री लाल शर्मा एसीए	07/06/2011
42.	031613	श्री लाल शर्मा एसीए	08/06/2010
43.	031548	श्री लाल शर्मा एसीए	24/06/2010
44.	031855	श्री लाल शर्मा एसीए	14/07/2010
45.	032242	श्री लाल शर्मा एसीए	08/12/2010
46.	032253	श्री लाल शर्मा एसीए	16/11/2010
47.	032354	श्री लाल शर्मा एसीए	01/12/2010
48.	032858	श्री लाल शर्मा एसीए	29/11/2010
49.	032943	श्री लाल शर्मा एसीए	16/03/2011
50.	032972	श्री लाल शर्मा एसीए	07/06/2010
51.	033107	श्री लाल शर्मा एसीए	14/07/2010
52.	033150	श्री लाल शर्मा एसीए	17/06/2010
53.	033181	श्री लाल शर्मा एसीए	28/06/2010
54.	033210	श्री लाल शर्मा एसीए	20/06/2010
55.	033362	श्री लाल शर्मा एसीए	06/06/2010
56.	033405	श्री लाल शर्मा एसीए	28/12/2010
57.	033421	श्री लाल शर्मा एसीए	08/11/2010
58.	033463	श्री लाल शर्मा एसीए	28/06/2010
59.	033723	श्री लाल शर्मा एसीए	21/06/2010
60.	033785	श्री लाल शर्मा एसीए	16/06/2010
61.	033818	श्री लाल शर्मा एसीए	18/01/2011
62.	033894	श्री लाल शर्मा एसीए	20/03/2010
63.	034583	श्री लाल शर्मा एसीए	18/11/2010
64.	034744	श्री लाल शर्मा एसीए	29/06/2010
65.	034798	श्री लाल शर्मा एसीए	04/06/2010
66.	034874	श्री लाल शर्मा एसीए	16/06/2010
67.	034906	श्री लाल शर्मा एसीए	30/06/2010
68.	035249	श्री लाल शर्मा एसीए	14/03/2011
69.	035280	श्री लाल शर्मा एसीए	02/07/2010
70.	035458	श्री लाल शर्मा एसीए	27/06/2010
71.	035681	श्री लाल शर्मा एसीए	18/02/2011

72	036200	श्री अजयकुमार एन. ठक्कर एफसीए	29/04/2010
73	036344	श्री पारिज अमित नलिन एफसीए	07/02/2011
74	036421	श्री शर्मा राजेन्द्र प्रहलाद एफसीए	12/05/2010
75	036464	श्री परेश लियोनल फेलिक्स एसीए	06/12/2010
76	036471	शुश्री परांजपे रेखा अनीश एसीए	08/04/2010
77	036699	श्री अविनाश हुस्नेन मोइज एफसीए	06/12/2010
78	037091	श्री बत्रा रघुवीर एसीए	14/02/2011
79	037125	श्री बत्रा दीपक महेन्द्र एफसीए	28/07/2010
80	037288	श्री विजय ककीराम साबरा एफसीए	21/02/2011
81	037301	श्री कान्हेर सावित्र सैयद एसीए	27/08/2010
82	037418	श्री छाकी जफरखली अफजलखली एफसीए	16/06/2010
83	037483	श्री सुनीलकुमार पी. शाह एफसीए	03/06/2010
84	037944	श्री सैतल कुमार यादव एसीए	28/04/2010
85	037989	श्री ब्यास हिंशार गोविन्दलाल एसीए	11/02/2011
86	037982	श्री रजिस्ट्रार लिओ मोरिल एफसीए	02/04/2011
87	038039	श्री फतेह सतित प्रतापजीमाई एसीए	26/06/2010
88	038067	श्री लोहा अनिल एफसीए	15/11/2010
89	038103	श्री रजिस्ट्रार रमेशचन्द्र एसीए	31/06/2010
90	038242	श्री धर्मेन्द्र सुन्दर मेहता एसीए	25/06/2010
91	038400	श्री हेमन्त कुमार कोलकाताकर एफसीए	04/08/2010
92	038562	श्री योगेश ठेकेत एसीए	10/05/2010
93	038810	श्री गणेश जी. साधुशिरा एफसीए	18/06/2010
94	038891	श्री कुम्भार रमेश एसीए	08/06/2010
95	038984	श्री मिलिंद लक्ष्मण कोरकर एफसीए	13/05/2010
96	038979	श्री सन्धीस महेन्द्र प्रसाकर एसीए	09/07/2010
97	038981	शुश्री नामदेवी राजी प्रवेश एसीए	27/06/2010
98	039308	श्री केशव विलिंग्टन कालडेक एसीए	03/02/2011
99	039448	शुश्री विमला संजयलाल एसीए	12/04/2010
100	039476	श्री साह संजय दीपेन्द्र एसीए	07/07/2010
101	039530	श्री परमेश्वर जी. आहुजा एसीए	31/05/2010
102	039547	श्री अमित खोसी एसीए	08/11/2010
103	039594	श्री मेलानी कारुदेन सैयदलाल एफसीए	26/04/2010
104	039698	शुश्री प्रमोद विवेक संजयलाल एसीए	10/08/2010
105	039722	श्री जीवनर मिश्र कुमाजी एसीए	24/11/2010
106	039789	श्री अमल कुमार मल्लिक पाठक एफसीए	21/06/2010
107	039938	श्री संजयकुमार ए. जी. एफसीए	21/05/2010
108	039994	श्री सुबोध राजीव श्रीकृष्ण एसीए	27/04/2010
109	040331	श्रीमती विन्दा अमर रॉय एसीए	11/05/2010
110	040888	श्री नीरज नरसी जोषा एफसीए	08/04/2010
111	040944	श्री साह प्रमोद अलताफ हसन एफसीए	23/08/2010
112	040929	श्री जोगलकर प्रसाद कुम्भा एसीए	17/03/2011
113	041110	श्री सैदुल्ला एम. यदुनाथ एसीए	18/05/2010
114	041407	श्री अमर एम. रजिस्ट्रार एसीए	01/09/2010
115	041413	श्री वैभव सुन्दर कारुदेन एफसीए	01/11/2010
116	041656	श्री अमीर रजत काली एसीए	21/12/2010
117	041698	श्री कदम प्रमोद मनोहर एसीए	29/12/2010
118	041773	श्री रजत सुन्दर बाबुलाल एसीए	17/05/2010
119	041797	श्री शिवाजी मोतीचम अहीरे एफसीए	03/02/2011
120	041806	श्री राजीव रमेश गुप्ता एसीए	22/04/2010
121	041927	श्री नवीनी लक्ष्मी मोहम्मद एसीए	17/05/2010
122	041930	श्री जोशी अमर मालचन्द्र एसीए	24/06/2010
123	042332	श्री माला शम्भू हुसैनी एसीए	20/05/2010

124	042347	श्री अयंगर एस. सुंदरराजन एसीए	23/06/2010
125	042370	श्री राकेश गुस्नोमल रोहस एसीए	27/12/2010
126	042405	श्री सेठजीवाला फखरुल्ला एसीए	16/08/2010
127	042494	श्री जीतेन्द्र कल्याणजी पंचाल एसीए	07/05/2010
128	042576	श्री शिशिर महालिंग गण्पा एसीए	03/11/2010
129	042721	श्री निखिल मोहनदास गोमुली एसीए	04/02/2011
130	042851	श्री शशिधाम तुलकाय गायकवाड एफसीए	17/09/2010
131	042875	श्री श्रीधर शिवालय अचारी एसीए	01/11/2010
132	042878	श्री अयंगर आर. नरसिम्ह एसीए	21/07/2010
133	043113	श्री चानवोरी हेमंत मधुकर एसीए	06/06/2010
134	043162	श्री सनजित गुर्जरदास सोमेश एसीए	19/08/2010
135	043170	श्री नारायण जी. प्रतापराय एफसीए	02/02/2011
136	043220	श्री राहु लक्ष्मि लीलिङ्गनाथ एसीए	08/08/2010
137	043304	श्री उपाध्याय सी. नरसिम्ह एफसीए	28/04/2010
138	043307	श्री दीपक कुमार जे. खोसी एफसीए	06/12/2010
139	043423	श्री धीर अशोक कुमार एफसीए	25/03/2010
140	043470	श्री कपिल जैतारकर जैन एसीए	12/04/2010
141	043513	श्री प्रदीप के. अलवाल एफसीए	15/08/2010
142	043525	श्री प्रकाशप्रसाद लीला एसीए	09/04/2010
143	043562	श्री मोहम्मद मोहमद मजिद एसीए	03/06/2010
144	043768	श्री विजयलक्ष्मी चव्हाण एसीए	2/03/2011
145	043770	श्री निरंजकुमार एस. साह एफसीए	06/08/2010
146	043884	श्रीमती कल्पना विमल साह एफसीए	13/08/2010
147	043957	श्री तुलसीदास पीयूष एसीए	15/11/2010
148	044034	श्रीमती अरुणमति आर. पटेल एसीए	14/07/2010
149	044221	श्री महेशकुमार आर. कलान एसीए	31/05/2010
150	044316	श्रीमती फलकी पी. चामराडेकर एसीए	19/04/2010
151	044408	श्री सुंदर लक्ष्मण एसीए	17/01/2011
152	044531	श्री एनटी चर्मिल हिलकुमार एसीए	28/04/2010
153	044620	श्री एलियसिथ रिफेट एसीए	29/12/2010
154	044715	श्री रवीन्द्र आनंद प्रदीपति एसीए	19/07/2010
155	044749	शुश्री देवप्रभा अरविनी सुन्दर एफसीए	01/11/2010
156	044863	श्री गोपालकुमार आर. एसीए	01/11/2010
157	045021	शुश्री मेखला विठ्ठल एसीए	12/04/2010
158	045188	श्री किशोरलाल पी. सोमेश्वर एसीए	28/10/2010
159	045221	श्री गोपी दिलीप विनोदकर एसीए	10/02/2011
160	045223	श्री राज सुनील पीटर एसीए एफसीए	06/08/2010
161	045318	श्री राजेश प्रमोदलाल शैल एसीए	10/11/2010
162	045374	श्री जी. कुमार जी. एस. एसीए	17/08/2010
163	045490	श्री महेन्द्र मुकेशकुमार अलवाल एसीए	24/01/2011
164	045512	श्री साह कर्णेश हरीशकुमार एसीए	18/01/2011
165	045548	श्री कोटवाल अमर अरविन्द एफसीए	08/06/2010
166	045550	श्रीमती बाबुल राजेश प्रमोद एसीए	24/03/2010
167	045604	श्री अवेरी मनीष मधुसूदन एसीए	08/10/2010
168	045798	श्री महेश कुमार रंगा एसीए	18/05/2010
169	045858	श्री दंतल जयजी बापस एसीए	23/12/2010
170	045885	श्री मोहनी प्रमोद एसीए	12/07/2010
171	045954	श्री मेखला कार्तिक शैलेश एसीए	21/08/2010
172	046188	श्री अजयकुमार पोपटलाल एफसीए	01/02/2011
173	046324	श्री साइमन सुभाषविचय एसीए	21/06/2010
174	046404	श्री अमित बी. नानीदेवकर एफसीए	20/05/2010
175	046424	श्री सोहोनी एन. रमाकृष्ण एसीए	20/01/2011

176	046426	श्री विवेक चामन सॉलिट एसीए	19/10/2010
177	046432	श्री जिन्मी एराच दादरवाला एसीए	12/08/2010
178	046474	सुश्री दावदा इंदिरा कुमार एसीए	30/08/2010
179	046800	श्री निमोद आर. पंचामिया एसीए	26/11/2010
180	046847	श्री वरुण शाखा एसीए	10/08/2010
181	046874	श्री रविचन्द्रन रुम एसीए	25/02/2011
182	046886	श्री धर्मादुरई जे. पांडियन एसीए	16/08/2010
183	046872	श्री अक्षयनरियार के कावसिया एसीए	30/03/2010
184	046948	श्री कामत संजय मोहन एसीए	17/06/2010
185	047114	श्री रोच विजयकुमार जलज्जवास एसीए	30/07/2010
186	047183	श्री आनंद एम. कोडक एसीए	28/04/2010
187	047180	श्री रंजनी इरेल सावरन एसीए	28/04/2010
188	047183	श्री जयसिंह विहाल रॉय एसीए	18/04/2010
189	047203	श्री श्रीर के. गणपति एसीए	21/04/2010
189	047384	श्री जीतेन्द्र राजपाल रावठी एसीए	29/06/2010
191	047408	श्री चमर सिद्धि लालबाबु एसीए	29/06/2010
192	047748	श्री सीतारंजु कुमर गलाब एसीए	07/03/2011
193	047982	श्री सुदीप अर्जुन रावठी एसीए	18/06/2010
194	048001	श्री राजपाल रावठी एसीए	20/07/2010
195	048228	श्री पंडित अमर कर् एसीए	30/12/2010
196	048261	श्री मालबाबकर जे. मण्डवार एसीए	26/08/2010
197	048293	श्रीमती मनीषा अमृत अरोरे एसीए	20/12/2010
198	048329	सुश्री सीता रंज एसीए	01/03/2011
199	048344	सुश्री अमिता प्रकाश गुजर एसीए	19/11/2010
200	048390	श्री कामर मनीष रमज्जवास एसीए	28/08/2010
201	048413	श्री अनिल प्रवराज सेट्टी एसीए	20/04/2010
202	048461	श्री कौशिकचमर पी. मार एसीए	18/03/2011
203	048700	सुश्री सचकर सीता सचकर एसीए	21/04/2010
204	048713	सुश्री विवेदी गीता विविल एसीए	15/07/2010
205	048728	सुश्री विद्या बालकृष्णन अय्यर एसीए	23/08/2010
206	048846	श्री सेठ जीवल विक्रम एसीए	18/04/2010
207	048888	श्री गंगाधर आर. खलभाग एसीए	09/04/2010
208	049087	श्री बाको साजी एसीए	26/08/2010
209	049214	श्री संदीप बी. लक्ष्मण गोमल एसीए	03/08/2010
210	049302	सुश्री सीतल सनीर हाथिन एसीए	08/03/2011
211	049433	श्रीमती सीता संतोष बांडे एसीए	31/03/2010
212	049483	श्री सुनिषा पी. कालीप्रसाद एसीए	06/07/2010
213	049828	श्री मेहरा लक्ष्मण मोनेश एसीए	09/08/2010
214	049874	श्री राजेश पीकसिंह ओझा एसीए	26/04/2010
215	049908	श्री नारायण रामासिंहन एसीए	08/11/2010
216	049967	श्री विनेश दयाचम प्रजापति एसीए	14/05/2010
217	049711	श्री विपुला डेरिक एसीए	12/10/2010
218	049758	श्री प्रभु अश्विन रामाध्व एसीए	24/12/2010
219	049780	श्री इरानी मेरेबाब जलमनिर एसीए	28/07/2010
220	049834	श्री संजीव डीकचम जवेरी एसीए	21/01/2011
221	049881	सुश्री कदमाह इफत अहमद एसीए	29/11/2010
222	049936	सुश्री प्रजक्ता एम. शिकोरे एसीए	15/11/2010
223	050034	श्री लम नरेल एसीए	07/12/2010
224	050050	श्री वैक्कारमन टी. एसीए	19/04/2010
225	050139	श्री शिमल कुमार राकवर्ती एसीए	14/06/2010
226	050659	श्री अनिल कुमार रॉल एसीए	29/12/2010
227	051294	श्री सेठ विवेक एसीए	07/05/2010

228	064174	श्री दास बालस एसीए	05/08/2010
229	054322	श्री रणवीर मित्रा एसीए	27/04/2010
230	054374	श्री विश्वनाथ पी. एसीए	12/07/2010
231	054787	श्री चटर्जी रीजु एसीए	28/07/2010
232	055378	श्री नरेंद्रन बी. रंजानी एसीए	07/12/2010
233	055480	श्री सोन्यालिया अशोक कुमार एसीए	09/04/2010
234	055545	श्री प्रकाश फटलवादी एसीए	06/12/2010
235	055581	श्री सोनापति केदार नाथ एसीए	13/04/2010
236	055713	श्री राज कृष्णन एसीए	16/07/2010
237	059086	श्रीमती लीली एचन एसीए	17/03/2010
238	056288	श्री गोपाल विवेक एसीए	01/03/2010
239	056415	श्री अग्रवाल गोपाल एसीए	11/08/2010
240	056826	श्री देवा प्रसाद मिश्रा एसीए	18/08/2010
241	056785	श्री अग्रवाल बल्लु कुमार एसीए	21/02/2011
242	057281	श्री प्रभुन बनर्जी एसीए	18/08/2010
243	057828	सुश्री अजली मल एसीए	28/08/2010
244	057818	श्री मेहरा संदीप एसीए	17/08/2010
245	058088	श्री दास अरुण एसीए	20/03/2010
246	058184	श्री कुमार अनुर एसीए	04/02/2011
247	058714	श्री झा विजेन्द्र कुमार एसीए	08/04/2010
248	058879	श्री नायर रंजित एसीए	01/04/2010
249	059232	श्री रानी हनुमान कुमार एसीए	04/11/2010
250	059378	श्री बलराम दीपक एसीए	10/08/2010
251	059974	श्री अग्रवाल मनोहर एसीए	20/07/2010
252	060488	श्री मोहरा विवेक एसीए	18/01/2011
253	060703	श्री मेहोपाय संकेत एसीए	10/01/2011
254	061280	श्री प्रकाश कुमार एसीए	17/08/2010
255	061815	श्री ओमका शर्मा एसीए	23/08/2010
256	062386	श्री मनीष जैन एसीए	26/06/2010
257	063588	श्री मुन्ता पीयूष एसीए	27/12/2010
258	063743	श्री मन्मथी हरीश एसीए	08/04/2010
259	063807	श्री अग्रवाल अश्विनी एसीए	27/08/2010
260	064227	श्री सुरेश कुमार जल्ला एसीए	21/12/2010
261	064532	श्री विद्याधर दास एसीए	06/06/2010
262	065330	श्री. रमेश चन्द्र मुंटा एसीए	28/07/2010
263	066728	श्री. गोपाल अग्रवाल एसीए	08/06/2010
264	071328	श्री अग्रवाल प्रदीप कुमार एसीए	29/08/2010
265	071438	श्री दीपक नंद किशोर एसीए	07/02/2011
266	074867	श्री सुरेश मोहनराव एसीए	07/07/2010
267	074888	श्री सुजीत बाफन एसीए	18/04/2010
268	074951	श्री नाथुर अनिल एसीए	10/06/2010
269	077141	श्री अनिल कुमार बाकोबी एसीए	20/04/2010
270	077182	श्री बालकृष्ण सिंह विजयन एसीए	16/03/2011
271	077384	श्री अनुपम जोशी एसीए	08/04/2010
272	078280	श्री मुकुंजी सीतल एसीए	28/09/2010
273	079788	श्री. गुप्ता सुश्रुति एसीए	11/01/2011
274	080781	श्री रेणुचन एस. एसीए	29/06/2010
275	084889	श्री शैलजा नरिन्द्र एसीए	02/11/2010
276	085817	श्री शिव इंदु रानी एसीए	28/08/2010
277	088517	श्री सुवन कुमार गांधिया एसीए	29/08/2010
278	090682	श्री अनिल प्रभुन एसीए	20/08/2010
279	091280	श्री संजीव कुमार एसीए	23/09/2010



280.	091934	श्री धर्मेन्द्र कुमार एसीए	14/05/2010
281.	092258	श्री बल्लभ लज्जा एसीए	20/06/2010
282.	093775	श्री जैन रमेश एसीए	16/06/2010
283.	094413	श्री विनीत श्रीवास्तव एसीए	13/06/2010
284.	095211	श्री अनिरुद्ध दत्ता एसीए	13/06/2010
285.	095721	सुश्री कस्तुर मोनिका एसीए	15/12/2010
286.	097921	श्री यश्वन्त एस्.के. परमेश्वरपुरिया एसीए	10/11/2010
287.	098915	श्री प्रबुल कुमार एसीए	07/03/2011
288.	100015	श्री इंजीनियर ए.एच.के.ए. खान एसीए	16/12/2010
289.	100081	श्री सुरेश अशोकलाली देवराहा एसीए	23/08/2010
290.	100085	श्री तन्मय जयराजदास मुन्हाडा एसीए	29/08/2010
291.	100181	श्री जोशी मंगर विनायक एसीए	26/04/2010
292.	100176	श्री कजरा मधु श्री एसीए	02/06/2010
293.	100465	श्री के.टी. विनय नाथिनाथ एसीए	01/04/2010
294.	100526	सुश्री देविदास विजयराज एसीए	16/02/2011
295.	100584	श्री राहु एमन सुलेख एसीए	14/12/2010
296.	100615	श्री प्रमोदनाथ एस. काळकर एसीए	21/07/2010
297.	100720	श्री एम अनंता नाथदास एसीए	24/08/2010
298.	100748	श्री मधुवीर प्रकाश जैन एसीए	19/06/2010
299.	100782	श्री राहु अनिल विनय एसीए	02/06/2010
300.	100876	श्री प्रमोदनाथ नाथिनाथ एसीए	02/06/2010
301.	100906	श्री प्रमोदनाथ नाथिनाथ एसीए	12/11/2010
302.	100918	श्री प्रमोदनाथ नाथिनाथ एसीए	20/08/2010
303.	100954	श्रीमती नैला विनीत राहु एसीए	24/04/2011
304.	101032	श्री श्रीरामनाथ एम एम एसीए	28/11/2010
305.	101064	श्री सविन सुनील बजाज एसीए	03/09/2010
306.	101089	श्री प्रमोदनाथ ए. मोहन एसीए	11/03/2011
307.	101174	श्री एडोल्फोकर जी. बल्लभ एसीए	13/06/2010
308.	101350	श्री गायत्री प्रवीण एसीए	08/06/2010
309.	101763	श्री सुधीर देवेंद्र एसीए	24/05/2010
310.	101826	श्री प्रमोदनाथ नाथिनाथ एसीए	01/06/2010
311.	101883	सुश्री रेखा अशोकलाली देवराहा एसीए	10/08/2010
312.	101926	श्री सोनम अशु. अशोकलाल एसीए	28/07/2010
313.	102006	श्री कलनाथ सोनम अशु. एसीए	29/03/2011
314.	102122	श्री सविन अशु. अशोकलाल एसीए	11/08/2010
315.	102170	श्रीमती रमा अशु. अशोकलाल एसीए	03/12/2010
316.	102220	श्री सविन अशु. अशोकलाल एसीए	20/08/2010
317.	102282	श्री सुनीलनाथ सविन अशु. अशोकलाल एसीए	23/03/2011
318.	102599	श्री नाथनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	20/12/2010
319.	102687	श्री सविन अशु. अशोकलाल एसीए	22/06/2010
320.	102692	श्रीमती मनीषा अशु. अशोकलाल एसीए	14/12/2010
321.	102728	सुश्री बंधु देवराहा एसीए	16/12/2010
322.	102816	श्री राम सुनील अशु. अशोकलाल एसीए	23/12/2010
323.	102852	सुश्री कलनाथ देवराहा एसीए	22/11/2010
324.	102911	सुश्री नरनाथ एम. अशु. अशोकलाल एसीए	18/05/2010
325.	102950	सुश्री नैला लक्ष्मी सागर अशु. अशोकलाल एसीए	29/03/2010
326.	102993	श्री अशु. एम. अशु. अशोकलाल एसीए	24/01/2011
327.	103067	श्री जीतेन्द्र आर. अशु. अशोकलाल एसीए	20/09/2010
328.	103136	श्री प्रमोदनाथ एम. अशु. अशोकलाल एसीए	28/04/2010
329.	103179	श्री विनयनाथ एम. अशु. अशोकलाल एसीए	15/06/2010
330.	103191	सुश्री मनीषा अशु. अशोकलाल एसीए	30/12/2010
331.	103196	श्री विनयनाथ एम. अशु. अशोकलाल एसीए	17/01/2011

332.	103202	श्री अशु. अशोकलाल एसीए	25/06/2010
333.	103285	श्रीमती गहना सोमू मल्लिकार्जुन एसीए	13/08/2010
334.	103675	श्रीमती मनीषा योगेश लक्ष्मी एसीए	22/04/2010
335.	103712	श्री कुमार गोपालन एसीए	11/10/2010
336.	103842	सुश्री नाथनाथ देवराहा एसीए	11/10/2010
337.	103897	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	26/05/2010
338.	103974	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	16/03/2011
339.	103984	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	21/06/2010
340.	104030	श्री अशु. अशोकलाल एसीए	15/10/2010
341.	104165	श्रीमती प्रभा बल्लभ एसीए	10/08/2010
342.	104206	श्री अशु. अशोकलाल एसीए	18/04/2010
343.	104345	सुश्री गुलाबी नाथनाथ देवराहा एसीए	04/02/2011
344.	104370	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	25/06/2010
345.	104387	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	03/06/2010
346.	104479	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	16/01/2011
347.	104532	श्री अशु. अशोकलाल एसीए	19/04/2010
348.	104542	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	10/11/2010
349.	104588	श्रीमती सुनील अशु. अशोकलाल एसीए	19/04/2010
350.	104676	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	22/04/2010
351.	104717	श्री अशु. अशोकलाल एसीए	03/09/2010
352.	104741	सुश्री रमा अशु. अशोकलाल एसीए	18/04/2010
353.	104923	सुश्री रमा अशु. अशोकलाल एसीए	07/04/2010
354.	104951	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	08/04/2010
355.	105002	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	15/10/2010
356.	105109	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	03/11/2010
357.	105176	श्री अशु. अशोकलाल एसीए	11/05/2010
358.	105218	श्री अशु. अशोकलाल एसीए	20/07/2010
359.	105337	श्री अशु. अशोकलाल एसीए	10/06/2010
360.	105372	श्रीमती रमा अशु. अशोकलाल एसीए	24/12/2010
361.	105410	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	30/06/2010
362.	105432	श्री अशु. अशोकलाल एसीए	13/01/2011
363.	105446	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	17/05/2010
364.	105479	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	24/05/2010
365.	105532	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	23/06/2010
366.	105673	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	04/08/2010
367.	105710	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	24/09/2010
368.	105728	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	19/04/2010
369.	105832	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	03/08/2010
370.	105898	श्रीमती जीव अशु. अशोकलाल एसीए	22/11/2010
371.	105931	सुश्री मनीषा अशु. अशोकलाल एसीए	18/03/2011
372.	106062	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	17/06/2010
373.	106141	श्रीमती विद्या अशु. अशोकलाल एसीए	28/04/2010
374.	106152	सुश्री मनीषा अशु. अशोकलाल एसीए	18/12/2010
375.	106288	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	13/05/2010
376.	106321	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	05/10/2010
377.	106364	सुश्री मनीषा अशु. अशोकलाल एसीए	20/12/2010
378.	106377	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	17/02/2011
379.	106457	श्री अशु. अशोकलाल एसीए	24/01/2011
380.	106471	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	11/05/2010
381.	106565	श्रीमती मनीषा अशु. अशोकलाल एसीए	19/04/2010
382.	106623	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	20/08/2010
383.	106719	श्री प्रमोदनाथ अशु. अशोकलाल एसीए	30/08/2010

384	106749	श्री वसिष्ठ जी. हेगड़े एसीए	06/08/2010
385	106764	श्रीमती मीना कटेन शाह एसीए	21/07/2010
386	106764	श्री ववल अन्तसय मट्ट एसीए	31/08/2010
387	106771	श्रीमती वैशाली कुमार एसीए	06/10/2010
388	106772	श्री यजु केरसी कुपर एसीए	06/10/2010
389	106857	श्रीमती रीना एस. चौधरी एसीए	02/02/2011
390	107171	श्रीमती संजया रामकृष्ण शर्मा एसीए	04/09/2010
391	107220	श्री विजित एकनाथ जिंदे एसीए	11/11/2010
392	107314	श्री अन्नास अमीन अमीनपुरीन एसीए	20/07/2010
393	107383	श्री सुनील मोहन सिंह एसीए	16/07/2010
394	107383	श्रीमती गुणदीप कौर बराला एसीए	29/10/2009
395	107399	श्री कुंज विलोचनकुमार शर्मा एसीए	29/06/2010
396	107442	श्री राज कानिवालजी शर्मा एसीए	16/08/2010
397	107687	श्री विजय कल्लिवाल सुनील एसीए	16/04/2010
398	107644	श्री अमित कल्लिवाल शर्मा एसीए	30/11/2010
399	107868	श्रीमती सुमन अरु. मथिया एसीए	27/04/2010
400	107707	श्री नीलम डी. पराशर एसीए	04/08/2010
401	107718	श्री अमरिका प्रशिक्षण सिंह एसीए	28/02/2011
402	107820	श्रीमती अमिता अमिता शर्मा एसीए	17/08/2010
403	107804	श्रीमती साधना अरु. शर्मा एसीए	01/04/2010
404	107912	श्री अमरिका अमिता शर्मा एसीए	06/06/2010
405	107943	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	12/03/2011
406	107948	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	08/12/2010
407	107987	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	13/08/2010
408	108062	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	23/08/2010
409	108061	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	10/12/2010
410	108091	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	26/06/2010
411	108201	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	21/08/2010
412	108280	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	12/11/2010
413	108322	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	24/08/2010
414	108328	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	10/05/2010
415	108332	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	27/07/2010
416	108370	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	06/08/2010
417	108386	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	13/04/2010
418	108389	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	20/04/2010
419	108382	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	20/08/2010
420	108390	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	06/08/2010
421	108391	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	16/08/2010
422	108442	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	17/03/2011
423	108468	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	10/05/2010
424	108277	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	31/08/2010
425	108302	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	21/12/2010
426	108439	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	26/11/2010
427	108454	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	07/04/2010
428	108563	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	16/01/2011
429	108621	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	23/03/2011
430	108777	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	16/12/2010
431	108822	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	07/06/2010
432	110119	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	01/07/2010
433	110148	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	18/11/2010
434	110155	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	06/12/2010
435	110246	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	02/06/2010

436	110322	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	03/12/2010
437	110330	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	04/06/2010
438	110385	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	27/07/2010
439	110518	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	05/01/2011
440	110525	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	19/04/2010
441	110747	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	11/03/2011
442	110818	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	08/08/2010
443	110820	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	21/10/2010
444	110843	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	13/01/2011
445	110910	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	21/05/2010
446	110953	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	05/04/2010
447	111006	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	12/07/2010
448	111017	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	07/07/2010
449	111094	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	14/01/2011
450	111158	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	14/12/2010
451	111242	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	16/12/2010
452	111269	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	12/01/2011
453	111344	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	16/07/2010
454	111395	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	13/07/2010
455	111563	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	04/06/2010
456	111677	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	20/08/2010
457	111688	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	22/06/2010
458	111768	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	01/12/2010
459	111967	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	10/06/2010
460	111989	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	19/10/2010
461	112047	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	21/08/2010
462	112085	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	07/03/2011
463	112121	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	24/08/2010
464	112254	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	29/10/2010
465	112365	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	13/05/2010
466	112448	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	05/10/2010
467	112448	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	22/10/2010
468	112483	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	18/04/2010
469	112541	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	05/06/2010
470	112741	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	13/07/2010
471	112800	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	27/08/2010
472	112811	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	13/04/2010
473	112874	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	19/01/2011
474	112887	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	20/06/2010
475	113034	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	17/09/2010
476	113048	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	08/09/2010
477	113130	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	22/12/2010
478	113163	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	18/01/2011
479	113179	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	24/01/2011
480	113224	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	12/08/2010
481	113274	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	30/09/2010
482	113309	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	08/04/2010
483	113368	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	18/10/2010
484	113406	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	10/08/2010
485	113518	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	15/09/2010
486	113552	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	03/09/2010
487	113682	श्री अमिता अमिता शर्मा एसीए	12/07/2010

488	113691	श्रीमती अल्पना आशिष मोनानी एसीए	19/07/2010
489	113704	श्रीमती प्रीति सी. बोरकर एसीए	10/06/2010
490	113724	श्री नितीन कुमार बापका एसीए	18/11/2010
491	113725	श्री परम एम. कछाविया एसीए	18/04/2010
492	113740	श्री हर्षद एस. खुर्जेकर एसीए	09/04/2010
493	113798	श्री मयमान दास सोमानी एसीए	10/08/2010
494	113821	श्री प्रेशित मोहन गडकरी एसीए	10/06/2010
495	113883	श्री प्रदीप के. जे. प्रसाद सराफ एसीए	11/02/2011
496	113909	श्री अश्विनीदेवकर ए. पी. अय्यर एसीए	19/07/2010
497	114009	श्री कौस्तुभ पी. पुचनिक एसीए	27/10/2010
498	114050	श्री मयला जगद सुमनका सोमिया एसीए	22/09/2010
499	114058	श्री अरविन्द बापुसाहेब काले एसीए	13/08/2010
500	114219	श्री नीलेश अशोक के. कांबली एसीए	28/07/2010
501	114278	श्री अमोल एस. गिलिटकरा एसीए	05/10/2010
502	114285	श्रीमती प्रवीं जेतुल नामजीजी एसीए	10/08/2010
503	114401	श्री अश्विनी पद्मनाभ मर्ढट एसीए	07/02/2011
504	114475	श्री नीलेश बागबंद मोहन एसीए	02/07/2010
505	114505	श्रीमती रश्मि प्रकाश मुन्ना एसीए	23/03/2010
506	114587	श्री ब्रजेशकुमार एस. लाडा एसीए	24/05/2010
507	114631	श्री जैनी जैन कर्नाडिक एसीए	21/07/2010
508	114728	श्री अमृत विजयल कुलकर्णी एसीए	17/06/2010
509	114925	श्री संजय कल्याणराव दीक्षित एसीए	26/04/2010
510	115000	श्रीमती प्रीति मन्नाल सोडर एसीए	13/08/2010
511	115005	श्रीमती प्रवीं समीर कासकर एसीए	14/12/2010
512	115051	श्रीमती पुष्पिका संजीव शेड्टी एसीए	15/10/2010
513	115174	श्री मुत्ताक ए. कागलकरा एसीए	14/07/2010
514	115210	श्री संजय एस. कल्याण संजयी एसीए	03/08/2010
515	115244	श्री मनीष दिनकर जोशी एसीए	14/07/2010
516	115348	श्री संजय हनुमंत मेहता एसीए	24/09/2010
517	115390	श्री दीपक जगदीश राजेश एसीए	24/06/2010
518	116409	श्री संजय हरेश यादव एसीए	29/04/2010
519	116424	श्री संजय कुमार जैन एसीए	27/01/2011
520	116484	श्री कल्याण सुनीलकुमार मुन्ना एसीए	31/05/2010
521	116517	श्रीमती तेजल अमित भादेकर एसीए	11/05/2010
522	116518	श्री संदीप जैन एसीए	01/06/2010
523	116522	श्री अजय योगेश उपाध्याय एसीए	26/05/2010
524	116735	श्री प्रमोद गिरिश हजल एसीए	12/05/2010
525	116811	श्री मनीष लालाल ममताजी एसीए	13/01/2011
526	116811	श्री अमरेश अरविन्द सिद्धार्थ एसीए	23/07/2010
527	116824	श्री अमित जगदीश गाडगे एसीए	20/10/2010
528	116103	श्री संदीप सोखरी एसीए	23/08/2010
529	116170	श्री अश्विन अरविन्द बिजुर एसीए	03/06/2010
530	116261	श्री रमेश सविधानंद शूरक एसीए	28/07/2010
531	116395	श्रीमती धर्मि जीतेशचन्द्र मेहता एसीए	21/05/2010
532	116551	श्री विनय देवरास खडैलवाल एसीए	10/06/2010
533	116556	श्री विनय दिगु जी. काटरे एसीए	17/08/2010
534	116685	श्री विक्रम कुमार जैन एसीए	07/10/2010
535	116690	श्रीमती पापल पलक ठाकर एसीए	28/09/2010
536	116843	श्री प्रतीक कन्हैयालाल बंसल एसीए	31/05/2010
537	116858	श्रीमती लोहल जगदीश बालापुर एसीए	13/04/2010
538	116968	श्रीमती साई सुनील घामनकर एसीए	11/02/2011
539	116984	श्री केतन के. भुवनेश पालन एसीए	05/01/2011

540	117223	श्री आनंद नाचयण दामा एसीए	04/03/2011
541	117265	श्रीमती रेखा लियकत इनामदार एसीए	28/05/2010
542	117284	श्री कोमल परेश सेठ एसीए	08/05/2010
543	117329	श्री संदेश भास्कर शेड्टी एसीए	07/01/2011
544	117399	श्री कुणाल शैलेश साह एसीए	19/11/2010
545	117437	श्री सचिन नंदकिशोर अग्रवाल एसीए	11/01/2011
546	117483	श्री चेतन सीताराम नरसुले एसीए	23/04/2010
547	117520	श्री धनाजी महादेव मोरे एसीए	27/09/2010
548	117532	श्री उत्कर्ष पी. महेश्वरी एसीए	05/08/2010
549	117595	श्री मनीष बगरिया एसीए	07/02/2011
550	117650	श्री राजा जैन एसीए	20/01/2011
551	117668	श्रीमती अमर्षा अग्रवाल एसीए	05/10/2009
552	117673	श्रीमती लक्ष्मीका शर्मा एसीए	21/08/2010
553	117681	श्री अरविन्द शर्मा एसीए	27/08/2010
554	117648	श्री भाविक नरेश सिन्हावा एसीए	11/06/2010
555	117658	श्री संदीप रमेशकांत शेट्टी एसीए	21/08/2010
556	117669	श्री वीरेश महाप्रसाद आश्रम एसीए	11/11/2010
557	118002	श्रीमती रश्मि लक्ष्मण कर्नाल एसीए	21/06/2010
558	118074	श्री अमित कुमार कुलकर्णी एसीए	15/06/2010
559	118150	श्री अमित जी. शरकर एसीए	05/06/2010
560	118167	श्रीमती लोहल नाचयण सारंग एसीए	03/08/2010
561	118233	श्री उमाकान्त जी. कोल्हुर एसीए	20/12/2010
562	118344	श्री संजयकुमार एस. जैन एसीए	30/12/2010
563	118349	श्री गुरुल सातिलाल भाभी एसीए	28/12/2010
564	118371	श्रीमती रेखा एम. मिश्र एसीए	21/05/2010
565	118374	श्री संजीव आर. नायर एसीए	07/08/2010
566	118528	श्री योगेश कस्तिलाल साह एसीए	12/07/2010
567	118539	श्री अजय प्रमोद अग्रवाल एसीए	09/09/2010
568	118574	श्री अक्षय एस. पाठक एसीए	08/06/2010
569	118594	श्री प्रमोद जी. रेलकर एसीए	23/03/2011
570	118606	श्रीमती इमली एस. घाटगे एसीए	29/04/2010
571	118752	श्री चित्तन कुमार ए. भास्कर एसीए	05/05/2010
572	118790	श्री हरी शंकर सोनी एसीए	25/01/2011
573	118795	श्री प्रशांत आर. मेहन एसीए	22/04/2010
574	118808	श्रीमती प्रीति शिवकुमार भादिया एसीए	13/05/2010
575	118999	श्री कौशल अनिल गीता शर्मा एसीए	18/03/2011
576	119018	श्री विनय भांगी एसीए	28/09/2010
577	119113	श्री नीता नाचयण दामा एसीए	17/02/2011
578	119132	श्री वीरेश राजेश ठाकर एसीए	22/11/2010
579	119223	श्री संजय राहु इंगले एसीए	05/01/2011
580	119259	श्रीमती किंजल् नरेश पाठक एसीए	13/04/2010
581	119358	श्री दीपक बाबेल एसीए	25/05/2010
582	119388	श्री प्रमोद जी. जयदेव एसीए	13/06/2010
583	119416	श्रीमती पायल अरुण कानिटकर एसीए	30/07/2010
584	119543	श्री विजय रामप्रकाश दुबे एसीए	10/06/2010
585	119548	श्री प्रतीक आर. दोशी एसीए	04/11/2010
586	119646	श्री शिरोजल जे. ब्रह्मचंद्र एसीए	17/08/2010
587	119711	श्रीमती मोना रमणिकानंद बजनी एसीए	08/04/2010
588	119787	श्रीमती सिन्धिया यशवीर एल परेश एसीए	20/09/2010
589	119851	श्री अमित असोककुमार मिश्रा एसीए	06/07/2010
590	119928	श्री मनीष टी.आर. सुनील कायल एसीए	28/04/2010
591	119951	श्री अमित मृणाल पालन एसीए	05/01/2011



592.	119979	श्री आनंद पी. तोतला एसीए	30/09/2010
593.	120231	श्री यश प्रदीपराज मुथा एसीए	15/04/2010
594.	120346	श्री मुण्ण केवल अरोरा एसीए	29/09/2010
595.	120381	श्री रोहित एफ. सज्जन जैन एसीए	16/06/2010
596.	120391	श्री दिलीप एमएस तोहानी एसीए	16/06/2010
597.	120437	श्री धर्मेन्द्र डी. चौहान एसीए	02/07/2010
598.	120461	श्री चर्चन एन. मुन्हावा एसीए	26/07/2010
599.	120479	श्री कुमाल जे राजा भारिया एसीए	24/06/2010
600.	120506	श्री विमिन बिहारी गोयल एसीए	13/04/2010
601.	120528	श्री अजय प्रकाश कौरिय एसीए	31/01/2011
602.	120605	श्री नील मोहन मेहता एसीए	28/08/2010
603.	120718	श्री सिद्धि विरेश सोलंकर एसीए	21/06/2010
604.	120823	श्रीमती विवेका एन. मेहता एसीए	22/12/2010
605.	121088	श्री आनंद आर. खाटकर एसीए	26/11/2010
606.	121094	श्री बिलाल बालासुब्रमण्यम एसीए	18/06/2010
607.	121181	श्री संजीव मेहरी एसीए	03/06/2010
608.	121182	श्री जयदेव अशोककुमार शर्मा एसीए	27/12/2010
609.	121187	श्री रमेश चंदन कपूरिया एसीए	22/06/2010
610.	121348	श्री अमित कुमार चव्हाण एसीए	12/07/2010
611.	121404	श्री धर्मेन्द्र बाबुरामबाई चवानी एसीए	21/04/2010
612.	121461	श्री हर्ष एच. काका एसीए	13/12/2010
613.	121467	श्री योगेश सुब्रह्मण्य एसीए	01/10/2010
614.	121651	श्रीमती लक्ष्मी नारायण विवेकी एसीए	06/07/2010
615.	121668	श्रीमती सुमि शिवराम चौधरी एसीए	01/04/2010
616.	122008	श्रीमती अश्विनी नरेश्वर शर्मा एसीए	02/06/2010
617.	122051	श्री सुदेश प्रमोद नाईक एसीए	08/06/2010
618.	122061	श्रीमती स्वप्ना विष्णु लता शर्मा एसीए	27/12/2010
619.	122078	श्री अशोक अर्जुन लोखे एसीए	21/06/2010
620.	122183	श्री सविन जीतेन्द्र एम. सिंह एसीए	28/05/2010
621.	122281	श्री जीतेन्द्र विमल चव्हाण एसीए	22/07/2010
622.	122370	श्री रोहित के.डी. बन्धु लक्ष्मी एसीए	24/07/2010
623.	122407	श्री नीलेश प्रमोदबाई ठाकर एसीए	03/12/2010
624.	122445	श्री प्रमोद नरेश बन्नीबाला एसीए	07/06/2010
625.	122526	श्री तेजस अश्विनीबाई शर्मा एसीए	07/07/2010
626.	122594	श्रीमती रमेशकुमार डी. काठ एसीए	27/07/2010
627.	122612	श्री प्रमोद बालिया बिलाला एसीए	30/03/2010
628.	122613	श्री संजीव के. बिलालानी एसीए	30/06/2010
629.	122625	श्रीमती सीमाजी पी.पी. गायकर एसीए	28/06/2010
630.	122690	श्री जय शंकर धनुज एसीए	08/12/2010
631.	123007	श्री प्रमोद प्रमोदबाई शर्मा एसीए	24/05/2010
632.	123345	श्रीमती करिमा बिजय एस. टेकरा एसीए	03/06/2010
633.	123378	श्री संजय लक्ष्मी एसीए	01/02/2011
634.	123387	श्रीमती अनी जतिन्द्र डी. कपानी एसीए	28/06/2010
635.	123389	श्री हितेश चन्द्रकांत भोवरा एसीए	19/11/2010
636.	123381	श्री विनोदबाई आर. पटेल एसीए	13/12/2010
637.	123389	श्री धर्मेन्द्र डी. ठाकरा एसीए	28/12/2010
638.	123500	श्री अश्विनी एम. देशपांडे एसीए	08/04/2010
639.	123555	श्री अश्विनी गुप्ता एसीए	13/04/2010
640.	123638	श्री सुहास रोहित कामत एसीए	02/02/2011
641.	123908	श्री शीतल किशोरबाई नाळिया एसीए	01/06/2010
642.	123935	श्री सुनील रामचंद्रकांत साह एसीए	17/09/2010
643.	123969	श्री संतोष एस. कोपरे एसीए	25/05/2010

644.	124109	श्री मुकेश डी. महंतवार एसीए	30/11/2010
645.	124188	श्री सुधाकर एन. प्रोद्वेटी एसीए	15/10/2010
646.	124207	श्रीमती करिमा पी.एस. सावंत एसीए	24/12/2010
647.	124273	श्रीमती जयमति जे. साहू एसीए	12/01/2011
648.	124276	श्री निखिल अशोक जोशी एसीए	05/04/2010
649.	124321	श्री मुकेश कुमार ताले एसीए	18/11/2010
650.	124499	श्रीमती दीपिका डी.एस. शेट्टी एसीए	11/05/2010
651.	124617	श्री धर्मेन्द्र सुलभा चव्हाण एसीए	04/06/2010
652.	124749	श्रीमती रमेश जे. ममता एसीए	21/02/2011
653.	124781	श्री राजेशकुमार आर. काकरा एसीए	18/01/2011
654.	124824	श्री जयंत प्रमोद शर्मा एसीए	08/05/2010
655.	124842	श्री प्रदीप सुब्रह्मण्य एसीए	04/03/2011
656.	124880	श्री जयंत मोहन चव्हाण एसीए	25/06/2010
657.	124905	श्री मधुसूदन काटकरा एसीए	11/05/2010
658.	124906	श्री नील जयदेव विमल साह एसीए	23/03/2010
659.	124990	श्री प्रमोद एम. रघुनाथ एसीए	08/07/2010
660.	125023	श्री महेन्द्र बी. बिहारी एसीए	26/06/2010
661.	125080	श्री सुनील कुमार एसीए	08/08/2010
662.	125137	श्रीमती अश्विनी श्रीधरकांत शर्मा एसीए	13/04/2010
663.	125278	श्री प्रमोद डी. महेस्वरी एसीए	08/08/2010
664.	125320	श्री अश्विनी शिवल एसीए	28/08/2010
665.	125397	श्री अमित लक्ष्मी एसीए	18/08/2010
666.	125438	श्री प्रदीप विमलका शेट्टी एसीए	11/05/2010
667.	125519	श्रीमती लक्ष्मीका विमल बाबुसाणी एसीए	08/08/2010
668.	125580	श्री गिरि जयल एसीए	13/08/2010
669.	125650	श्री विमलका नाथनकाणी एसीए	18/08/2010
670.	125683	श्रीमती गायत्री बी.एम. ताले एसीए	07/07/2010
671.	125781	श्री सुरेश लक्ष्मण शर्मा एसीए	08/08/2010
672.	125838	श्री प्रदीप डी. गुलाबका एसीए	26/04/2010
673.	125894	श्री लीन अशोक लाला एसीए	22/11/2010
674.	125988	श्रीमती नंदी प्रमोदका शर्मा एसीए	12/07/2010
675.	126007	श्री अश्विनी डी. शिवा विमलका एसीए	03/03/2011
676.	126088	श्री महेन्द्र लक्ष्मण शर्मा एसीए	27/10/2010
677.	126157	श्री गोविंद शिवल अश्विनी एसीए	09/08/2010
678.	126216	श्री विमल डी. काकरा साह एसीए	29/06/2010
679.	126239	श्री अश्विनी लाला एसीए	03/06/2010
680.	126244	श्री विमल लक्ष्मी एसीए	13/10/2010
681.	126363	श्री विमल हरेशबाई अश्विनी एसीए	11/08/2010
682.	126422	श्रीमती प्रमोद सुभाषी एसीए	04/03/2011
683.	126471	श्री सुनील मोहनका एम. काकराबाई एसीए	31/12/2010
684.	126538	श्री मुकेशका जयका गुलाबका एसीए	07/07/2010
685.	126601	श्री विमल नंद एसीए	28/08/2010
686.	126728	श्री अश्विनी लक्ष्मणका गुलाबका एसीए	23/11/2010
687.	126808	श्रीमती लक्ष्मीका एस. जयका अश्विनीका एसीए	29/06/2010
688.	127023	श्री विमल जैन एसीए	18/07/2010
689.	127110	श्री प्रमोद कुमार आर. ओ. चौधरी एसीए	18/08/2010
690.	127115	श्रीमती नंदी एसीका चौधरी एसीए	14/05/2010
691.	127186	श्री नील महेन्द्र लक्ष्मी एसीए	27/10/2010
692.	127214	श्री प्रमोद गुलाबका एसीए	21/06/2010
693.	127242	श्री इमरान अहमद एसीए	11/01/2011
694.	127289	श्रीमती दीपा प्रमोदका एसीए	12/04/2010
695.	127425	श्रीमती अश्विनी सुहासका एसीए	19/06/2010

696	127643	श्री गणेश एटोनिगो अल्मेडा एसीए	16/11/2010
697	127644	श्री अभिलेख गोपाल मित्तल एसीए	05/08/2010
698	127643	श्री पवन चवेल एसीए	07/12/2010
699	127712	श्री अनिलकुमार डी. यादव एसीए	03/09/2010
700	127779	श्री अनुपम श्रीवास्तव एसीए	06/07/2010
701	128089	श्री अमित कुमार शर्मा एसीए	07/06/2010
702	128218	सुश्री अलजा जैकब अल्फोसा एसीए	16/11/2010
703	128223	श्री विवेक झुन्धुतवाला एसीए	24/08/2010
704	128467	श्री अरुण लक्ष्मीनाथय्य व्यास एसीए	11/02/2011
705	128589	सुश्री ऐशाली पी. सायबुखे एसीए	03/08/2010
706	128823	श्री मारुतिनन्दन एच. साहू एसीए	21/07/2010
707	128940	श्री संकुर विमलदास व्यास एसीए	01/10/2010
708	128975	सुश्री रीता सत्यन गोवंश एसीए	28/05/2010
709	128987	श्री दिव्येश के. छत्रा एसीए	27/04/2010
710	128992	श्रीमती अरुनी नीलेश पटेल एसीए	28/10/2010
711	129161	श्री संदीपकुमार एच. शर्मा एसीए	28/05/2010
712	129250	सुश्री दीपिका महेश्वरी एसीए	20/10/2010
713	129278	श्री सुखवीर ओमिन्देव एसीए	29/08/2010
714	129302	श्री गिरिशचंद्र डी. भंडी एसीए	02/07/2010
715	129518	श्री रणवीर एस.बी. सिंह खन्ना एसीए	08/10/2010
716	129542	श्री अपूर्व दीपक चौधरी एसीए	26/06/2010
717	129685	श्री संतोष कुमार पोंडेय एसीए	01/08/2010
718	129753	श्री श्रीराम बल्लभ शर्मा एसीए	13/04/2010
719	129809	श्री राजेश भीमराव खंडेकर एसीए	00/06/2010
720	130260	श्री तरुण कुमार जैन एसीए	20/09/2010
721	130407	श्री रोल सिंह लीलेकी एसीए	21/08/2010
722	130453	सुश्री गुण आर. फडके एसीए	24/12/2010
723	130686	श्री हेमराज एस. जोशी एसीए	28/04/2010
724	130702	श्री बालाकृष्णन सी.एच. एसीए	20/09/2010
725	130820	सुश्री वैदेही श्रीनिवास कुलकर्णी एसीए	04/03/2011
726	130955	श्री आनंद मुकुंद जोशी एसीए	10/08/2010
727	130999	श्री गिरिश गणेश चौधरी एसीए	15/11/2010
728	131006	श्री आशिष विविन त्रिवेदी एसीए	21/09/2010
729	131186	श्री कुशल सी.एच. छत्राया एसीए	16/04/2010
730	131241	सुश्री मेघिली अनिल आर. जोके एसीए	04/03/2011
731	131431	श्री श्रीकांत पी. अग्रवाल एसीए	20/04/2010
732	131449	श्री तेजस कुमार जैन एसीए	01/06/2010
733	200036	श्री जी. सुधीर कुमार एसीए	08/04/2010
734	200880	श्री सुन्दर एन एसीए	20/01/2011
735	200882	श्री डॉ. सुभाषनिवास एफसीए	23/08/2010
736	201624	श्री लक्ष्मी नरसिम्हा शर्मा पी. एफसीए	27/07/2010
737	203257	श्री गणेश आर एफसीए	31/12/2010
738	203734	श्री अजयराजराज एन पी एसीए	29/04/2010
739	203876	श्री जी चन्द्रगोहन एसीए	09/09/2010
740	204859	श्री बाबुवर्दी नारायण राव एसीए	07/05/2010

741	205877	सुश्री मनीषा गुप्ता एसीए	07/07/2010
742	206135	श्री मधुसूदन शर्मा एस एसीए	27/01/2011
743	206136	श्री श्याम सुंदर जी एसीए	5/08/2010
744	206432	श्री अतुल जोशी एसीए	03/08/2010
745	206791	श्री पीतकर श्री वैकटारामन एसीए	06/06/2010
746	206987	सुश्री अग्रवाल पी.यू. चन्दा एसीए	10/12/2010
747	208115	श्रीमती जागृति शाम होलकर एसीए	14/04/2010
748	208345	श्री विजय जी एसीए	30/08/2010
749	208491	श्री उपाध्ये महावीर प्रकाश एसीए	03/08/2010
750	209046	श्री कृष्णा प्रसाद सी आर एसीए	17/08/2010
751	209769	श्री प्रेमचंद श्री एस एसीए	06/04/2010
752	210031	श्री ध्यागसाजन आर एसीए	15/04/2010
753	210236	श्री हरीशचन्द्र आर एफसीए	06/08/2010
754	210393	श्री विशाल शर्मा एसीए	04/08/2010
755	211472	श्री जहांगीर हुसैन ए एसीए	08/07/2010
756	212603	श्री कुशाल आर एस एसीए	21/06/2010
757	214504	श्री कार्तिक एस एसीए	27/08/2010
758	215346	श्री नीलेश कुमार गंगार एसीए	01/12/2010
759	400187	श्री दीपक गुप्ता एसीए	28/08/2010
760	400334	श्री सिकंदर एवम कुमार एसीए	28/06/2010
761	400471	श्री तियाजी बालिक एसीए	04/11/2010
762	400579	श्रीमती लक्ष्मी प्रमोद देवकीनिया एसीए	23/08/2010
763	400742	श्री शर्मा निरंज एसीए	16/04/2010
764	401025	श्रीमती अरुणी अश्वयुक्त एसीए	10/08/2010
765	401281	सुश्री ज्योति विमलेश एसीए	31/07/2010
766	402424	श्री जयल अमरेश सिंह एसीए	10/01/2011
767	402433	सुश्री निखिल विमलेश एसीए	31/08/2010
768	402584	श्री मेघनाथ बन्धु एसीए	18/11/2010
769	402939	श्रीमती लताप्रिय मलिक एसीए	18/08/2011
770	403006	श्री पानी बाला भुजंगा एसीए	18/04/2010
771	403026	श्री जय मनीष कुमार एसीए	30/11/2010
772	404209	श्री महेश कुमार एसीए	18/07/2010
773	406003	श्री प्रवीण रामचन्द्र एसीए	12/05/2010
774	406065	श्री प्र. सानू प्रकाश फडके एसीए	22/11/2010
775	407042	सुश्री आशा सुखरा एसीए	02/12/2010
776	408588	श्री प्र. लक्ष्मी फडके एसीए	28/08/2010
777	409931	श्री प्र. प्र. कुमार सिंगल एसीए	18/11/2010
778	501305	श्री प्रकाश एसीए	03/08/2010
779	504824	श्री गौरी अनिल एसीए	27/08/2010
780	505388	श्री निखा अमरेश एसीए	31/08/2010
781	508466	श्री रमेश श्रीराम एसीए	08/08/2010
782	511981	श्री सुप्रकाश सुप्रकाश शर्मा एसीए	08/08/2010

टी. कार्तिकेयन  
सचिव

## कर्मचारी राज्य बीमा निगम

बैंगलूर-560023, दिनांक 4 अप्रैल 2012

फाईल सं.-उ.चि.आ./द.म./ए./19/11/2006-कर्ना.-क.रा.बी. निगम द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसरण में दिनांक 25.04.1951 को इसकी सभा में निगम महानिदेशक के अधिकार पर विचार विमर्श करते हुए क.रा.बी. (सामान्य) अधिनियम 1950 के अधिनियम 105 के अधीन किया गया और यह अधिकार चिकित्सा आयुक्त, क.रा.बी. निगम, मुख्यालय नई दिल्ली को संम संख्यक द्वारा फाइल सं. पी.टी. फाईल यू-13/12/13/2005-पी.टी. एम.आर. (चिकि-1) दिनांक 04.08.2008 के तहत सौंप दी गई तथा सम संख्यक मुख्यालय, क.रा.बी. निगम, नई दिल्ली आदेश प्राप्ति सं. यू-13/12/13/2005-चिकि-1/पी.टी.एम.आर. दिनांक 09.09.2008 के तहत मुझे सौंप दी गई मैं एतद्वारा निम्नलिखित डॉक्टर (डॉक्टरों) को चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में निम्नलिखित श्रेणी के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं जोकि निम्नलिखित दिनांक से लागू होते हुए एक वर्ष के लिए अथवा 65 वर्ष की आयु होने तक अथवा पूर्णकालिक समय तक चिकित्सा निर्देशी के रूप में कार्यभार ग्रहण करने तक जो भी पहले हो, अधोहस्ताक्षरित द्वारा नियत निम्नलिखित केन्द्रों व क्षेत्रों के लिए, बीमाकृत व्यक्तियों की चिकित्सा परीक्षा व आगे चलकर उन्हें प्रमाण पत्र पारित करने के उद्देश्य से कार्य करेंगे जब मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदेह जनक हो।

नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. के. आर. रामचन्द्र	3.3.2012 से 2.3.2013	मल्लेश्वरम

बी. आर. कविशेट्टी  
राज्य चिकित्सा आयुक्त (कर्ना.)

अहमदाबाद-380014, दिनांक 23 अप्रैल 2012

सं. U-16/53/2003/Med.II/Guj—कर्मचारी राज्य बीमा निगम (साधारण) विनियम 1950 के विनियम 105 के अधीन निगम की शक्तियां महानिदेशक को प्रदान करने के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पारित किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या पीटी-फाईल-यू-13/12/13/2005-पीटीएमआर (मैडी-1) दिनांक 04.08.2008 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा निम्नलिखित डॉक्टर(रों) को मानकों के अनुसार देय पारिश्रमिक पर निम्नलिखित तिथि तक एक वर्ष के लिए या पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यग्रहण करने तक, जो भी पूर्व हो, को राज्य चिकित्सा आयुक्त, (गुजरात) द्वारा निर्धारित क्षेत्र के लिए बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षण करने तथा मूल प्रमाणपत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर उन्हें आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए चिकित्सा अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

नाम	अवधि	केन्द्र का नाम
डॉ. एम. खालसा पी. टी. एम. आर.	03.05.2012 से 02.05.2013	वडोदरा/गुजरात

एच. पी. सिंह  
राज्य चिकित्सा आयुक्त

## कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

बैंगलूर-560025, दिनांक 19 अप्रैल 2012

सं. कभनिस/अकेआ ( क एवं गो)/नो.1(6-83)/83/2012-13--चूँकि केन्द्रीय भविष्यनिधि आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि निम्न स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता एवं अधिकतम कर्मचारियों ने कर्मचारी भविष्यनिधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 (1952 का 19) के उपबंधों को उनके विभिन्न स्थापनाओं को विशेषतः नाम से लागू किए जाने हेतु सहमत हुए हैं।

क्रम सं.	कोड नं.	स्थापना का नाम	व्याप्ति एवं सहमति की तिथि
१	कर्नाटक/पीण्या/३१८५५	मेसर्स.डेविड ब्रौन हैड्रालिक्स इंडिया प्र.लि	०२-०५-२०११
२	कर्नाटक/पीण्या/३१३९०	मेसर्स.वि.कोस्ट इंडिया	०१-०३-२०१०
३	कर्नाटक/पीण्या/३०४९२	मेसर्स.गोलोक सेवा ट्रस्ट (रि)	०१-०६-२००७
४	कर्नाटक/पीण्या/३०७७९	मेसर्स.फ़सिल टेक्नालाजिस इंडिया प्र.लि	०१-०९-२००८
५	कर्नाटक/पीण्या/३१६४२	मेसर्स.मास्टर डी.टी.एच. इक्विपमेंट्स इंक	०१-११-२०१०
६	कर्नाटक/पीण्या/३१९६२	मेसर्स.दिरक इंडिय पानेल फ़िटिंग्स प्र. लि	०१-०८-२०११
७	कर्नाटक/पीण्या/३१३००	मेसर्स.फ़िक्सोटेक इंजिनियरिंग सिस्टेम्स प्र. लि	०१-११-२००९
८	कर्नाटक/पीण्या/३१२४८	मेसर्स.फ़्राग्रन्स इंडिया पेफ़ुम्स प्र.लि	०१-११-२००९
९	कर्नाटक/पीण्या/३१९८१	मेसर्स.जि.ई. त्रीवेनी लि	०१-०८-२०११

१०	कर्नाटक/पीण्या/३१४९७	मेसर्स.एन.वाक एनविरानमेंटल टेक्नालाजि प्र.लि	०१-०७-२०१०
११	कर्नाटक/पीण्या/३१६५५	मेसर्स.कमला एंटरप्राइस	०१-१२-२०१०
१२	कर्नाटक/पीण्या/३१७३३	मेसर्स.युनिटेक सिस्टेम	०१-०१-२०११
१३	कर्नाटक/पीण्या/३१७९५	मेसर्स.ऐयर फ़ोर्स टेक्निकल कालेज कांटीन	०१-०२-२०११
१४	कर्नाटक/पीण्या/३०७१८	मेसर्स.असोसियेटेड इंजिनियरिंग एंटरप्राइस	०१-०६-२००८
१५	कर्नाटक/पीण्या/३०८१८	मेसर्स.इनबियोप्रो सोलुषन्स प्र लि	०१-१०-२००८
१६	कर्नाटक/पीण्या/३०८२८	मेसर्स.यु.एफ़.टी. बीकान इंजिनियरिंग सर्विस प्र.लि	०१-१०-२००८
१७	कर्नाटक/पीण्या/३०९५४	मेसर्स.टोकाइ रिका मिंडा इंडिया प्र.लि	०१-०४-२००९
१८	कर्नाटक/पीण्या/३१८०७	मेसर्स.नुवो फ़ाओस इंटरनेशनल मानुफ़क्चरिंग कं. प्र.लि	०१-०३-२०११
१९	कर्नाटक/मंगलूरु/३८८८३	मेसर्स.टुअर अरेबिया	०१-०८-२००९
२०	कर्नाटक/मंगलूरु/३८८४२	मेसर्स.कु लुर सर्विस स्टेशन, कुलुर	०१-०८-२००९
२१	कर्नाटक/मंगलूरु/३८८६०	मेसर्स.एम.टि.एडुकेर चारिटेबल ट्रस्ट, कुद्रोलि	०१-०८-२००९
२२	कर्नाटक/मंगलूरु/५८१०३	मेसर्स.विट्टल फ़िर्का महिला विविद्देश को-आप. सोसैटि लि., बंदवाल	०१-०३-२०११
२३	कर्नाटक/मंगलूरु/३८९४३	मेसर्स.दि प्रोटेस्टेंट क्रिस्टियन को-आप. सोसैटि लि.	०१-०३-२०१०
२४	कर्नाटक/मंगलूरु/५८१५१	मेसर्स.श्री दामोदर के, कांट्रक्टर, बाबुगुड्ड, अट्टावर	०१-०७-२०११
२५	कर्नाटक/मंगलूरु/३८७९२	मेसर्स.आई.पाईट कन्सल्टिंग सर्विस प्र लि, मंगलूरु	०१-०३-२००९
२६	कर्नाटक/मंगलूरु/५८०५५	मेसर्स.महलिंगेश्वर टैपल, पुन्नूरु	०१-१०-२०१०
२७	कर्नाटक/मंगलूरु/५८०८६	मेसर्स.युनिटेड ट्रेडिंग ५ कांट्रक्टिंग, एम.जि. रोड., मंगलूरु	०१-०१-२०११
२८	कर्नाटक/मंगलूरु/५८१२७	मेसर्स.स्टुडियो फ़्रिज, मंगलूरु	०१-०४-२०११
२९	कर्नाटक/मंगलूरु/५८१३१	मेसर्स.फ़्रिगे येतनिक, मंगलूरु	०१-०४-२०११
३०	कर्नाटक/मंगलूरु/३८५८१	मेसर्स.विद्या ज्योति प्रमरि स्कूल, वामंजूरु	०१-०६-२००८
३१	कर्नाटक/मंगलूरु/३८८६७	मेसर्स.अलंकरु मिल्क प्रोडुसर्स को-आप. सोसैटि (रि) पुन्नूरु	०१-०९-२००९
३२	कर्नाटक/मंगलूरु/३८९४९	मेसर्स.सुधिर ट्रवेल्स, कुलै	०१-०३-२०१०
३३	कर्नाटक/मंगलूरु/३८९८८	मेसर्स.समनवय विविद्देश को-आप. सोसैटि लि., बेलतंगडि	०१-०६-२०१०
३४	कर्नाटक/मंगलूरु/५८००६	मेसर्स.शायाम एंटरप्राइस, रयकट्टे, कुलूरु	०१-०८-२०१०
३५	कर्नाटक/मंगलूरु/५८०१८	मेसर्स.के.वि.जी. विविद्देश सौहार्द सहकारि लि, कुरुंजिबाग	०१-०८-२०१०
३६	कर्नाटक/मंगलूरु/५८०३१	मेसर्स.जयबिका चिट फ़ंड्स, कोडियालबेल	०१-०९-२०१०
३७	कर्नाटक/मंगलूरु/५८०५०	मेसर्स.डेवेलपमेंट एडुकेशन सर्विस, कदरि	०१-१०-२०१०
३८	कर्नाटक/मंगलूरु/५८०८४	मेसर्स.स्टीवान ब्रदर्स, बोलूरु	०१-०१-२०११
३९	कर्नाटक/मंगलूरु/३८१४०	मेसर्स.सतिश कुमार,कांट्रक्टर, अनुग्रह निवस, हलेयअंगडि	०१-०८-२००४
४०	कर्नाटक/मंगलूरु/३८३९०	मेसर्स.संतति सेंटर फ़ार रिप्रोडक्टिव मेडिसिन्स, मंगलूरु	०१-०५-२००६
४१	कर्नाटक/मंगलूरु/३८४७६	मेसर्स.सन मार्केटिंग, अलके, मंगलूरु	०१-०४-२००७
४२	कर्नाटक/मंगलूरु/३८५०६	मेसर्स.ग्लो टच टेक्नालाजिस, एम.जी.रोड, मंगलूरु	०१-०६-२००७
४३	कर्नाटक/मंगलूरु/३८७५५	मेसर्स.अपेक्स इंजिनियर्स, बायकंपडि, मंगलूरु	०१-१०-२००८
४४	कर्नाटक/मंगलूरु/३८८४४	मेसर्स.श्री रामा विद्या केन्द्र ट्रस्ट (रि), कल्लड्डा, बंदवाल	०१-०८-२००९
४५	कर्नाटक/मंगलूरु/३८८९९	मेसर्स.मार्कजुल हूडा वोमेन्स पि.यु. कालेज, पुन्नूरु	०१-१०-२००९
४६	कर्नाटक/चिक्कमंगलूरु/३७४२१	मेसर्स.एम.पि.सि.एस. करिगोडनहल्लि, आलुरु तालुकु	०१-०९-२०१०
४७	कर्नाटक/चिक्कमंगलूरु/३७४२२	मेसर्स.एम.पि.सि.एस. कोट्टिगानहल्लि, आलुरु तालुकु	०१-०९-२०१०
४८	कर्नाटक/चिक्कमंगलूरु/३७४३४	मेसर्स.एम.पि.सि.एस. सिंगोडनहल्लि, पाल्य होबलि	०१-१२-२०१०
४९	कर्नाटक/चिक्कमंगलूरु/३७४२५	मेसर्स.पि.ए.सि.सि बैंक, सालागमे	०१-०९-२०१०
५०	कर्नाटक/चिक्कमंगलूरु/३७४४१	मेसर्स.जनकलयाण रिसर्च एंड चारिटेबल ट्रस्ट, हासन	०१-०३-२०११
५१	कर्नाटक/हुबलि/१७९७७	मेसर्स.भावसार क्षत्रीय को-आप. सोसैटि लि, हुबलि	०१-१०-२०००
५२	कर्नाटक/हुबलि/२७११२	मेसर्स.संगल प्रातिमिक क्रिषि पट्टिन सहकारि बैंक नियमित, संगाल	०१-१०-२००१

५३	कर्नाटक/हुबलि/२७३९७	मेसर्स.जायुति अर्बन को-आप. क्रेडिट सोसैटि लि	०१-०८-२००३
५४	कर्नाटक/हुबलि/२७३९८	मेसर्स.प्रातिमिक क्रिषि पट्टिन सहकारि बैंक नियमित, मुर्गोड, बेलगावी	०१-११-२००३
५५	कर्नाटक/हुबलि/२७३९९	मेसर्स.जीजामाता महिला सहकारि बैंक लि.	०१-११-२००३
५६	कर्नाटक/हुबलि/२७४२१	मेसर्स.दि हरुगेरि अर्बन को-आप. क्रेडिट बैंक लि	०१-११-२००३
५७	कर्नाटक/हुबलि/२७४२४	मेसर्स.जे.एम.पटेल एवं सन्स	०१-११-२००३
५८	कर्नाटक/हुबलि/२७४७५	मेसर्स.जय भारत को-आप. क्रेडिट सोसैटि लि, बेलगावी	०३-०२-२००४
५९	कर्नाटक/हुबलि/२७५६९	मेसर्स.प्रातिमिक क्रिषि पट्टिन सहकारि बैंक नियमित, रायबाग, बेलगावी	०१-०५-२००४
६०	कर्नाटक/हुबलि/२७६०५	मेसर्स.हर्षा येलेक्ट्रिकल्स	०१-०६-२००४
६१	कर्नाटक/हुबलि/२७६८६	मेसर्स.एस.पि.एम.कंट्रोल्स	२१-१०-२००४
६२	कर्नाटक/हुबलि/२७६८९	मेसर्स.नुतन महिला अर्बन को-अप. क्रेडिट सोसैटि लि	०१-०८-२००४
६३	कर्नाटक/हुबलि/२७७१०	मेसर्स.कैलासतेज इंजिनियर्स	३१-१०-२००४
६४	कर्नाटक/हुबलि/२७७१६	मेसर्स.द्यान प्रबोदन मंदिर, बेलगावी	०१-१०-२००४
६५	कर्नाटक/हुबलि/२७८५५	मेसर्स.सेलेब्रेट रेस्ट ओ बार	२८-०२-२००५
६६	कर्नाटक/हुबलि/४००१४	मेसर्स.स्मार्त अर्बन को-आप. क्रेडिट सोसैटि लि	०१-०९-२००५
६७	कर्नाटक/हुबलि/४००५४	मेसर्स.श्री महालक्ष्मि अर्बन को-आप. क्रेडिट सोसैटि लि,	०१-०९-२००५
६८	कर्नाटक/हुबलि/४००९७	मेसर्स.बसवेश्वर अर्बन को-आप. क्रेडिट सोसैटि लि, मुनवल्लि	०१-१२-२००५
६९	कर्नाटक/हुबलि/४०७१२	मेसर्स.रोहित रेडियोग्राफि सर्विसस, बेलगावी	०१-०१-२००८
७०	कर्नाटक/मैसूरु/४९३४६	मेसर्स.जि.वि.गौडा मेमोरियल विद्यार्ति निलय, वोक्कलिगर संघ (डि.ऐ.ड) कालेज, कोल्लेगाल	०१-१२-२०१०
७१	कर्नाटक/मैसूरु/४९२७२	मेसर्स.बोम्मनहल्लि एम.पि.सि.एस. लि, दुड्डु होबलि, मंडिया	०१-०७-२०१०
७२	कर्नाटक/मैसूरु/४९२६६	मेसर्स.एम.पि.डब्ल्यु.सि.एस.लि, सौदेनहल्लि, मंडिया	०१-०७-२०१०
७३	कर्नाटक/मैसूरु/४९२६७	मेसर्स.एम.पि.डब्ल्यु.सि.एस.लि, बिल्लेनहल्लि, मंडिया	०१-०७-२०१०
७४	कर्नाटक/मैसूरु/४९२३९	मेसर्स.एम.पि.सि.एस.लि, तिरुगनहल्लि, नागमंगल, मंडिया	०१-०५-२०१०
७५	कर्नाटक/मैसूरु/४९२४०	मेसर्स.एम.पि.डब्ल्यु.सि.एस.लि, मारुतिपुर, नागमंगल, मंडिया	०१-०५-२०१०
७६	कर्नाटक/मैसूरु/४९२२५	मेसर्स.नलकुंडि एम.पि.सि.एस. लि, नागमंगल, मंडिया	०१-०४-२०१०
७७	कर्नाटक/मैसूरु/४९२३७	मेसर्स.एम.पि.डब्ल्यु.सि.एस.लि, मरनायकनहल्लि, मंडिया	०१-०५-२०१०
७८	कर्नाटक/मैसूरु/४९२६३	मेसर्स.एम.पि.डब्ल्यु.सि.एस.लि, होबलेगौडनदोड्डु, महुर्	०१-०७-२०१०
७९	कर्नाटक/मैसूरु/४९२६४	मेसर्स.एम.पि.डब्ल्यु.सि.एस.लि, बी.हुल्लुकेरे, मंडिया	०१-०७-२०१०
८०	कर्नाटक/मैसूरु/४९२६५	मेसर्स.एम.पि.डब्ल्यु.सि.एस.लि, गुडिदोड्डु, महुर्	०१-०७-२०१०
८१	गोवा/१२२९०	मेसर्स.केबल पाईट इंडिया	०१-०३-२००८
८२	गोवा/१२५१४	मेसर्स.ए.आर.जेड ट्रस्ट	०१-०५-२००९
८३	गोवा/१२५८६	मेसर्स.संकल्प नर्सिंग होम	०१-०८-२००९

अतः अब उक्त अधिनियम की धार १ की उपधारा (४) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भविष्यनिधि आयुक्त एतद्वारा एत अधिनियम के प्रावधानों को उक्त उल्लिखित स्थापनाओं को प्रत्येक स्थापना के सामने दर्शाए तिथि से लागू करते हैं।

[ श्री.सुधाकर बाबु ]

अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय(कर्नाटका एवं गोवा)

अहमदाबाद-380014, दिनांक 4 अप्रैल 2012

सा. का. संदर्भ सं.अ.के.आ./गुज. एवं म.प्र./4/36/बी-3/14-- जहां अनुसूची-1 में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (इसमें इसके पश्चात उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम-1952, (1952 का 19) की धारा-17 की उपधारा(2क) के अंतर्गत छूट के विस्तार के लिए आवेदन किया है। जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है।

चूंकि केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट है कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं जो कि ऐसे कर्मचारी के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना-1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-(2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त की अधिसूचना सं. तथा जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी हैं, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची-II की निर्धारित शर्तों के रहते हुए केन्द्रीय भविष्य निधि ने उक्त स्कीम के सभी उपबंधों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को आगे 3 वर्षों की अवधि के लिए छूट प्रदान कर दी हैं। जैसा कि संलग्न अनुसूची-1 में उनके नाम के सामने दर्शाया है।

अनुसूची - 1

## (1) गुजरात - बड़ौदा क्षेत्र

क्रम सं.	पूर्व अधिसूचना सं. एवं दिनांक	कोड संख्या के साथ स्थापना का नाम	छूट प्राप्ति की अवधि	बीमा एजेन्सी
1	---	मेसर्स नाइट्रो एरोमेटिक्स लि. ( ए डिवीजन ओफ नाइट्राईट लि.) गुज/बड़ौदा/5278-A	01.04.05 से 31.03.08 01.04.08 से 31.03.11 01.04.11 से 31.03.14	भारतीय जीवन बीमा निगम
2	No.2/1959/DLI/EXEMP/89/P-I/5439 dated 26.02.01	मेसर्स दीपक नाइट्राईट लि. गुज/बड़ौदा/5278	24.06.00 से 23.06.03 24.06.03 से 23.06.06 24.06.06 से 23.6.09 24.06.09 से 23.6.12	भारतीय जीवन बीमा निगम
3	---	मेसर्स वोल्टेम्प्ट ट्रान्सफॉर्मर्स लि. गुज/बड़ौदा/4445	1.03.03 से 28.02.06 1.03.06 से 28.02.09 1.03.09 से 29.02.12	भारतीय जीवन बीमा निगम
4	The Gazette of India, 19.12.2009 AGRAHAYANA 28,1931	मेसर्स निरमा लि. गुज/बड़ौदा/26092	01.08.11 से 31.07.14	भारतीय जीवन बीमा निगम
5	No.2/1959/DLI/EXEMP/ 89/Pt-I/433 dated 17.01.94	मेसर्स पौशाक लि. गुज/बड़ौदा/6851	01.11.95 से 31.10.98 01.11.98 से 31.10.01 01.11.01 से 31.10.04 01.11.04 से 31.10.07 01.11.07 से 31.10.10 01.11.10 से 31.10.13	भारतीय जीवन बीमा निगम
6	Fresh	मेसर्स युनिमेड टेक्नोलोजी लि. गुज/बड़ौदा/20328	01.04.92 से 31.03.95 01.04.95 से 31.03.98 01.04.98 से 31.03.01 01.04.01 से 31.03.04 01.04.04 से 31.03.07 01.04.07 से 31.03.10 01.04.10 से 31.03.13	भारतीय जीवन बीमा निगम
7	No.2/1959/DLI/EXEMP/89/Pt-I/1732 dated 12.05.92	मेसर्स एलेम्बीक लि. गुज/बड़ौदा/1053	01.01.93 से 31.12.95 01.01.96 से 31.12.98 01.01.99 से 31.12.01 01.01.02 से 31.12.04 01.01.05 से 31.12.07 01.01.08 से 31.12.10 01.01.11 से 31.12.13	भारतीय जीवन बीमा निगम

8	No.2/1959/DLI/EX EMP/89/Pt-I/1002 dated 28.05.02 Earlier proposal for 01/01/04 to 31/12/06 was sent to HO but notification does not appear to have issued.	मेसर्स सुलेमानी को.ओ. बैंक लि. गुज/बड़ौदा/11952	01.01.04 से 31.12.06 01.01.07 से 31.12.09 01.01.10 से 31.12.12	भारतीय जीवन बीमा निगम
9	No.2/1959/DLI/EX EMP/89/Pt-I/83 dated 14.01.92 Earlier proposal for 01.12.92 to 30.11.07 was sent to HO but notification does not appear to have issued.	मेसर्स पटवा एन्ड सन्स गुज/बड़ौदा/951-A	01.12.92 से 31.11.95 01.12.95 से 30.11.98 01.12.98 से 30.11.01 01.12.01 से 30.11.04 01.12.04 से 30.11.07 01.12.07 से 30.11.10 01.12.10 से 30.11.13	भारतीय जीवन बीमा निगम
10	Nil	मेसर्स बोक इन्डिया प्रा. लि. गुज/बड़ौदा/22223	01.09.09 से 31.08.12	भारतीय जीवन बीमा निगम
11	No.2/1959/DLI/EX EMP/89/Pt-I/2744 dated 17.11.2000	मेसर्स रॉयल नीटींग प्रा. लि. गुज/बड़ौदा/16388-B	24.06.00 से 23.06.03 24.06.03 से 23.06.06 24.06.06 से 23.6.09 24.06.09 से 23.6.12	भारतीय जीवन बीमा निगम
12	No.2/1959/DLI/EX EMP/89/Pt-I/815 dated 02.02.94 Earlier proposal for 01/03/96 to 29/02/08 was sent to HO but notification does not appear to have issued	मेसर्स स्पेशल इन्जीनियरींग (हालोल) प्रा. लि. गुज/बड़ौदा/14687	01.03.96 से 28.02.99 01.03.99 से 28.02.02 01.03.02 से 28.02.05 01.03.05 से 29.02.08 01.03.08 से 28.02.11 01.03.11 से 28.02.14	भारतीय जीवन बीमा निगम
13	No.2/1959/DLI/EX EMP/89/Pt-I/222 dated 10.01.94 Earlier proposal for 01/03/96 to 29/02/08 was sent to HO but notification does not appear to have issued	मेसर्स श्रेणो लि. गुज/बड़ौदा/4382	01.11.92 से 31.10.95 01.11.95 से 31.10.98 01.11.98 से 31.10.01 01.11.01 से 31.10.04 01.11.04 से 31.10.07 01.11.07 से 31.10.10 01.11.10 से 31.10.13	भारतीय जीवन बीमा निगम



## (2) गुजरात - अहमदाबाद क्षेत्र

क्रम सं.	पूर्व अधिसूचना सं. एवं दिनांक	कोड संख्या के साथ स्थापना का नाम	छूट प्राप्ति की अवधि	बीमा एजेंसी
1	---	मेसर्स साबरमती आश्रम गौशाला, वाडज (गुज/6775-बी)	01.05.96 to 30.04.99 01.05.99 to 30.04.02 01.05.02 to 30.04.05 01.05.05 to 30.04.08 01.05.08 to 30.04.11 01.05.11 to 30.04.14	भारतीय जीवन बीमा निगम
2	-----	मेसर्स कामा मोटर्स प्रा. लि. (गुज/1134)	01.01.95 to 31.12.97 01.01.98 to 31.12.00 01.01.01 to 31.12.03 01.01.04 to 31.12.06 01.01.07 to 31.12.09 01.01.10 to 31.12.12	भारतीय जीवन बीमा निगम
3	---	मेसर्स मदर डेरी फूड्स प्रोसेसिंग लि. (गुज/50013)	01.03.04 to 28.02.07 01.03.07 to 28.02.10 01.03.10 to 28.02.13	भारतीय जीवन बीमा निगम
4	-----	मेसर्स ममता ब्रम्पटोन इन्जीनीयरींग प्रा. लि. (गुज/अहम/26717)	01.06.04 to 31.05.07 01.06.07 to 31.05.10 01.06.10 to 31.05.13	भारतीय जीवन बीमा निगम
5	No.2/1959/DLI/EX EMP/89/Pt-I/1681 dated 06.04.93	मेसर्स विजय नगर प्राथमिक शाला (गुज/13663)	01.03.92 to 28.02.95 01.03.95 to 29.02.98 01.03.98 to 28.02.01 01.03.01 to 29.02.04 01.03.04 to 28.02.07 01.03.07 to 28.02.10 01.03.10 to 28.02.13	भारतीय जीवन बीमा निगम
6	-----	मेसर्स सी. सोमाभाई एन्ड कम्पनी (गुज/अहम/4826)	01.09.06 to 31.08.09 01.09.09 to 31.08.12	भारतीय जीवन बीमा निगम
7	2/4789/92	मेसर्स टोरेन्ट केबल लि. (गुज/अहम/4367)	01.02.01 to 31.01.04 01.02.04 to 31.01.07 01.02.07 to 31.01.10 01.02.10 to 31.01.13	भारतीय जीवन बीमा निगम

### अनुसूची - II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोक्ता (जिसे इसके पश्चात् नियोक्ता कहा गया है)। संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियाँ भेजेगा और लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त समय समय पर निर्दिष्ट करेंगे।
2. नियोक्ता ऐसे निरीक्षण प्रभारी का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संद्राय करेगा जो केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-2(क) के खण्ड के अधीन समय समय पर निर्देश करेंगे।
3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में जिसके अंतर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों को प्रस्तुत किया जाना, बीमा, प्रीमियम का भुगतान, लेखाओं का अन्तरण, निरीक्षण प्रभारी का भुगतान आदि भी है, के होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोक्ता द्वारा किया जाएगा।
4. नियोक्ता केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उसमें संशोधन किया जाएगा तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहु संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।
5. यदि कोई कर्मचारी जो भविष्य निधि या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले ही सदस्य है, स्थापना में नियोजित किया जाता है, तो नियोक्ता सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान करेगा।
6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोक्ता सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन लाभ उपबंध लाभों से अधिक अनुकूल हों, जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।
7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस योजना के अंतर्गत देय धनराशि सदस्य के सामूहिक बीमा योजना का सदस्य होने पर देय राशि से कम है तो नियोक्ता नामिति/विधिक वारिसों को मुआवजे के रूप में उस नुकसान की भरपाई करेगा।
8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबंधों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहाँ किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो वहाँ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने के पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।
9. स्थापना द्वारा पहले ही अपनाई गई भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत प्रदत्त लाभों में किसी भी कारण से किसी प्रकार की कमी किए जाने पर अगर कर्मचारी व्याप्त नहीं रहते हैं तो स्थापना को प्रदत्त छूट रद्द की जा सकती है।
10. यदि किसी कारणवश नियोक्ता नियत तारीख के भीतर बीमा निगम को प्रीमियम का भुगतान करने में असफल रह जाता है और पॉलिसी व्यपगत होती है तो छूट रद्द की जा सकती है।
11. प्रीमियम के भुगतान में किसी भी प्रकार की चूक छूट प्राप्त नियोक्ता द्वारा की जाती है तो मृत सदस्य के नामिति/नामितों/विधिक वारिशों को, जो कि अन्यथा उक्त योजना के अंतर्गत व्याप्त होते बीमा लाभ की भुगतान की जिम्मेदारी नियोक्ता की होगी।
12. सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत व्याप्त किसी सदस्य की मृत्यु होने पर जीवन बीमा निगम मृतक सदस्य के नामिति/नामितों/विधिक वारिशों को बीमाकृत राशि के त्वरित भुगतान को सुनिश्चित करेगा और हर हाल में सही ढंग से भरे हुए प्राप्त दावे का निपटान दावे प्राप्ति के एक महिने के भीतर करना होगा।

(एम. पी. सिन्हा)

अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

(गुज. एवं म.प्र.)

कृते : केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, नई दिल्ली।

## RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai, the 17th April 2012

Ref. DBOD.No.Ret.BC.94/12.02.001/2011-12—In exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of Section 24 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) as amended from time to time the Reserve Bank of India hereby notifies that para (ii) of the earlier Notification DBOD.No.Ret.BC.91/12.02.001/2010-11 dated May 09, 2011, stands modified as under :—

"Securities offered as collateral to the Reserve Bank of India for availing liquidity assistance from Marginal Standing Facility (MSF) upto two per cent of the total net demand and time liabilities in India carved out of the required SLR portfolio of the bank concerned".

B. MAHAPATRA  
Executive Dir.

## STATE BANK OF PATIALA

Patiala

## CORRIGENDUM

The opening para of notification No. 119 published in Part-III-Section 4 of Gazette of India dated 31.05.2011 starting from the word "In exercise of the powers conferred by sub-section (1).....and ending with the word namely:" is substituted as under :—

"In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and Clause (O) of sub-section (2) of Section 63 of the SBI (Subsidiary Banks) Act, 1959, the State Bank of India, in consultation with the Board of Directors of State Bank of Patiala and with the approval of Reserve Bank of India hereby makes the following regulations further to amend the State Bank of Patiala (Employees') Pension Regulations, 1995, namely:"

S. CHANDRASEKHARAN  
General Manager (Try, F&A, Per Bkg.)

## NATIONAL HOUSING BANK

New Delhi, the 23rd April 2012

No. NHB-General Regulation/2012—In exercise of the powers conferred by Section 55 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the Board, with the previous approval of the Reserve Bank of India and in consultation with the Central Government, hereby makes following Regulations to amend the National Housing Bank General Regulations, 1988, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the National Housing Bank General (Amendment) Regulations, 2012
- (2) They shall be deemed to have come into force on the 18th day of October, 2011.
2. In the National Housing Bank General Regulations, 1988, in Regulations 7,—
  - (a) In sub regulation (1), for the word and figure "Rs. 5,000", the word and figure "Rs. 10,000" shall be substituted; and

- (b) In sub regulation (2), for the word and figure "Rs. 2,500", the word and figure "Rs. 5,000" shall be substituted.

R. V. VERMA

Chairman and Managing Director

## EXPLANATORY MEMORANDUM

Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) vide its circular No. 15/1/2011-BO. I. dated 18th October, 2011 had revised the rates of sitting fee payable to the directors on the board of banks for attending the Board and Committee Meetings to Rs. 10,000/- and Rs. 5,000/- respectively. The amendment to the National Housing Bank General Regulations, 1988 is to give effect to the said revision with effect from 18th October, 2011.

Note—The Principal Regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part II Section 3, sub-section (ii) vide S.O. 935 (E) dated 8th October, 1988, and amended vide S.O. 1041 (E) dated the 29th August, 2003, GSR(E), dated the 1st July, 2004 and dated the 24th August, 2004.

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

New Delhi, the 30th April 2012

## (CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. 29-CA/Law/D-216/2012—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of The Chartered Accountants Act, 1949 read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the Hon'ble High Court of Delhi has, in pursuance of Section 21(6)(c) of the said Act, in Chartered Accountant Reference No. 1/2009, ordered on 4th November, 2011 that the name of Shri Parveen Kumar Katyal, FCA, Chartered Accountant, 28, 2nd Floor, Pushpa Market, Lajpat Nagar-II, New Delhi-110024 (M. No. 082539) be removed from the Register of Members for a period of one year for having been found guilty of "Other Misconduct" under Section 22 read with Section 21 of the Chartered Accountants Act, 1949. Accordingly, it is hereby informed that the name of the said Shri Parveen Kumar Katyal shall stand removed from the Register of Members for a period of one year w.e.f. 1st June, 2012. During that period he shall not practise as a Chartered Accountant in terms of the said order of the Hon'ble High Court of Delhi.

T. KARTHIKEYAN  
Secy.

No. 29-CA/Law/D-231/2012—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of The Chartered Accountants Act, 1949 read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India that the Hon'ble High Court of Delhi has, in pursuance of Section 21(6)(c) of the said Act, in Chartered Accountant Reference No. 2/2009, ordered on 28th March, 2011 that the name of Shri Manoj Kumar Sachdeva, FCA, Chartered Accountant, E-419, IIInd Floor, Greater Kailash-II, New Delhi-

110048 (M. No. 085586) be removed from the Register of Members for a period of three years for having been found guilty of "Other Misconduct" under Section 22 read with Section 21 of the Chartered Accountants Act, 1949. Accordingly, it is hereby informed that the name of the said Shri Manoj Kumar Sachdeva shall stand removed from the Register of Members for a period of three years w.e.f. 1st June, 2012. During that period he shall not practice as a Chartered Accountant in terms of the said order of the Hon'ble High Court of Delhi.

T. KARTHIKEYAN  
Secy.

New Delhi-110002, the 2nd May 2012

No. 13-CA(Exam.)/ISA/J/2012—In pursuance of Rule 7 of Schedule 'F' to Regulation 204 of the Chartered Accountants Regulations, 1988 (as amended vide Notification No. 1-CA(7)/59/2001 dated 28th September 2001), the Council of the Institute of Chartered Accountants of India is pleased to notify that the Information Systems Audit (ISA) Course Assessment Test will be held on 23rd June 2012 (Saturday) from 10.30 AM to 2.30 PM at the following cities provided that sufficient number of candidates offer themselves to appear from each city as detailed below :—

Sl. No. Name of the Cities

1. Agra
2. Ahmedabad
3. Akola
4. Amritsar
5. Aurangabad
6. Bangalore
7. Bareilly
8. Bhopal
9. Bhubaneswar
10. Chandigarh
11. Chennai
12. Coimbatore
13. Delhi/New Delhi
14. Dehradun
15. Faridabad
16. Goa
17. Guwahati
18. Gwalior
19. Hyderabad
20. Indore
21. Jabalpur
22. Jaipur
23. Jalandhar
24. Jamshedpur
25. Jodhpur

26. Kanpur
27. Kolhapur
28. Kolkata
29. Lucknow
30. Ludhiana
31. Mumbai
32. Nagpur
33. Nasik
34. Patna
35. Pune
36. Raipur
37. Rajkot
38. Ranchi
39. Siliguri
40. Surat
41. Trichur
42. Vadodra
43. Vapi
44. Varanasi
45. Visakhapatnam

The Council reserves the right to withdraw any centre at any stage without assigning any reason. The above Test is open only to eligible Members of the Institute who are already registered with the Institute for the said course. The fees payable for the above Assessment Test is Rs. 1,000/-.

Applications for admission to the Assessment Test is required to be made in the prescribed form which may be obtained from the Additional Secretary (Exams.), The Institute of Chartered Accountants of India, ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi-110002 on payment of Rs. 100/- per application form. The forms are also available in the Regional and Branch Offices of the Institute and can be obtained upon cash payment on or from 14th May, 2012. Alternatively, the format of application form can be downloaded from the website of the Institute viz. [www.icai.org](http://www.icai.org) and the cost of the application form of Rs. 100/- can be added to the Assessment Test fee of Rs. 1,000/- and the Demand Draft for Rs. 1,100/- has to be sent. The last date for receipt of duly filled in application forms is 1st June, 2012.

Payment of fees for the Assessment Test should be made only by Demand Draft. The Demand Draft may be of any Scheduled Bank and should be drawn in favour of "The Secretary, The Institute of Chartered Accountants of India, payable at New Delhi" only. Application together with the prescribed fee be sent so as to reach the Additional Secretary (Exams.) at New Delhi on or before 1st June, 2012.

The application together with the prescribed fee should be sent by Speed Post/Registered Post to the Additional Secretary (Exams.), New Delhi. The applications received after 1st June, 2012 will not be entertained under any circumstances.

G SOMASEKHAR  
Additional Secy. (Exams.)

Mumbai-400005, the 18th January 2012

3WCA(5)/1/2010-11 : With reference to this Institute's Notification Nos. 3WCA(4)/3/2009-10 dated 28 Dec 2010 and 3WCA (4)/3/2010-11 dated 04 Oct 2011, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored retrospectively to the Register of Members with effect from date mentioned against their name, the names of the following members :-

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
1	003672	MR. KANTAN R. SRINIVASA FCA	01/10/2010
2	005621	MR. JOSHI M. SHRIDHARRAO FCA	01/10/2010
3	005635	MR. MEHTA D. SHANTILAL FCA	01/10/2010
4	006938	MR. JODH S. PRALHADPANT FCA	01/10/2010
5	007083	MR. AHUJA GOPAL MOTOOMAL FCA	01/10/2010
6	007343	MR. THAKUR P. BHALCHANDRA FCA	01/10/2010
7	007650	MR. SATHE GANGADHAR GANESH FCA	01/10/2009
8	009205	MR. VELAYUDHAN MUTHALAMPET FCA	01/10/2009
9	009282	MR. N RAMAKRISHNAN FCA	01/10/2010
10	009578	MR. GUJARATI JATIN HARILAL FCA	01/10/2010
11	009694	MR. SHAH R. HARJIVANDAS FCA	01/10/2010
12	009798	MR. SRINIVASAN J ACA	01/10/2009
13	010058	MR. CHOKSI B. ASHALAL FCA	01/10/2010
14	010398	MR. SUSHILCHANDRA T. KAPADIA ACA	01/10/2010
15	011286	MR. KHAMBE M. SHRIKRISHNA ACA	01/10/2010
16	011730	MR. NANAVATI A. CHANDRAKANT FCA	01/10/2010
17	013502	MR. VORA SHITALBHAI S FCA	01/10/2010
18	013743	MR. RAMAIA VIRENDRA LAXMIDAS FCA	01/10/2009
19	013772	MR. PATEL PRAVEEN VITTHALBHAI ACA	01/10/2010
20	014383	MR. WILLIAM SERRAO FCA	01/10/2010
21	014395	MR. JANARDHANAN P T FCA	01/10/2010
22	015789	MR. SUHRUD DVJENDRA DESAI FCA	01/10/2010
23	015939	MR. TARSEM LAL JAIN FCA	01/10/2010
24	015983	MR. AIYAR V. SUBBARAMAN FCA	01/10/2010
25	016076	MR. SHAH K. DWARKADAS ACA	01/10/2010
26	016365	MR. KALYANARAMAN T K FCA	01/10/2010
27	016516	MR. RADHAKRISHNAN K B ACA	01/10/2009
28	016575	MR. DEVENDRA C. BHANDARI FCA	01/10/2010
29	017324	MR. DHARAP SHRIKANT LAXMAN ACA	01/10/2009
30	017516	MR. DHOLAKIA BANKIMCHANDRA B ACA	01/10/2010
31	017887	MR. VINOD G. BHANSALI FCA	01/10/2010
32	017890	MR. VIDYA G. RANCHHODBHAI ACA	01/10/2010
33	017977	MR. BHANDAWAT PARAS FCA	01/10/2010
34	018022	MR. MADHU SUDHAN P ACA	01/10/2010
35	021754	MR. C AYYASWAMY FCA	01/10/2010
36	022497	MR. VASUDEVAN G ACA	01/10/2010
37	022648	MR. C S VENKITESWARAN FCA	01/10/2010
38	023104	MR. M GOVARDHAN FCA	01/10/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
39	024289	MR. SRIDHARAN S ACA	01/10/2010
40	024690	MR. SUBRAMANIAM S ACA	01/10/2010
41	027569	MR. SRIDHAR D ACA	01/10/2009
42	029998	MR. BASKAR V ACA	01/10/2009
43	030014	MR. BOHRA SHREE GOPAL FCA	01/10/2009
44	030071	MR. R ANANTHAKRISHNAN FCA	01/10/2009
45	030141	MR. JASANI H. MATHURADAS FCA	01/10/2010
46	030148	MR. DESAI SHIRISH MANUBHAI FCA	01/10/2010
47	030186	MR. SHRIRAM GOVIND JOSHI FCA	01/10/2010
48	030286	MR. GHATE C. BHALCHANDRA ACA	01/10/2010
49	030332	MR. FERNANDES LESLIE FCA	01/10/2010
50	030412	MR. PATEL N.ISHWARBHAI FCA	01/10/2010
51	030486	MR. TUREL SAM EDULJI ACA	01/10/2010
52	030501	MR. KORLA JAY PRAKASH FCA	01/10/2010
53	030987	MR. KAMAT RAJENDRA EKNATH ACA	01/10/2010
54	031108	MR. JADHAV VILAS RAMCHANDRA FCA	01/10/2010
55	031134	MR. MUSTAFA YAHYABHAI JAMALI FCA	01/10/2010
56	031256	MR. SHETTY BELLE MOHANDAS FCA	01/10/2009
57	032073	MR. PINTO GLEASON P FCA	01/10/2010
58	032201	MR. ARUN BABULAL SHAH FCA	01/10/2010
59	032334	MR. ANILKUMAR R. NAYYAR FCA	01/10/2010
60	032595	MR. BHANDARI MADAN ACA	01/10/2009
61	032606	MR. JOSHI B. NARHAR FCA	01/10/2010
62	032702	MS. SANGHVI NEETA NAYAN ACA	01/10/2009
63	032915	MR. RAJNIKANT K. JOSHI ACA	01/10/2010
64	033062	MR. AGRAWAL N. HIRALAL FCA	01/10/2010
65	033144	MR. SINHA MRINAL KUMAR ACA	01/10/2010
66	033225	MR. ARVIND GANGARAM GHAG FCA	01/10/2010
67	033260	MR. RAYGANDHI V. BHIKHAND FCA	01/10/2010
68	033387	MR. SHAH ANIL NARENDRA FCA	01/10/2010
69	033392	MR. SHINDE SHIVAJI ARJUN FCA	01/10/2010
70	033425	MR. SHAH GAUTAM DEVSHIBHAI ACA	01/10/2010
71	033504	MR. NALAVADI ONEIL YESHWANT ACA	01/10/2010
72	033970	MR. BIPINKUMAR K. MEHTA ACA	01/10/2010
73	034149	MR. GUPTA A. R. MADANLAL ACA	01/10/2010
74	034332	MR. MAHESH S.SHETTY FCA	01/10/2010
75	034357	MR. GANDHI R. VASANTKUMAR FCA	01/10/2010
76	034402	MR. SATRA VIJAY NANJI FCA	01/10/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
77	034537	MS. DONGREVRUSHALI S. ACA	01/10/2010
78	034563	MR. BORSE ASHOK BHASKARRAO FCA	01/10/2009
79	034679	MR. SEQUEIRA VINCENT PAUL FCA	01/10/2010
80	034726	MR. NIKHIL C. MORSAWALA FCA	01/10/2010
81	034763	MR. SHAH A. RATILAL FCA	01/10/2010
82	034775	MR. LAMBA ANIL SHIVRAM FCA	01/10/2010
83	035120	MR. KALE SOPAN GANU FCA	01/10/2010
84	035311	MR. KIRITKUMAR R. MEHTA FCA	01/10/2010
85	035535	MR. UPADHAYA N. LALITKUMAR FCA	01/10/2009
86	035750	MS. SURYANARAYANAN MYTHILI FCA	01/10/2010
87	035778	MR. JOSHI ARUN GOVIND FCA	01/10/2010
88	035821	MR. KALPESH KANAKARI DAGLI ACA	01/10/2010
89	036259	MR. ATHALE H. YESHWANTRAY ACA	01/10/2010
90	036316	MR. PATEL KALPESH AMBALAL ACA	01/10/2010
91	036345	MR. KULKARNI PRADEEP VITHAL ACA	01/10/2010
92	036496	MR. SHAH GIRISH LAXMICHAND FCA	01/10/2009
93	036531	MR. SRIKAR M. BALJEKAR ACA	01/10/2009
94	036535	MR. SAWANT M. SITARAM ACA	01/10/2010
95	036776	MR. DALAL M. JAYENDRABHAI FCA	01/10/2010
96	036922	MR. SRIRAM. VAIDYANATHA FCA	01/10/2010
97	037064	MR. HEGDE K PRABHAKAR FCA	01/10/2010
98	037192	MR. SAMBHUS R.KASHINATH FCA	01/10/2010
99	037288	MR. BALARAMA M. CHANGAVALLI ACA	01/10/2010
100	037362	MR. SHAH PRAKASH RASIKLAL ACA	01/10/2010
101	037458	MR. MEHTA D. BIPINCHANDRA FCA	01/10/2010
102	037618	MR. NADKARNI JAYANT SHANKAR FCA	01/10/2010
103	037654	MR. SHAH JAYESH ARUNKUMAR ACA	01/10/2010
104	037707	MR. GHATE HIMANSHU EKNATH FCA	01/10/2009
105	037709	MR. SHAH NARENDRA FULCHAND ACA	01/10/2010
106	037717	MR. RAMESH M. CHICHANI ACA	01/10/2010
107	037983	MR. DALAL PRASHANT SURYAKANT FCA	01/10/2010
108	038053	MR. UDAS KISHOR PRABHAKAR ACA	01/10/2010
109	038106	MR. GORE KISHOR NARAYAN FCA	01/10/2010
110	038328	MR. SALIAN JAYANTA NAGAPPA FCA	01/10/2010
111	038463	MR. RAMESHCHANDRA M. NAGAR FCA	01/10/2010
112	038474	MR. SEWAK S. BHAWARLAL FCA	01/10/2010
113	038510	MR. PARIKH D. PRAVINCHANDRA FCA	01/10/2010
114	038553	MRS. SUGANDHA KAMALAPURI FCA	01/10/2009
115	038634	MR. JOSHI KISHOR RAMBABU FCA	01/10/2010
116	038642	MR. LALVANI AJAY BAHAR ACA	01/10/2010
117	038647	MR. KHAN ISHTIAQ A. S. HAQ FCA	01/10/2010
118	038756	MR. PABARI SUNIL MANUBHAI FCA	01/10/2010
119	038869	MR. LAHOTI VIKAS ACA	01/10/2010
120	039063	MR. MOLEDINA M. MOHAMEDALI FCA	01/10/2010
121	039132	MR. DAVE SHAILESH JAYANTBHAI FCA	01/10/2010
122	039391	MS. TALSANIA JAYSHRI SUDHIR FCA	01/10/2010
123	039501	MR. DATTAPRASAD K. UGRANKAR FCA	01/10/2010
124	039595	MR. TRIVEDI B.K. JAYANTILAL FCA	01/10/2010
125	039714	MR. KRISHNAN VENKATACHALAM FCA	01/10/2010
126	039740	MR. SHAH NAINESH KANTILAL FCA	01/10/2010
127	039784	MR. SETHI MANOJ FCA	01/10/2010
128	039822	MR. SWAMY R. NARAYAN ACA	01/10/2010
129	039858	MR. MEHTA B. KANTILAL ACA	01/10/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
130	039867	MR. JAIN S. PHOOTERMAL FCA	01/10/2010
131	040103	MR. SHUKLA VIVEK JAYANT FCA	01/10/2010
132	040210	MR. SHAH BHARAT VANMALIDAS FCA	01/10/2010
133	040336	MR. RAKESH G. PATHAK FCA	01/10/2009
134	040339	MR. IYER K. SESHAN FCA	01/10/2010
135	040399	MR. MANOJ J. RATHORE FCA	01/10/2010
136	040448	MR. S. GOVINDASWAMY FCA	01/10/2010
137	040507	MR. KARWAR A. MENGHARAM FCA	01/10/2010
138	040832	MR. ANIL L. BOTHRA FCA	01/10/2009
139	040858	MR. KHURANA R. K. KRISHAN ACA	01/10/2010
140	041029	MR. GUNVANT K. KOTCHA ACA	01/10/2010
141	041087	MR. DENKAR P. SUDHAKAR ACA	01/10/2010
142	041188	MR. KRISHAN K. KANWAL ACA	01/10/2010
143	041267	MR. ADVANI P. TOLARAM FCA	01/10/2010
144	041341	MS. JAYASHREE R. FCA	01/10/2010
145	041542	MS. DESAI S. ISHWARLAL FCA	01/10/2010
146	041565	MR. POTDAR V. KESHAV ACA	01/10/2009
147	041632	MR. IYER V. RAMANATHAN ACA	01/10/2010
148	041634	MRS. NALINI L. ACA	01/10/2010
149	041713	MR. ASHOK R. CHITLANGE FCA	01/10/2010
150	041814	MR. ACHARYA C. INDORADEO ACA	01/10/2010
151	042010	MR. FICHADIYA A. KANTILAL ACA	01/10/2010
152	042196	MR. SAKRIKAR U.SHREERAM ACA	01/10/2010
153	042299	MR. KAJAREKAR M. BALKRISHNA ACA	01/10/2010
154	042514	MR. PRAVEEN K. CHOUDHARY ACA	01/10/2010
155	042587	MS. MACCAWALA R. FAKHRUDDIN FCA	01/10/2010
156	042665	MR. KAMATH S. RATNAKAR ACA	01/10/2009
157	042700	MR. CHOUDHARY B. SINGH FCA	01/10/2010
158	042702	MR. JANI TUSHAR YOGENDRA FCA	01/10/2010
159	042840	MS. RAJPUT N. CHETAN FCA	01/10/2009
160	042981	MR. MANE SATISH UDDHAVRAO FCA	01/10/2010
161	043046	MS. FADIA PINKU SUBHASH ACA	01/10/2009
162	043185	MR. ATAL SANJAY SURAJMAL FCA	01/10/2010
163	043219	MR. RADIA MUKESH HANSRAJ FCA	01/10/2010
164	043449	MR. JAHAGIRDAR P. VASUDEO FCA	01/10/2010
165	043512	MR. KULKARNI H. ANANT FCA	01/10/2010
166	043537	MR. FAZAL M. A. SHAIKH FCA	01/10/2010
167	043549	MR. KRISHNAKUMAR V. ACA	01/10/2010
168	043631	MR. CHATURVEDI C. PRAKASH ACA	01/10/2010
169	043645	MR. VYAS NARENDRA N. FCA	01/10/2010
170	043665	MR. RAJENDRA S. FCA	01/10/2010
171	043686	MR. NAEEMUDDIN J. ANSARI FCA	01/10/2010
172	043823	MR. PHILLIP A. RODRIGUES ACA	01/10/2009
173	043949	MR. TEJ PRAKASH D FCA	01/10/2010
174	043950	MR. NANGALIA H. ACA	01/10/2010
175	044063	MS. MAHALAKSHMI R. MUDLIAR ACA	01/10/2010
176	044165	MR. DEV PIYUSH SUDHAKAR ACA	04/10/2010
177	044278	MR. VENKATASUBRAMANIAN B IYER ACA	01/10/2010
178	044398	MR. PATEL PRANAY JAYANTILAL ACA	01/10/2009
179	044419	MR. CHANDWANI N. ARJANDAS ACA	01/10/2010
180	044424	MR. THAKKAR A. RANCHHODDAS FCA	01/10/2009
181	044626	MR. SUNIL C. KHINVASARA FCA	01/10/2010
182	044655	MR. VIJAY B. WALWADKAR FCA	01/10/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
183	044768	MR. LALIT S ACA	01/10/2009
184	044951	MR. SHAH BHARAT KANCHANLAL FCA	01/10/2009
185	044983	MR. BALASUBRAMANIAN SURESH ACA	01/10/2010
186	045008	MR. RAJESH KUMAR MOONDRA FCA	01/10/2010
187	045034	MR. RAJESH KRISHNAPPA KOTIAN ACA	01/10/2010
188	045338	MS. GANDHI MONICA R ACA	01/10/2010
189	045381	MR. SANDIP BIKASH MUKHERJEE FCA	01/10/2010
190	045445	MR. RAJEEV KUMAR SINGHAL FCA	01/10/2009
191	045581	MR. PANJWANI N. ALIMOHMED FCA	01/10/2009
192	045707	MR. CHHAJED AJIT BHAGWANDAS FCA	01/10/2010
193	045713	MR. DOCTOR NADIR MAHAR ACA	01/10/2009
194	045957	MR. TAWDE A. YANKATESH ACA	01/10/2010
195	046002	MR. SHAH M. MANUBHAI FCA	01/10/2010
196	046026	MR. CLETUS JEROME D'SOUZA ACA	01/10/2010
197	046087	MR. KARIM A M GANGANI FCA	01/10/2010
198	046127	MR. MEHTA N. CHANDRAKANT FCA	01/10/2009
199	046291	MR. VIPUL KANTILAL SOMAIYA FCA	01/10/2010
200	046343	MR. AMIT OMPRAKASH GUPTA FCA	01/10/2010
201	046374	MR. GANDHI K. TARACHAND FCA	01/10/2010
202	046456	MR. PHATAK S. MADHUSUDAN ACA	01/10/2010
203	046528	MR. AMAR S. DIXIT FCA	01/10/2010
204	046574	MS. SUNITA S. NARANG FCA	01/10/2010
205	046623	MR. MALI ANAND SITARAM ACA	01/10/2010
206	046675	MS. VANDANA RAMESH PAKLE ACA	01/10/2009
207	046687	MR. NAGAR ASHWIN KUMAR FCA	01/10/2010
208	046729	MR. JAGETIYA SHRI RAM ACA	01/10/2010
209	046798	MR. MAHENDRA K. MARLECHA FCA	01/10/2010
210	046886	MR. CHAUKAR MILIND ARVIND ACA	01/10/2010
211	046902	MR. RAJUBHAI S. JARIWALA ACA	01/10/2010
212	046930	MR. BHATT R. KUMUDCHANDRA ACA	01/10/2010
213	046943	MR. MEHTA PARESH HIMATLAL ACA	01/10/2010
214	046975	MR. NAIR AJIT VELAYUDHAN ACA	01/10/2010
215	046981	MR. MAKHJA MAHESH UDHAV FCA	01/10/2010
216	047020	MR. GUPTA A. ROSHANLAL ACA	01/10/2009
217	047093	MR. AJAY BALKRISHNA BHATWAL FCA	01/10/2009
218	047177	MS. APARNAGOURI GIRISH PHATAK ACA	01/10/2010
219	047181	MR. SUCHDEV R. KRISHNAKUMAR ACA	01/10/2010
220	047196	MR. JOSHI M. MADHUSUDHAN FCA	01/10/2010
221	047204	MR. JAOKAR M. VIJAYKUMAR ACA	01/10/2010
222	047296	MR. PARANJPE P. VASUDEO FCA	01/10/2010
223	047309	MR. RAMPRASAD J. ACA	01/10/2010
224	047408	MR. VAKNALLI S. PRABHAKAR ACA	01/10/2010
225	047437	MR. AJAY MADAN FCA	01/10/2010
226	047454	MR. JAIN M. KUMAR KANTILAL ACA	01/10/2010
227	047471	MR. CHITLANGE V. SITARAM ACA	01/10/2010
228	047487	MR. BANGLOREWALA C. RATILAL ACA	01/10/2009
229	047576	MR. ANIL ARVIND KULKARNI FCA	01/10/2010
230	047623	MR. SANJIV RAMCHANDRA KOSHE FCA	01/10/2010
231	047635	MS. MEDHA MAHESH JAOKAR ACA	01/10/2010
232	047680	MR. MANOJ NARAYAN ACA	01/10/2010
233	047728	MS. SHAH KAVITA RAKESH FCA	01/10/2010
234	047824	MR. UDAYKUMAR SUBRAYAL FCA	01/10/2010
235	047836	MR. MHAISKAR MADHAV JAYANT ACA	01/10/2009

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
236	047883	MR. BAJAJ P. GOPINATH FCA	01/10/2010
237	047898	MR. KRISHNAMURTHY K. ACA	01/10/2009
238	047922	MR. SHARMA RAJESH KUMAR ACA	01/10/2010
239	047980	MR. NILJIKAR SATISH VASUDEO FCA	01/10/2010
240	048081	MR. RAMESH K. T ACA	01/10/2010
241	048187	MR. VIKRAM S. KELKAR ACA	01/10/2010
242	048259	MR. SACHIN SHARAD TIPNIS FCA	01/10/2010
243	048554	MR. GOKHALE M. GAJANAN ACA	01/10/2010
244	048610	MR. JAIN HANSMUKH LAL ACA	01/10/2010
245	048747	MR. FADIA AMAR HARSHAD ACA	01/10/2010
246	048757	MR. AGGRAWAL H. DHANRAJ ACA	01/10/2009
247	048813	MR. KAMAL S. KOTHARI ACA	01/10/2010
248	048896	MR. CHATWANI VIPUL JAMNADAS ACA	01/10/2010
249	048909	MR. MISTRY SANJAY SUNDERLAL ACA	01/10/2010
250	048931	MR. NALAVADI S. YESHWANT ACA	01/10/2010
251	048998	MS. DIPTI VISHAL SHAH ACA	01/10/2010
252	049003	MR. DARUVALA KHURSHED YEZDI ACA	01/10/2010
253	049029	MS. NEHA SANGHVI ACA	01/10/2010
254	049066	MRS. MARYANNE C. MENDONCA ACA	01/10/2010
255	049074	MRS. SHARMIL S. KULKARNI ACA	01/10/2010
256	049099	MR. MEHTA M. PRADIPKUMAR ACA	01/10/2010
257	049129	MR. JAGETIYA SHYAM LAL ACA	01/10/2010
258	049182	MR. DEEPAK ARJUN SHINDE FCA	01/10/2010
259	049215	MR. MALOO SANJAY HANUMAN ACA	01/10/2010
260	049382	MS. SIMRAN RAM MANSUKHANI ACA	01/10/2010
261	049384	MR. ADVANI RABEL SACHU ACA	01/10/2010
262	049524	MR. SUNIL DATTARAM KULKARNI FCA	01/10/2010
263	049538	MS. SACHWANI K. BALKRISHIN ACA	01/10/2010
264	049746	MR. GANDEJA A. MADHUSUDAN FCA	01/10/2010
265	049759	MR. PRASHANT R. KOYANDE FCA	01/10/2010
266	049767	MR. HUSHAD HOSHANG RAMINA FCA	01/10/2010
267	049807	MR. GANGWANI VIJAY CHANDER ACA	01/10/2010
268	049809	MR. SACHIN Y. MARDIKAR FCA	01/10/2009
269	049848	MRS. MINAL RAJESH GALA FCA	01/10/2009
270	050770	MR. KAMAL KISHORE MARIA FCA	01/10/2010
271	052063	MR. HARI SANKAR BANERJEE ACA	01/10/2009
272	052903	MR. NAYAR RANGESH ACA	01/10/2010
273	054226	MR. ANIL MODANI FCA	01/10/2010
274	056637	MR. ANUJ GOYAL FCA	01/10/2009
275	057491	MR. SURANA SANJAY KUMAR ACA	01/10/2010
276	057566	MR. ROY BIDHAN CHANDRA FCA	01/10/2010
277	057570	MR. KAR ANIRBAN ACA	01/10/2010
278	057765	MR. ROY SUMAN ACA	01/10/2009
279	057929	MR. SIL SUDIPTA ACA	01/10/2010
280	058093	MS. JAIN LEENA FCA	01/10/2010
281	058536	MR. CHAYANI MANOJ SUNDAR FCA	01/10/2010
282	059282	MR. SUDIP CHAUDHURI ACA	01/10/2010
283	059400	MS. MUNDRA SUJATA ACA	01/10/2010
284	059517	MR. DALAL SANJOY ACA	01/10/2010
285	060557	MRS. SHALINI MEMANI ACA	01/10/2010
286	060772	MR. NAHATA RAJESH KUMAR ACA	01/10/2010
287	062349	MS. AGARWAL VINEETA ACA	01/10/2009
288	062724	MR. MISHRA AJAY KUMAR ACA	01/10/2010



S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
289	063010	MR. AGARWAL JITENDRA ACA	01/10/2010
290	064151	MR. SATNALIKA SOMESH ACA	01/10/2010
291	064600	MS. SHRUTI JHA ACA	01/10/2010
292	070256	MR. TARA CHAND CHEJARA FCA	01/10/2009
293	070415	MR. MITTAL ATUL KUMAR FCA	01/10/2010
294	070452	MR. MADAN LAL CHHAJER ACA	01/10/2009
295	070452	MR. MADAN LAL CHHAJER ACA	01/10/2010
296	071785	MR. MALHOTRA ANIL DUTT FCA	01/10/2010
297	072500	MS. SHARDA RAMACHANDRAN ACA	01/10/2009
298	072888	MR. SANJEEV KUMAR VIJAY ACA	01/10/2010
299	073205	MR. CHANDRA P. GOYAL FCA	01/10/2010
300	074512	MR. MANI P. ACA	01/10/2009
301	075006	MR. RAJESH KUMAR AGARWAL FCA	01/10/2010
302	075078	MR. SANJAY KUMAR JAIN FCA	01/10/2010
303	075379	MR. MANOJ KUMAR ACA	01/10/2010
304	075544	MR. GARG VINEET FCA	01/10/2010
305	075680	MR. SHARMA SUNIL KUMAR FCA	01/10/2010
306	075739	MR. RAKESH SARASWAT FCA	01/10/2010
307	075772	MR. PAWAN KUMAR BHOTTRA ACA	01/10/2010
308	076186	MR. AGARWAL PURSHOTAM ACA	01/10/2010
309	077563	MR. SHARAD BUDHIA ACA	01/10/2009
310	078409	MR. SIDDHARTH JAIN ACA	01/10/2010
311	079527	MR. AISHWARYA DEEPAK ACA	01/10/2010
312	080081	MR. SHANTARAM D. LATKAR ACA	01/10/2010
313	080977	MR. BHANOJI R. TANKALA FCA	01/10/2010
314	085553	MR. CHHABRA PAVAN KUMAR FCA	01/10/2010
315	086256	MR. RAJAN S N ACA	01/10/2009
316	089567	MR. SUNIT KUMAR RASTOGI ACA	01/10/2010
317	093407	MR. JHAMB AJAY FCA	01/10/2010
318	094038	MS. ADVANI KAVITA FCA	01/10/2010
319	094991	MR. KUKREJA VIKAS ACA	01/10/2009
320	096206	MS. GURVINDER KAUR BAWA ACA	01/10/2010
321	097697	MR. HARIHARA PRASAD P G ACA	01/10/2010
322	100025	MS. SHETTY SHAMA SHEKAR ACA	01/10/2010
323	100043	MS. BHADBHADRE ANJALI RAHUL ACA	01/10/2010
324	100090	MR. BATLIVALA R.DINSHAW ACA	01/10/2010
325	100117	MR. MANISH V. SHAH FCA	01/10/2010
326	100177	MR. SUDARSHAN H. MADAN ACA	01/10/2010
327	100238	MR. SUNIL SHRIPAD PATKI ACA	01/10/2010
328	100257	MR. BHARDWAJ S K KANWAR ACA	01/10/2009
329	100269	MR. SHAH AMIT BHUPENDRA ACA	01/10/2010
330	100286	MR. MISHRA ANUP KUMAR ACA	01/10/2010
331	100303	MS. PAI SHEELA NARAYAN ACA	01/10/2010
332	100340	MR. PILLAI S. BHARGAVAN ACA	01/10/2010
333	100451	MR. DALAL SAMIR BHUPENDRA ACA	01/10/2010
334	100586	MR. PARANJAPPE S. SURESH ACA	01/10/2010
335	100668	MR. BANGALORE R. GOPAL ACA	01/10/2009
336	100727	MR. AMITABH J. KHEMKA FCA	01/10/2009
337	100924	MR. RAMASUBRAMANIAN H. ACA	01/10/2010
338	101004	MR. SUNDARAM A. ACA	01/10/2010
339	101056	MR. VAIBHAV BHARAT SALI FCA	01/10/2010
340	101078	MR. GIRISHKUMAR S. GAUD FCA	01/10/2009
341	101102	MR. BUMB MAYUR SUBHASH ACA	01/10/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
342	101130	MS. CARDOSO S. IDA ACA	01/10/2010
343	101167	MR. SHAH PARESH DEVENDRA ACA	01/10/2010
344	101275	MR. JOSEPH MANI ACA	01/10/2010
345	101303	MS. GODBOLE R. HARSHAWARDHAN ACA	01/10/2010
346	101337	MR. MUNAWWAR M. ANWARE FCA	01/10/2010
347	101352	MR. DEVANG C. MERCHANT FCA	01/10/2010
348	101354	MR. MANISH ASAWA ACA	01/10/2009
349	101357	MR. MUNDRA VIJAY NATWARLAL ACA	01/10/2009
350	101379	MR. RAJESH KUMAR SAMDANI ACA	01/10/2010
351	101460	MR. ASHEESH G K GOEL ACA	01/10/2010
352	101476	MR. VIPUL PRAVINCHANDRA SHAH FCA	01/10/2009
353	101549	MS. GOKHALE GAURI VINAYAK ACA	01/10/2009
354	101576	MR. MAZHUVANCHERRY N. BABY ACA	01/10/2009
355	101723	MRS. REKHA SANJAY PAI ACA	01/10/2010
356	101732	MS. LAKSHMI L. FCA	01/10/2010
357	101846	MRS. GANGOTRI KORKE ACA	01/10/2010
358	101892	MR. PALAN MEHUL JAYANT ACA	01/10/2009
359	101958	MR. SRIRAM V. ACA	01/10/2010
360	101960	MR. MOOKERJEE R. RONJON ACA	01/10/2009
361	101989	MS. SHARADA D. BHAVE ACA	01/10/2010
362	102054	MR. VENKATAKRISHNAN S. ACA	01/10/2009
363	102084	MR. PAI SANJAY RAMNATH ACA	01/10/2010
364	102096	MR. VIPUL MURJI GALA FCA	01/10/2010
365	102166	MS. DIAS MILDRED ANAND ACA	01/10/2009
366	102192	MR. KUNAL PRAVIN SHAH FCA	01/10/2010
367	102236	MRS. PINKY HIREN SHAH ACA	01/10/2010
368	102238	MS. D'SOUZA E. F. ANTHONY ACA	01/10/2010
369	102240	MS. ANAND RACHANA K ACA	01/10/2009
370	102254	MS. MADHAVI SHRIKANT PHADKE ACA	01/10/2010
371	102264	MR. LELE VISHWAS SHAM ACA	01/10/2009
372	102264	MR. LELE VISHWAS SHAM ACA	01/10/2010
373	102265	MR. SAURABH PRAKASH KULKARNI ACA	01/10/2010
374	102283	MR. DAVE BHAVESH HARISHBHAI ACA	01/10/2010
375	102354	MS. REDKAR ARCHANA RAJA ACA	01/10/2010
376	102524	MR. ASHOK RAJU SHETTY FCA	01/10/2010
377	102552	MR. AZIZ G KOTADIA FCA	01/10/2010
378	102597	MR. KHASGIWALA A. AHAMENDRA ACA	01/10/2010
379	102743	MR. SHAH MEHUL KIRAN ACA	01/10/2010
380	102757	MR. NAVINKUMAR S.BADJATYA FCA	01/10/2010
381	102797	MR. GOPAL C. PANDE FCA	01/10/2010
382	102848	MR. RAKESH P JAIN FCA	01/10/2010
383	102874	MR. HEMAL KISHOR UCHAT ACA	01/10/2010
384	102921	MS. D'MELLO LORRAINE MARIA ACA	01/10/2010
385	102984	MR. SHARADKUMAR G. PUROHIT FCA	01/10/2009
386	103055	MR. L. P.KARTHIKEYAN ACA	01/10/2010
387	103133	MR. SHAH AMIT HEMENDRA ACA	01/10/2010
388	103175	MR. BARLOTA P. PARASMAL ACA	01/10/2010
389	103207	MRS. SHEFALI D. SEHWANI FCA	01/10/2009
390	103225	MR. NIRANJAN VASANTLAL MODI FCA	01/10/2010
391	103284	MR. VIKAS VIJAYKUMAR KHEMANI FCA	01/10/2010
392	103339	MR. DINESH KUMAR LODHA ACA	01/10/2010
393	103356	MR. SHAH DHAVAL H ACA	01/10/2009
394	103408	MR. DEEPAK MUNDRA ACA	01/10/2010



S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
395	103416	MR. MUNJAL BANKIM ALMOULA ACA	01/10/2010
396	103452	MR. AGRAWAL S. RAJBABADUR ACA	01/10/2010
397	103594	MR. PENDHARKAR S. SHRIPAD ACA	01/10/2010
398	103596	MR. RAGHUVIR AJWANI ACA	01/10/2010
399	103601	MR. KATHE ANIL LAXMAN ACA	01/10/2009
400	103624	MR. MENON A. SREEDHARA ACA	01/10/2010
401	103704	MR. PALITANAWALA H. S. HUSSAIN ACA	01/10/2010
402	103813	MS. WAGLE S. SHARADKUMAR ACA	01/10/2009
403	103913	MR. MIHIR CHANDULAL SELARKA FCA	01/10/2010
404	104019	MRS. MADHURA M. KARAMBELKAR ACA	01/10/2010
405	104037	MR. HETAL R. SHAH ACA	01/10/2010
406	104065	MR. SRIDHAR R. A. NARAYANASWAMY FCA	01/10/2009
407	104130	MR. KALPESH NITISH SHAH ACA	01/10/2009
408	104134	MR. RACHCHHA K. RAMESHCHANDRA ACA	01/10/2010
409	104148	MR. MOOKHI A. HAJIMOHAMED ACA	01/10/2010
410	104195	MR. LIGNESH K. GANDHI FCA	01/10/2009
411	104216	MR. GANESH ANNA SHETTY FCA	01/10/2010
412	104306	MR. VIJAY A. MORE FCA	01/10/2010
413	104505	MR. HARESH K. KOTHARI FCA	01/10/2009
414	104511	MR. VISHAL KUMAR R. BANDLISH ACA	01/10/2010
415	104524	MR. NARENDRA L. DAVE ACA	01/10/2010
416	104608	MS. KAJAL S. KAMAT ACA	01/10/2010
417	104654	MR. MUKESH KUMAR DEOPURA FCA	01/10/2009
418	104656	MR. VIKRAM PRALHAD KUMTAKAR ACA	01/10/2009
419	104665	MR. SAMIR VINODCHANDRA SHAH FCA	01/10/2010
420	104775	MR. DUDIYA CHETANKUMAR B. ACA	01/10/2010
421	104811	MR. KETAN SUBHASH KULKARNI ACA	01/10/2010
422	104823	MR. MANOJ DAMODAR PUROHIT FCA	01/10/2010
423	104853	MR. PRAVIN BANSILAL KHARWA FCA	01/10/2009
424	104879	MR. DAYANAND ARUN KHIRE FCA	01/10/2010
425	104959	MS. RADHA MAHADEVAN ACA	01/10/2010
426	105033	MR. MABEN AUGUSTINE JAMES ACA	01/10/2010
427	105273	MR. HIMANSHU B. DESAI ACA	01/10/2010
428	105356	MS. AGGARWAL S. OMPRAKASH ACA	01/10/2010
429	105362	MR. KALPESH B. DESAI ACA	01/10/2010
430	105392	MRS. ANITA NILESH DANGE ACA	01/10/2010
431	105401	MR. DEVANGKUMAR P. PRAJAPATI ACA	01/10/2010
432	105556	MR. RUPAL RAMESH PANCHAL ACA	01/10/2010
433	105647	MR. RAMAPRASAD J ACA	01/10/2009
434	105725	MR. FANENDRA H. MUNOT FCA	01/10/2010
435	105796	MR. BHARAT S. DIGHE ACA	01/10/2010
436	105803	MR. KAMLESH NAVRATANMAL JAIN ACA	01/10/2010
437	105810	MR. KAMLESH P. KHANDOR FCA	01/10/2010
438	105812	MS. TRUPTI SHASHIKANT GAWTHE ACA	01/10/2009
439	105822	MR. VISHWAS HENRY DESAI ACA	01/10/2010
440	105978	MR. PUNEET C. SANON ACA	01/10/2010
441	105980	MR. TATIPARTI S. RAO SASTRY FCA	01/10/2010
442	105996	MR. AMEETKUMAR ASHOK JAIN ACA	01/10/2010
443	105998	MS. ASHADEVI J. PATHAK ACA	01/10/2010
444	106071	MR. JAYANT TUKARAM FALKE FCA	01/10/2010
445	106100	MR. NARENDRA SURESH JOSHI ACA	01/10/2010
446	106118	MR. LISTON CHARLES LEWIS ACA	01/10/2010
447	106199	MR. SAVJIKUMAR G. SUKHADIA ACA	01/10/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
448	106227	MR. SAMEER ASHOK BHALERAO ACA	01/10/2010
449	106235	MR. DHIRAJ SHANTILAL OSTWAL FCA	01/10/2010
450	106268	MR. JAIMIT D. VASAVADA FCA	01/10/2010
451	106376	MR. KETANKUMAR S. SHAH ACA	01/10/2010
452	106420	MR. SHYAMSUNDER A. ACA	01/10/2010
453	106442	MR. ARUN KUNJURAMAN THAMPI ACA	01/10/2009
454	106497	MR. D'SOUZA MARIO ACA	01/10/2010
455	106590	MR. SUNIL CHURIWALA FCA	01/10/2010
456	106593	MRS. HEMA UPEN DESAI FCA	01/10/2010
457	106608	MR. YOGESH INDARMAL HALKARA ACA	01/10/2010
458	106718	MR. HARISH KHANDLWAL FCA	01/10/2010
459	106722	MR. VIPUL DHIRAJ SONI FCA	01/10/2010
460	106734	MS. NEERU N. BHUTDA ACA	01/10/2009
461	106794	MR. NARENDRA H. SHAH ACA	01/10/2010
462	106819	MR. GANESH P. BHAT ACA	01/10/2010
463	106852	MS. REKHA MOHANLAL SHIVANI ACA	01/10/2010
464	106875	MR. DINESH KUMAR DUDANI FCA	01/10/2010
465	106946	MS. VINITA GAJANAN SAWANT ACA	01/10/2010
466	106980	MR. BHANDARI MAHENDRA ACA	01/10/2010
467	107027	MR. RAHUL MAHADEV NIWATHE ACA	01/10/2010
468	107034	MR. BHANDARI AVINASH ACA	01/10/2010
469	107103	MR. CHINTAN SHAILESH SHAH ACA	01/10/2009
470	107103	MR. CHINTAN SHAILESH SHAH ACA	01/10/2010
471	107122	MS. MINAL MUKUNDRAI GATECHA FCA	01/10/2010
472	107201	MR. PRABHU RAGHAVENDRA ACA	01/10/2009
473	107274	MR. VINOD SHYAMLAL AHUJA ACA	01/10/2010
474	107305	MR. DINESH M. JASRAPURIA ACA	01/10/2010
475	107328	MR. VEDPRAKASH PANDEY FCA	01/10/2010
476	107340	MR. JIGNESH S. SHAH ACA	01/10/2010
477	107482	MRS. LEENA MANOJ ARAVIND ACA	01/10/2010
478	107522	MR. AMIT SUDHIR PATWARDHAN ACA	01/10/2010
479	107536	MR. MIHIR H. PUJARA FCA	01/10/2010
480	107682	MR. AJIT RAMKRISHNA SHETTY FCA	01/10/2010
481	107701	MR. AMOD RAMCHANDRA GOKHALE ACA	01/10/2010
482	107805	MR. AMOGH RAVINDRA GORE ACA	01/10/2009
483	107849	MS. PRIYANKA H. SHAH ACA	01/10/2009
484	107901	MS. SONAL DEVENDRA VEDAK ACA	01/10/2010
485	107930	MR. HITESH CHANDRAKANT SHAH ACA	01/10/2010
486	107946	MR. CHANDER PRAKASH GURNANI ACA	01/10/2010
487	107950	MR. AGARWAL RAJESH FCA	01/10/2010
488	107970	MR. K. SVENKATESAN ACA	01/10/2010
489	108012	MR. SHETE AMIT ACA	01/10/2010
490	108133	MR. RAHUL YESHWANT SUTAR ACA	01/10/2010
491	108174	MR. RAKESH K. TRIPATHI ACA	01/10/2010
492	108178	MRS. ADITI MEHUL SHAH ACA	01/10/2010
493	108248	MR. TUSHAR DINESH SHAH ACA	01/10/2010
494	108265	MR. BALRAJ HIMATLAL KHAKHAR FCA	01/10/2010
495	108305	MR. SANDEEPKUMAR NANAJI SALE ACA	01/10/2009
496	108305	MR. SANDEEPKUMAR NANAJI SALE ACA	01/10/2010
497	108471	MR. KEVAL MAHENDRA MUNI ACA	01/10/2010
498	108483	MR. ABHINAVA JAIN FCA	01/10/2009
499	108495	MRS. PALLAVI A. PATANKAR FCA	01/10/2010
500	108503	MR. EKNATH V. KHAPNE ACA	01/10/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
501	108562	MRS. KARUNA PANKAJ BHATT ACA	01/10/2010
502	108615	MRS. MRUNAL MANDAR THORAT ACA	01/10/2010
503	108668	MRS. NIVEDITA R. PANCHWAGH ACA	01/10/2010
504	108684	MRS. SEJAL SAMIR SHAH ACA	01/10/2010
505	108812	MR. JAIPRAKASH H. SHETHIYA FCA	01/10/2010
506	108829	MR. ASHUTOSH RAVINDRA JOSHI ACA	01/10/2010
507	108921	MR. SHITAL N. SHANKARGOUDA FCA	01/10/2010
508	108962	MR. SHYAMSUNDAR M. BALIGA ACA	01/10/2010
509	108964	MR. PRASHANT C. SHAH ACA	01/10/2009
510	109003	MR. GHOLAM H. A. MANSOORI ACA	01/10/2009
511	109039	MR. NITIN P. KATARIA ACA	01/10/2010
512	109040	MR. KUNAL KIRIT SHAH ACA	01/10/2009
513	109041	MR. MUNENDER R. GAJULA ACA	01/10/2010
514	109053	MR. PRAGESH SHANTILAL JAIN FCA	01/10/2010
515	109060	MR. MANISH HINGAR FCA	01/10/2010
516	109108	MR. MANISH MAHENDRA KEDIA ACA	01/10/2010
517	109145	MR. SUDISH B ARYAPPALLIL FCA	01/10/2010
518	109172	MR. AMAR RAJMAL KAKARIA FCA	01/10/2010
519	109199	MRS. PRITAM M. CHANDAK ACA	01/10/2010
520	109205	MR. BRIAN BOSCO D'SOUZA FCA	01/10/2010
521	109207	MR. VISHAL HASMUKH SHAH ACA	01/10/2010
522	109248	MR. SANDEEP SHRIPAD DANI ACA	01/10/2010
523	109345	MRS. APARNA R. CHAUGHULE ACA	01/10/2010
524	109350	MS. SYLVIA LEO MASCARENHAS ACA	01/10/2010
525	109358	MR. TARUN VEERENDRA SHAH ACA	01/10/2010
526	109423	MR. ROHIT MANOHAR KHATRI ACA	01/10/2009
527	109491	MR. GAURANG B. SHAH ACA	01/10/2010
528	109508	MS. RADHIKA APPULINGAM ACA	01/10/2009
529	109578	MR. CHARISH HENRY D'SOUZA ACA	01/10/2010
530	109630	MR. VINIT PRABHAKARAN NAIR ACA	01/10/2010
531	109655	MRS. VRUSHALI D. KITHANY ACA	01/10/2010
532	109733	MR. MANGATMAL T. BAFNA ACA	01/10/2010
533	109811	MRS. KALPANA AKSHAY SHAH ACA	01/10/2010
534	109903	MR. PRAFULLA PANNALAL SOMANI ACA	01/10/2010
535	109964	MR. SUNIL SHIVRAM ADAVADE FCA	01/10/2010
536	109987	MR. VINAYAK ARUN SHIMPI FCA	01/10/2010
537	110048	MRS. MANALI KAMAL KAPADIA FCA	01/10/2010
538	110062	MR. JAY KUMARPAL VORA ACA	01/10/2010
539	110172	MS. NANDITA GANAPATHY ACA	01/10/2009
540	110223	MR. ADWAIT S. MORWEKAR ACA	01/10/2009
541	110297	MR. MAULIK KALUBHAI TEJANI ACA	01/10/2010
542	110358	MR. SAMEER SUHAS KALE ACA	01/10/2010
543	110371	MR. NILESH KUMAR AJMERA ACA	01/10/2010
544	110412	MR. JAYESH KANHAIYALAL JAIN FCA	01/10/2010
545	110517	MRS. TRUPTI OMKAR GURJAR ACA	01/10/2010
546	110519	MR. SAMEER UDAY SALUNKE ACA	01/10/2009
547	110520	MS. NIYATI JAGDISH PARMAR ACA	01/10/2009
548	110555	MR. NANDAN P. JHAVERI ACA	01/10/2009
549	110564	MR. MAHESH SHARAD VARTAK ACA	01/10/2010
550	110701	MS. PRESHMA JHAWAR ACA	01/10/2010
551	110712	MR. JATINDERKUMAR J. AGARWAL ACA	01/10/2010
552	110751	MR. NAYAN MAHESH SHAH ACA	01/10/2010
553	110769	MR. JITEN KANAIYALAL SHAH FCA	01/10/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
554	110863	MR. VIJAYKUMAR R. JAJU FCA	01/10/2010
555	110993	MS. PRAPTI ANIL ACHARYA FCA	01/10/2010
556	111047	MR. NIRAV P. SHAH ACA	01/10/2009
557	111149	MR. PARAG VITHALDAS ASHAR FCA	01/10/2009
558	111195	MR. VENUGOPAL KAIMAL ACA	01/10/2009
559	111216	MR. ALOK S. AGRAWAL FCA	01/10/2010
560	111247	MS. SWATI HIMANSHU KOTHARI FCA	01/10/2010
561	111285	MR. NARENDRA RANGLAL JAIN ACA	01/10/2009
562	111410	MS. SREEJA R. MARAR ACA	01/10/2010
563	111429	MS. NEHA P. MALPANI ACA	01/10/2010
564	111473	MR. YOGESHKUMAR L. SINGHANIA FCA	01/10/2010
565	111517	MS. MALA GURBUX DOULATANI ACA	01/10/2009
566	111556	MR. ANISH J. JHAVERI FCA	01/10/2010
567	111573	MR. SHRIKANT DILIP KAWDE FCA	01/10/2010
568	111586	MR. CHIRAG JITENDRA SHAH ACA	01/10/2009
569	111635	MR. PRASAD PRABHAKAR BOKIL ACA	01/10/2009
570	111696	MR. ANILKUMAR J SHISHODIA ACA	01/10/2010
571	111769	MR. PRAVIN V. MUNDRA ACA	01/10/2009
572	111915	MR. AJAY JAGDISH WAGLE ACA	01/10/2010
573	111936	MR. JAGADISH B SHETTY FCA	01/10/2010
574	112017	MS. SANGEETA SUBRAMANIAN ACA	01/10/2010
575	112051	MS. DEEPA SHAM HASSARAJANI ACA	01/10/2010
576	112096	MRS. URMIL MILAP MASHRU FCA	01/10/2010
577	112131	MR. PARESH SURESH JAIN ACA	01/10/2010
578	112151	MR. PRASHANT P. GUNJAL ACA	01/10/2009
579	112241	MR. VIKAS S. CHATURVEDI FCA	01/10/2009
580	112335	MR. HITESH A. MADAN ACA	01/10/2009
581	112348	MR. NITIN SHIVA KARKERA FCA	01/10/2009
582	112373	MR. SUPAL JANAKBHAI SHAH ACA	01/10/2010
583	112385	MR. AVINASH PRAKASH GOEL ACA	01/10/2009
584	112406	MR. ASHWIN VELJIBHAI PATEL FCA	01/10/2010
585	112446	MR. AMIT DATTARAM KHEDEKAR ACA	01/10/2009
586	112449	MR. SHIVATANU I. BANERJEE ACA	01/10/2010
587	112473	MR. SUBHASH SADASHIV SHINDE FCA	01/10/2010
588	112514	MR. RUCHIR V. SHAH ACA	01/10/2010
589	112522	MRS. NAMRATA P. SOMANI ACA	01/10/2010
590	112562	MRS. VISHAKHA LALIT AHIR ACA	01/10/2010
591	112602	MS. DIKSHA M. SINGH DHILLON ACA	01/10/2010
592	112659	MRS. SHALINEE MANDHANA FCA	01/10/2010
593	112774	MR. RAJANISH S. SHARMA ACA	01/10/2010
594	112812	MR. KALPESH MAHENDRA SHAH ACA	01/10/2010
595	112837	MR. AMISH SHASHIKANT MEHTA ACA	01/10/2009
596	112914	MR. SHARAD SANKARAN ACA	01/10/2010
597	112963	MR. SACHIN SURESH AGRAWAL ACA	01/10/2010
598	113001	MR. VIMAL KUMAR TIWARI ACA	01/10/2010
599	113045	MRS. GEETA PATHIK DIVATE ACA	01/10/2010
600	113231	MR. PUSHPAK M. GANDHI ACA	01/10/2009
601	113245	MR. SAMEER BHARAT SHETH ACA	01/10/2010
602	113305	MR. SUNIL ARJUN NAGRANI ACA	01/10/2009
603	113307	MR. VISHAL R. MODI ACA	01/10/2009
604	113344	MS. RUCHA AJIT PURANIK ACA	01/10/2010
605	113358	MR. PATHIK PRADEEP DIVATE ACA	01/10/2010
606	113377	MR. HRISHIKESH V. PHADKE FCA	01/10/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
607	113413	MR. MEHULKUMAR C.L. PATEL FCA	01/10/2010
608	113424	MS. BEENA KANAK K. KOTHARI ACA	01/10/2010
609	113428	MR. BALACHANDRAN R. ACA	01/10/2010
610	113441	MR. SURESH DHANU JANKAR ACA	01/10/2010
611	113563	MRS. MITALI SHRINIVAS P. ACA	01/10/2010
612	113650	MR. DEVIDAS KRISHNA SHETTY ACA	01/10/2010
613	113698	MS. CHHAYA MANSUKHLAL VORA ACA	01/10/2010
614	113722	MR. PAWANKUMAR S. AGRAWAL ACA	01/10/2010
615	113737	MR. VENU GOPALRATHI ACA	01/10/2009
616	113835	MR. DINESH RAMESH K. MUTHA ACA	01/10/2010
617	113863	MR. SHISHIR AGARWAL ACA	01/10/2010
618	113972	MR. PREM RAJLADHA FCA	01/10/2010
619	114075	MRS. SHEETAL SANJAY KATIRA ACA	01/10/2010
620	114078	MR. FAUZAN FAROOQUE PATEL ACA	01/10/2010
621	114079	MR. ARVIND K. D. JOSHI FCA	01/10/2010
622	114123	MR. ARUN VISHNU BEDEKAR FCA	01/10/2010
623	114177	MR. VISHAL B. BHATNAGAR FCA	01/10/2009
624	114240	MRS. NEELAM ANAND SHAH ACA	01/10/2010
625	114310	MR. RAHUL S. TUNGATKAR ACA	01/10/2010
626	114462	MR. RAKESH PRALADHRAI PARIK FCA	01/10/2010
627	114508	MR. MANGESH UDESING YADAV FCA	01/10/2010
628	114594	MR. DEVANG DEVIDAS PATEL ACA	01/10/2010
629	114606	MR. ALPESH V. PATEL ACA	01/10/2009
630	114638	MR. OLIVER F. FERNANDES ACA	01/10/2010
631	114680	MR. JIGNESH VASUDEV JOSHI ACA	01/10/2010
632	114709	MR. ALWIN B. MAZHUVAANCHERRY ACA	01/10/2009
633	114734	MR. MEHUL MANSUKHLAL GANDHI ACA	01/10/2009
634	114760	MR. ABHINAV O. YADAVA FCA	01/10/2010
635	114897	MR. MANISH KANAKRAI GATHANI ACA	01/10/2009
636	114951	MRS. MONIKA ANAND LUNIA ACA	01/10/2009
637	114960	MRS. JALAN RITA SANJAYKUMAR ACA	01/10/2010
638	114964	MR. AMIT SUDHEER MULGUND ACA	01/10/2010
639	114982	MR. KAMAL O. SULTANIA ACA	01/10/2009
640	115044	MS. MAMTA G. SASHI SHAH ACA	01/10/2010
641	115263	MR. VIVEK S. MANJULABEN MARU ACA	01/10/2010
642	115307	MR. RONNIE FREDRICK QUADROS ACA	01/10/2009
643	115375	MR. VIVEK MAHADEO TORNEY ACA	01/10/2010
644	115376	MR. SANJAY B. KULKARNI ACA	01/10/2010
645	115377	MR. GAURAV JAIPRAKASH SADI FCA	01/10/2010
646	115378	MR. RAJESH JINDAL FCA	01/10/2010
647	115426	MR. RAJESH NAGESH REVANKAR ACA	01/10/2009
648	115447	MR. SAJAN SHIVAJI PATADE ACA	01/10/2010
649	115455	MS. MANJULA LALIT SHARDA ACA	01/10/2009
650	115481	MR. ANIL KUMAR HALWAI FCA	01/10/2009
651	115519	MRS. APARNA P. WAYDANDE ACA	01/10/2010
652	115538	MRS. RUCHI SHUKLA ACA	01/10/2010
653	115542	MR. PRASHANT B. MEHTA ACA	01/10/2010
654	115550	MS. PREETI SRIKUMAR NAIR ACA	01/10/2010
655	115602	MRS. POONAM ASHISH PATHAK ACA	01/10/2010
656	115663	MS. NITISHA DEEPAK THAKKAR FCA	01/10/2010
657	115676	MS. SHRUTHI RAGHUNATH ACA	01/10/2010
658	115680	MR. JEANGIR ADI MASTER ACA	01/10/2010
659	115732	MR. DHIREN MAHENDRA THAKKAR ACA	01/10/2009

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
660	115755	MS. JAGRUTI CHANDRAKANT JOSHI ACA	01/10/2010
661	115866	MR. ANIRUDDHA MILIND JOSHI ACA	01/10/2010
662	115905	MS. SWAPNA SUBHASH SHINDE ACA	01/10/2010
663	115908	MR. TEJ KUMAR RATHI ACA	01/10/2010
664	115955	MR. SAMEET YOGESH PAI ACA	01/10/2009
665	116036	MR. TARUN MEHTA ACA	01/10/2010
666	116061	MR. PRANAV SURESH SANGHANI ACA	01/10/2010
667	116088	MR. SACHIN RAMESH MUNDADA ACA	01/10/2010
668	116202	MR. GAUTAM KISHORE ASHA DESAI ACA	01/10/2010
669	116242	MR. MITESH KIRTIKUMAR SHAH ACA	01/10/2010
670	116273	MR. KAVIN DHIRENDRA SHAH ACA	01/10/2009
671	116314	MS. JUHI BHARGAVA ACA	01/10/2010
672	116349	MR. JIGER KISHOR SAIYA FCA	01/10/2010
673	116429	MS. MEGHNA R. B. PAURANA ACA	01/10/2010
674	116507	MR. JIGNESH KESHAVJI SAVLA FCA	01/10/2010
675	116567	MR. VENKITESWARAN S. ACA	01/10/2010
676	116610	MR. SHAILESH J.O. CHAUHAN ACA	01/10/2010
677	116661	MR. MRIDUL ASHOK BABERWAL ACA	01/10/2009
678	116681	MR. MUKESHKUMAR K. VORA FCA	01/10/2010
679	116702	MR. TUSHAR S. NAHAR ACA	01/10/2010
680	116706	MR. ABHINANDAN C. INGALWAR FCA	01/10/2010
681	116715	MS. MAMTA RATANSHI R. SHAH ACA	01/10/2010
682	116754	MRS. YUGANDHARA M. BODHE ACA	01/10/2010
683	116756	MR. RAJIT DNYANCHAND JAIN ACA	01/10/2009
684	116763	MR. JAYSHEEL K. VACHHRAJANI ACA	01/10/2010
685	116795	MR. DARSHIT K. TANNA ACA	01/10/2010
686	116810	MS. PURVI KIRANKUMAR BANKER ACA	01/10/2010
687	116872	MR. AVINASH GAJANAN BHALA FCA	01/10/2010
688	116897	MR. SANDEEP GUPTA FCA	01/10/2010
689	116932	MR. MILIND N. AGRAWAL ACA	01/10/2010
690	117083	MR. SAMEER NAZIR SHAIKH ACA	01/10/2010
691	117108	MS. UMA VISHWANATHAN IYER ACA	01/10/2010
692	117239	MRS. VAISHALI JAYANT FALKE ACA	01/10/2010
693	117241	MR. NIMESHKUMAR H. PATEL ACA	01/10/2010
694	117246	MS. DEEPA R. SHAH ACA	01/10/2010
695	117287	MR. TEJAS RAMDASBHAI SONI ACA	01/10/2010
696	117377	MR. VAIBHAV H. HARSHA SHAH ACA	01/10/2010
697	117415	MR. DEEPAK TALAKSHI CHHEDA FCA	01/10/2010
698	117448	MR. ROHIT VIBHAKAR KHARE ACA	01/10/2010
699	117467	MR. RAHUL RAVINDRA RAJ MEHTA ACA	01/10/2010
700	117475	MR. PRAKASH V. LABADIYA FCA	01/10/2010
701	117497	MS. RADHA S. R. JAMBAYDEKAR ACA	01/10/2010
702	117510	MRS. KHYATI MEETUL SHAH ACA	01/10/2010
703	117518	MS. VIDULA M. SAWLAPURKAR ACA	01/10/2009
704	117557	MS. REKHA RANGANATHAN ACA	01/10/2010
705	117572	MR. JIGESH I. PANCHAL ACA	01/10/2009
706	117573	MR. JAYESH DATTARAM KADAM ACA	01/10/2010
707	117613	MR. YOGESH NANJUNDA PISE ACA	01/10/2010
708	117614	MR. ANAND DWARKADAS SABU ACA	01/10/2010
709	117625	MR. AMOD DINKAR BHATE FCA	01/10/2010
710	117713	MR. MANDAR Y. ATHALYE ACA	01/10/2010
711	117717	MS. PUSHPA N. SINGH BISHT ACA	01/10/2010
712	117728	MRS. MONA ROHIT PODDAR ACA	01/10/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
713	117752	MR. JITENDRA SHANTILAL JAIN ACA	01/10/2010
714	117762	MR. VIKAS KUMAR AGARWAL ACA	01/10/2010
715	117771	MS. PRIYA HARIDASAN ACA	01/10/2010
716	117825	MR. JAIRAM K. PURSWANI ACA	01/10/2010
717	117841	MRS. MAMTA NITIN SETHI ACA	01/10/2010
718	117858	MR. NARESH B. PRASAD LAHOTI ACA	01/10/2009
719	117870	MR. MANISH SOMANI ACA	01/10/2009
720	117895	MR. TARAK N. M. MEHTA ACA	01/10/2010
721	117929	MS. POORVA J. S. DIWEKAR ACA	01/10/2009
722	117985	MRS. MANASWINI M. KULKARNI ACA	01/10/2010
723	118075	MR. YOGESH K. PANCHAKSHARI ACA	01/10/2010
724	118084	MS. DIPTI PRABHAT SINGH ACA	01/10/2010
725	118145	MS. NAMRATA VINAYAK PADWAL ACA	01/10/2010
726	118155	MR. JITENDRA K. O. SHARMA ACA	01/10/2010
727	118160	MS. RUPALI K. VAGAL. ACA	01/10/2009
728	118173	MRS. NIKITA D. MULCHANDANI ACA	01/10/2010
729	118192	MR. TUSHAR M. PATWA ACA	01/10/2009
730	118264	MR. NEERAJ A. GANGWANI FCA	01/10/2010
731	118269	MRS. NAZIN K MAKUJINA ACA	01/10/2010
732	118292	MR. UMESH SHAMRAO BHOSALE FCA	01/10/2010
733	118320	MR. SANTOSH K. H. KANDEKAR ACA	01/10/2010
734	118463	MS. APARNA K. PITTIE ACA	01/10/2010
735	118473	MR. SHAILESH J. DAHAKE FCA	01/10/2010
736	118494	MR. DHEERAJ RAMESH KOCHAR FCA	01/10/2010
737	118545	MR. ASHISH S. MALPANI FCA	01/10/2010
738	118564	MS. LOPA SHANTILAL SUTHAR ACA	01/10/2010
739	118572	MR. KRUSHNAKUMAR K. PATEL ACA	01/10/2010
740	118579	MR. SANDEEP MOTILAL SHAH ACA	01/10/2009
741	118579	MR. SANDEEP MOTILAL SHAH ACA	01/10/2010
742	118611	MR. SAMEER B. VAGERIYA FCA	01/10/2010
743	118647	MR. MEETUL MAHENDRA SHAH ACA	01/10/2010
744	118652	MR. KISHOR S. PUNYANI FCA	01/10/2010
745	118772	MR. HEMANSHU J. KAMDAR FCA	01/10/2010
746	118779	MR. SHASHIKUMAR R. GUPTA ACA	01/10/2009
747	118831	MR. NAVTEJ R. V. THAKKAR ACA	01/10/2010
748	118852	MR. MUKESHKUMAR D. BHAGAT ACA	01/10/2010
749	118867	MRS. PRACHI N. JATEGAONKAR ACA	01/10/2010
750	118913	MR. KARTHIKEYAN P. YOGISHWAR ACA	01/10/2010
751	118928	MR. AMIT KASAT ACA	01/10/2010
752	119051	MR. SWAPNIL SURESH PATNI FCA	01/10/2010
753	119192	MRS. DEEPTI TUSHAR MASURKAR ACA	01/10/2010
754	119264	MRS. SHILPA PRAKASH RANE ACA	01/10/2010
755	119268	MR. GOKUL VARADARAJAN ACA	01/10/2010
756	119272	MR. ARUN KUMAR ACA	01/10/2010
757	119315	MR. ABHISHEK ARVIND MISTRY ACA	01/10/2009
758	119364	MR. NILESH SUBHASH BRAMHECHA ACA	01/10/2010
759	119450	MS. NANDITA K. RAUTELA ACA	01/10/2010
760	119483	MR. YOGESH S. VISAPURKAR FCA	01/10/2010
761	119563	MR. MATULYA N. SHAH ACA	01/10/2010
762	119608	MR. YOGESH BABURAO PANCHAL ACA	01/10/2010
763	119623	MS. ANURADHA SADASIVAN FCA	01/10/2010
764	119752	MR. MOHAMMED M. MAHUDHAWALA FCA	01/10/2010
765	119819	MR. VINAY KUMAR I. PATEL ACA	01/10/2009

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
766	119884	MR. SIDDHARTH S. BACHHAWAT ACA	01/10/2010
767	119885	MR. NIRAV ARVIND MORAKHIA ACA	01/10/2010
768	119904	MS. CHAITALI G. NANOSKAR ACA	01/10/2010
769	119978	MR. SAPAN ANIL SANGHANI ACA	01/10/2010
770	120017	MR. VINAYKUMAR R. TRIPATHI ACA	01/10/2009
771	120043	MR. PREETAM PRAKASH KOCHAR ACA	01/10/2010
772	120078	MR. KASHYAP P. D SOLANKI ACA	01/10/2010
773	120092	MR. ASHISH SURESH SHAH ACA	01/10/2010
774	120105	MR. PRAVIN PRABHAKARAN N. ACA	01/10/2010
775	120138	MR. MADHU SUDAN BIRLA ACA	01/10/2010
776	120173	MS. SHARMILA M. BHANDARI ACA	01/10/2009
777	120173	MS. SHARMILA M. BHANDARI ACA	01/10/2010
778	120177	MR. PRAVINBHAI L. PRAJAPATI ACA	01/10/2010
779	120195	MRS. DIPIKA DEWANG PATEL ACA	01/10/2010
780	120289	MS. RUCHI G. SASHI SHAH ACA	01/10/2010
781	120312	MR. AVINASH D. MAHULKAR ACA	01/10/2010
782	120365	MR. KUNAL BABULAL LAKHARA ACA	01/10/2010
783	120389	MR. KETAN DHIRUBHAI SAVALIA ACA	01/10/2010
784	120416	MR. K R KESAVAN ACA	01/10/2010
785	120463	MR. GUNAVANT M. BAMBHANIYA ACA	01/10/2010
786	120480	MR. HITEN ASHOKKUMAR PATEL ACA	01/10/2009
787	120586	MR. ADITYA MORESHWAR APTE ACA	01/10/2010
788	120641	MS. GULSHAN JAL GARGA ACA	01/10/2009
789	120656	MS. SHAMS TAJDIN N. BUDHWANI ACA	01/10/2010
790	120678	MRS. ARUNA CHETAN BHATT ACA	01/10/2009
791	120678	MRS. ARUNA CHETAN BHATT ACA	01/10/2010
792	120695	MR. NAVIN DILIPKUMAR JAIN ACA	01/10/2010
793	120731	MR. VINAY KUMBHAT FCA	01/10/2010
794	120756	MR. ANIL KUMAR PORWAL ACA	01/10/2010
795	120782	MRS. TRIPTI DHEERAJ KOCHAR FCA	01/10/2010
796	120843	MR. DEEP PAWANKUMAR JAGGI ACA	01/10/2010
797	120845	MR. AMIT P. KATARIA ACA	01/10/2010
798	120850	MRS. RHUTA VINAY WEKHANDE ACA	01/10/2010
799	120854	MR. MANOJ PUNDALIK BHAT ACA	01/10/2010
800	120882	MRS. GEETA RAJIVKUMAR SHUKLA ACA	01/10/2009
801	120929	MR. PRITESH A. GANDHI ACA	01/10/2010
802	120999	MRS. SHANTHI KRISHNAN ACA	01/10/2010
803	121107	MS. MADHANGI M ACA	01/10/2010
804	121154	MR. BHAVIN PRAHLADBHAI PATEL ACA	01/10/2010
805	121166	MR. SUNIL MURLI KAKANI ACA	01/10/2009
806	121219	MR. AVISH KAILASH AGRAWAL ACA	01/10/2010
807	121236	MS. SUMANA K. CHAKRAVARTY ACA	01/10/2009
808	121322	MS. BAKUL PAWAN CHUGAN ACA	01/10/2010
809	121349	MR. DEEPAK MAHESH AGARWAL ACA	01/10/2010
810	121539	MR. NIRLON PARESHKUMAR DAVE ACA	01/10/2009
811	121582	MR. RAMANUJAM SRINIVASAN ACA	01/10/2010
812	121632	MR. GUNJAN KUMAR MUNDRA ACA	01/10/2010
813	121743	MR. SHIKHAR AGRAWAL FCA	01/10/2010
814	121783	MRS. SAVITA SOURABH MANTRI ACA	01/10/2010
815	121800	MR. ANAND S. MODANI ACA	01/10/2010
816	121830	MR. SANJAY SANKARAN NAIR ACA	01/10/2010
817	121854	MR. DINESH BABURAO CHIVILKAR ACA	01/10/2010
818	121918	MS. MRUNAL RAMAKANT A. GUDAL ACA	01/10/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
819	121979	MS. MEGHA DINESH D. PANDYA ACA	01/10/2010
820	121982	MR. MOHIT GAJANAN BHALA FCA	01/10/2010
821	121991	MR. SANTOSHKUMAR V. VERMA ACA	01/10/2010
822	122028	MR. DEEPAK L. AGARWAL ACA	01/10/2010
823	122063	MR. NITIN PESHURAM HARWANI ACA	01/10/2009
824	122067	MR. RAVIRAGHAV N. CHHAWCHHARIA ACA	01/10/2010
825	122098	MR. CHINMAY ARVIND JOSHI FCA	01/10/2010
826	122104	MRS. HEENA RUSHIT DAVE ACA	01/10/2010
827	122111	MRS. SWETA KAUSHAL GANDHI ACA	01/10/2010
828	122143	MR. JITENDRA K. AGRAWAL ACA	01/10/2009
829	122151	MS. REKHA S. K. S. TIBREWALA ACA	01/10/2010
830	122180	MR. MAHAVIR INDERCHAND PATNI FCA	01/10/2010
831	122211	MR. SOMESH ATREY ACA	01/10/2010
832	122305	MR. MANOJ H. MAKWANA FCA	01/10/2010
833	122370	MR. MAYUR GAUTAM SANCHETI ACA	01/10/2010
834	122374	MS. VINITA KRISHNAN ACA	01/10/2010
835	122397	MR. CHIRAG K. THAKKAR ACA	01/10/2010
836	122437	MR. HIMANSHU D. TANNA ACA	01/10/2010
837	122446	MR. DHIRAJ CHANDRAKANT JOSHI ACA	01/10/2010
838	122543	MS. POONAM KALYANRAO PATIL ACA	01/10/2010
839	122549	MR. NIRAJ S. GONPALLIWAR ACA	1/10/2010
840	122595	MR. MOIZ A. R. LAKKEDGHATWALA ACA	01/10/2010
841	122609	MR. VIPUL VASANTBHAI DATTANI FCA	01/10/2010
842	122628	MR. VIKAS PANSARI ACA	01/10/2008
843	122669	MR. DEEPAK DINDAYAL FOGLA ACA	01/10/2010
844	122711	MR. ANKIT MAHESHBHAI TALSANIA ACA	01/10/2010
845	122769	MR. SAKET MADAN GODBOLE ACA	01/10/2010
846	122776	MR. KANHAIYA MANHARLAL SHETH ACA	01/10/2010
847	122818	MS. NAMARITA S. RITA DESAI ACA	01/10/2010
848	122846	MS. KAVITA SUNDAR SHETTY ACA	01/10/2010
849	122865	MR. ASHOK VITTAL KUNDER ACA	01/10/2009
850	122997	MS. BHAIKVI MAHESH LOTIA ACA	01/10/2009
851	123055	MR. CHIRAGKUMAR H. ATARA ACA	01/10/2010
852	123070	MR. PRAVIR KUMAR ROY ACA	01/10/2010
853	123085	MS. PRAJAKTA ARUN JAGDALE ACA	01/10/2010
854	123092	MR. ANUP M. S. CHAURASIA ACA	01/10/2010
855	123150	MRS. ANNAPOORNI R. HEBBAR ACA	01/10/2010
856	123169	MR. VIJAY G ACA	01/10/2010
857	123187	MR. DEEPAK RAJ IYER ACA	01/10/2009
858	123197	MR. CHAITANYA S. MAHAJAN FCA	01/10/2010
859	123240	MS. SHEETAL S. K. GUPTA ACA	01/10/2010
860	123260	MR. SHAHIDALI S. R. SYED ACA	01/10/2009
861	123291	MR. VIPIN S. K. SHARMA ACA	01/10/2010
862	123323	MR. SANTOSH M. GOGAVE ACA	01/10/2010
863	123429	MR. ABHISHEK MEHTA ACA	01/10/2009
864	123478	MRS. RASHMI VISHAL SHAH ACA	01/10/2010
865	123487	MR. ARUN SRIDHARAN ACA	01/10/2010
866	123489	MR. DEEPAK D. JAIN ACA	01/10/2010
867	123505	MS. RATNAVATI R. DEVADIGA ACA	01/10/2010
868	123568	MR. K A RAMANA K S R ANJANEYULU K A M TAYARU ACA	01/10/2009
869	123674	MR. KAUSHAL K DOSHI ACA	01/10/2010
870	123690	MS. SUNITA M. L. DASONI ACA	01/10/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
871	123738	MR. VINEET A. S. HERWADKAR ACA	01/10/2009
872	123773	MRS. BHAVANA FERNANDES ACA	01/10/2010
873	123811	MS. NAZIA IQBAL AHMED SHAIKH ACA	01/10/2009
874	123865	MR. SUJIT ANIL MAGIA ACA	01/10/2009
875	123875	MR. ANUSHKUMAR SHIVARAMAN ACA	01/10/2010
876	123890	MR. AMIT JAYENDRA SHETH FCA	01/10/2010
877	123905	MR. ANUJ JAIN ACA	01/10/2010
878	123929	MS. KARUNA L. K. BHATIA ACA	01/10/2009
879	123942	MR. AMAR SEVANTILAL SANGHVI FCA	01/10/2010
880	123943	MS. DIVYA ANIL GULATI ACA	01/10/2010
881	124064	MR. RAJKUMAR S. JAISWAL ACA	01/10/2010
882	124116	MR. KAPIL M. PAREKH ACA	01/10/2009
883	124181	MS. PALAV SURESH RENUKA SHAH ACA	01/10/2010
884	124257	MS. URVI R. SHAH ACA	01/10/2010
885	124325	MR. NISHITKUMAR P. JOSHI ACA	01/10/2010
886	124360	MS. ASHWINI A. A. LATURKAR ACA	01/10/2010
887	124369	MR. DHARMESH K. MAKWANA ACA	01/10/2010
888	124378	MR. HARSHAD S. AARADHI FCA	01/10/2010
889	124396	MS. LEENA JAISING SHRUNGARE ACA	01/10/2009
890	124436	MR. VIVEK MAHESH KOTHARI ACA	01/10/2010
891	124525	MR. PRAVIN ANAND N. B. ACA	01/10/2010
892	124546	MR. PRAVIN BABU KAMAT ACA	01/10/2009
893	124561	MR. MAYANK GOPAL SAINI ACA	01/10/2010
894	124643	MS. SWATI SUDHIR PHADKE ACA	01/10/2010
895	124651	MR. HIMANSHU AGARWAL ACA	01/10/2010
896	124656	MR. ABHIJIT BHALCHANDRA JOSHI ACA	01/10/2010
897	124736	MS. SNEHA JAYANTI M. RAISONI ACA	01/10/2010
898	124808	MR. SAMEER NARAYAN MOGAL ACA	01/10/2010
899	124814	MS. ADITI VIJAY KAMAT ACA	01/10/2010
900	124828	MR. RAJESH LAXMICHAND PASAD ACA	01/10/2009
901	124925	MR. SUJIT SUNIL PRADHAN ACA	01/10/2010
902	124927	MR. RAKESH RAMCHANDRA RANE ACA	01/10/2010
903	125010	MR. NAVINKUMAR A. N. BANGERA ACA	01/10/2010
904	125041	MR. MAHESH G. MAKHLJANI ACA	01/10/2010
905	125071	MRS. KINJAL VIVEK KOTHARI ACA	01/10/2010
906	125092	MRS. NEELMA VAIBHAV JOSHI ACA	01/10/2009
907	125146	MR. VISHAL ASHOK GAJWANI ACA	01/10/2009
908	125156	MS. APARNA ASHOK MORE ACA	01/10/2010
909	125183	MR. NABENDU PODDAR ACA	01/10/2010
910	125184	MR. CYRUS BOMI DADACHANJI ACA	01/10/2010
911	125190	MR. NITIN GORDHANDAS MUKHI ACA	01/10/2010
912	125261	MRS. GEETA JINESH MOTA ACA	01/10/2010
913	125273	MR. KUNAL S. S. SARAF ACA	01/10/2010
914	125281	MR. HARDIK MAHESH UPADHYAY ACA	01/10/2010
915	125304	MR. GAURAV B. AMRUTTIYA ACA	01/10/2010
916	125352	MR. NIMESH P. PANDYA ACA	01/10/2010
917	125477	MR. PRITESH AVINASH ADHIKARI ACA	01/10/2010
918	125523	MR. ASHISH SURESH ASHA VAIDYA ACA	01/10/2010
919	125717	MR. ROHIT CHANDRAKANT TIKEKAR ACA	01/10/2009
920	125771	MRS. YOJANA C. DUBEY ACA	01/10/2010
921	125836	MR. MAULIK P. SHAH ACA	01/10/2009
922	125967	MR. VIJAY HIRJIBHAI DEDHIA ACA	01/10/2010
923	125973	MR. AMEY RAJEEV DHERE ACA	01/10/2010



S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
924	125992	MR. PRANAV P. D. CHHEDA ACA	01/10/2010
925	126015	MS. PARINDA T. SHAREDALAL ACA	01/10/2010
926	126034	MR. NACHIKET M. VASANTGADKAR ACA	01/10/2010
927	126115	MS. KAMLESH KOTHARI ACA	01/10/2010
928	126179	MR. SIDDHARTH A. S. RAUT ACA	01/10/2010
929	126388	MR. PRADEEP M. KAMATHE ACA	01/10/2010
930	126489	MR. ANIL ASHOK KHATRI ACA	01/10/2009
931	126550	MR. KAPIL RAMESHLAL VAJIRANI ACA	01/10/2010
932	126561	MS. AMRAPALI G. KULKARNI ACA	01/10/2010
933	126593	MR. TEJAS AJIT DALVI ACA	01/10/2010
934	126623	MR. GULZAR IQBALBHAI AJMERI ACA	01/10/2009
935	126730	MS. KEJAL SURESH RENUKA SHAH ACA	01/10/2010
936	126765	MRS. SANGEETA S. BHALERAO ACA	01/10/2010
937	126824	MRS. LEENA AMIRKUMAR SAMANT ACA	01/10/2010
938	126872	MR. B. S. SHARDA IYER ACA	01/10/2010
939	126881	MR. BIREN FULCHANDBHAI SHAH ACA	01/10/2010
940	126980	MR. AMARSINGH J. VARMA ACA	01/10/2010
941	126984	MR. AMIT ALBAN R. MERIPO ACA	01/10/2010
942	126992	MRS. SWETA SUMIT JAIN ACA	01/10/2010
943	127062	MR. GIRISH HIRACHAND JAIN ACA	01/10/2010
944	127272	MR. SANTOSH G. SHIGWAN ACA	01/10/2009
945	127272	MR. SANTOSH G. SHIGWAN ACA	01/10/2010
946	127283	MS. NUTAN MANOHAR SOPARKAR ACA	01/10/2010
947	127285	MR. RAHUL DILIP SHAH ACA	01/10/2009
948	127373	MS. VIDYA KRISHNAN ACA	01/10/2009
949	127373	MS. VIDYA KRISHNAN ACA	01/10/2010
950	127389	MRS. DEEPA JAIN ACA	01/10/2010
951	127442	MRS. MONIKA SENGUPTA ACA	01/10/2010
952	127452	MS. MAYURA M. M. RANE ACA	01/10/2010
953	127486	MR. SHAILESH K. H. N RATHOD ACA	01/10/2009
954	127543	MR. SUBODH VIJAY KARNIK ACA	01/10/2010
955	127654	MR. JAYESH BAVANJBHAI DHANEJA ACA	01/10/2010
956	127723	MR. FAIZ AZIZ AHMED ACA	01/10/2010
957	127750	MR. MILIND VITHALDAS RAJANI ACA	01/10/2010
958	127764	MR. APPA-MALHARI SHINDE ACA	01/10/2010
959	127795	MR. KRUTESH CHANDRAKANT GOPANI ACA	01/10/2010
960	127835	MS. ANJALI VASUDEO GEETA BHOSLE ACA	01/10/2009
961	127871	MS. PUJA RAMESH HEMDEV ACA	01/10/2010
962	127878	MR. GHANSHYAM BAHETI ACA	01/10/2010
963	127911	MS. ASHA N R VAIDYANATHAN PADMA ACA	01/10/2010
964	127930	MR. HEMAL BALVANTBHAI PADIA ACA	01/10/2010
965	127966	MR. JIGNESH JITENDRA HEMANI ACA	01/10/2010
966	128001	MS. KHUSHBU S.R. CHHAUCHHARIA ACA	01/10/2010
967	128024	MS. NITA VIRAMBHAI SHAH ACA	01/10/2010
968	128032	MRS. PRIYA AMIT SHETE ACA	01/10/2010
969	128079	MS. YASHODHARA B. BARHATE ACA	01/10/2009
970	128114	MR. VIKRANT SHIVAJIRAO SALUNKE ACA	01/10/2010
971	128119	MR. MANISHKUMAR D. SALVI ACA	01/10/2010
972	128164	MS. VIDYA JANKIRAMAN ACA	01/10/2009
973	128184	MR. ANUPUM KUMAR AGRAWAL ACA	01/10/2010
974	128213	MR. MOHIT JAIN ACA	01/10/2009
975	128236	MR. ALEXANDER GONSALE TUSCANO ACA	01/10/2010
976	128250	MS. MERCY JOSEPH ACA	01/10/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
977	128266	MS. MUKTI RASHMIBHAI SHAH ACA	01/10/2009
978	128272	MR. PRADEEP GARG ACA	01/10/2010
979	128281	MS. SHWETA M. SHAH ACA	01/10/2009
980	128284	MR. MUKESH KUMAR LAHOTI ACA	01/10/2010
981	128319	MR. CHERIAN A. VARIKALATHIL ACA	01/10/2010
982	128320	MR. HANSEL CYRIL FONSECA ACA	01/10/2009
983	128352	MR. UMESH V. S. ACA	01/10/2010
984	128362	MR. PRANAB CHANDRA DASH ACA	01/10/2009
985	128394	MS. VRUSHALI B. J. KARAMBELKAR ACA	01/10/2010
986	128423	MR. PARAS MAHENDRA SHAH ACA	01/10/2010
987	128427	MS. PRIYANKA MAHAVIR PATNI ACA	01/10/2010
988	128482	MR. JITENDRA KUMAR ACA	01/10/2010
989	128494	MS. SHANTHILAKSHMI R.MUDALIAR ACA	01/10/2010
990	128524	MS. PRAJAKTA S.PARANJPE ACA	01/10/2010
991	128527	MS. KAMINI INDERCHAND JAIN ACA	01/10/2010
992	128636	MR. KISHAN R. MADHANI ACA	01/10/2010
993	128660	MR. VILASRAO SHIVRAM KHATALE ACA	01/10/2010
994	128685	MS. POOJA H CHANDWANI ACA	01/10/2010
995	128766	MR. NITIN SUBHASH MAHAJAN ACA	01/10/2010
996	128768	MR. PRASHANT R. SHARMA ACA	01/10/2010
997	128796	MR. UMESH G. DHARMARAYA ACA	01/10/2010
998	128819	MR. JAIMIN AMUL GANDHI ACA	01/10/2010
999	128902	MRS. SAYALI RAJESH THAKUR ACA	01/10/2010
1000	128933	MR. KEYUR ARUNBHAI HINDOCHA ACA	01/10/2009
1001	128961	MRS. MONICA SANJAY LODHA ACA	01/10/2010
1002	128965	MR. RITESH BHARATBHAI PATEL ACA	01/10/2010
1003	129024	MS. URMI PRADIP PANDYA ACA	01/10/2010
1004	129055	MR. AMIT MOHAN TANPURE ACA	01/10/2010
1005	129094	MR. KISHOR MANSUKHLAL LODHA ACA	01/10/2010
1006	129122	MR. MAHESH A. S. SHARMA ACA	01/10/2009
1007	129164	MR. HARESH J. BHATREJA ACA	01/10/2010
1008	129175	MR. NANGSI BHIKHABHAI SAKHARA ACA	01/10/2010
1009	129184	MR. RAVIKANT HRIDAYNARAYAN DUBE ACA	01/10/2009
1010	129348	MR. VINAY SANTOSH SOMANI ACA	01/10/2009
1011	129352	MR. JAY JAGDEEP MANKAD ACA	01/10/2010
1012	129373	MRS. MANYA HARI DUDANI ACA	01/10/2010
1013	129384	MR. NAKUL BALKRISHNA KSHIRSAGAR ACA	01/10/2010
1014	129441	MS. APARNA RATNAKAR PRABHU ACA	01/10/2010
1015	129451	MR. VIKAS AGGARWAL ACA	01/10/2009
1016	129453	MR. MANOJ YASHAVANT SANAS ACA	01/10/2010
1017	129519	MR. MD ARIF J.I.AHMED MOMIN ACA	01/10/2010
1018	129525	MRS. DIPTI JAGDISH SHETTY ACA	01/10/2009
1019	129527	MR. ROOPAK SWAMINATHAN ACA	01/10/2010
1020	129550	MR. KUSHAL VIJAY SUSHAM GARGE ACA	01/10/2010
1021	129583	MR. DHIRAJ KASHYAP ACA	01/10/2009
1022	129593	MR. RAKESH AGARWAL ACA	01/10/2010
1023	129594	MR. MARIO ROSARIO OLIVEIRA ACA	01/10/2010
1024	129634	MR. SHRIKANT VASANTRAO JADHAV ACA	01/10/2010
1025	129659	MS. SUREKHA VISHNU MAHADIK ACA	01/10/2010
1026	129660	MS. SHWETA SHIVAJI SATAM ACA	01/10/2010
1027	129725	MR. KETAN JETHALAL MARU ACA	01/10/2010
1028	129750	MR. SANTOSH SUBHASHRAO INGLE ACA	01/10/2010
1029	129773	MR. ASHISH RANKA ACA	01/10/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
1030	129830	MR. MANISH KUMAR GOYAL ACA	01/10/2010
1031	129884	MS. KAVITA RAJNARIAN PATHAK ACA	01/10/2009
1032	129908	MR. RITESH BIPINCHANDRA TRIVEDI ACA	01/10/2009
1033	129987	MR. NILESH GOPAL BHAI VYAS ACA	01/10/2010
1034	130007	MR. SANJAY KOKATE ACA	01/10/2009
1035	130018	MS. KHYATI RAJENDRABHAI BHATT ACA	01/10/2010
1036	130037	MR. NARENDRA C. JOSHI ACA	01/10/2010
1037	130058	MS. DEEPA PRAKASH RAO ACA	01/10/2009
1038	130146	MS. SONIYA NANDKISHORE JAISWAL ACA	01/10/2010
1039	130154	MR. RUPAM BARDIA ACA	01/10/2010
1040	130158	MRS. JYOTHI GAJANAN PATIL ACA	01/10/2010
1041	130256	MS. DIMPLE VASHU ASWANI ACA	01/10/2010
1042	130270	MR. VISHAL CHANDULAL ADHIYA ACA	01/10/2010
1043	130337	MR. JITESH JANENDRA BHANOT ACA	01/10/2010
1044	130361	MR. PRIYAM PARAGBHAI SHAH ACA	01/10/2010
1045	130378	MR. SUJIT HEMAKANT THAKAR ACA	01/10/2010
1046	130390	MR. MAHESH H. BANDRE ACA	01/10/2010
1047	130424	MR. KAILASH BAHETI ACA	01/10/2010
1048	130428	MS. SHRADDHA RAVINDRA DESAI ACA	01/10/2010
1049	130440	MR. DARSHAN G. INDIRA PRABHU ACA	01/10/2010
1050	130445	MRS. RUCHITA AGARWAL ACA	01/10/2010
1051	130457	MS. SHWETA SAREEN ACA	01/10/2010
1052	130534	MS. BIJAL JASHVANT GANDHI ACA	01/10/2010
1053	130535	MR. ARPAN HEMANTKUMAR DODIA ACA	01/10/2010
1054	130610	MS. RINKU RATANCHAND MERVA ACA	01/10/2010
1055	130690	MS. SWATI BHIVRAO KANSE ACA	01/10/2010
1056	130694	MR. ANKUR BHANJI KESAR NISHAR ACA	01/10/2010
1057	130706	MR. ADITYA N. CHHAWCHHARIA ACA	01/10/2010
1058	130726	MR. LOKESH JALAMCHAND JAIN ACA	01/10/2010
1059	130832	MS. SEEMA BHANUDAS SHIKERKAR ACA	01/10/2010
1060	130839	MR. MONSHI M. JAYA DEDHIA ACA	01/10/2010
1061	130844	MR. SANKET RAVIKANT SHET ACA	01/10/2010
1062	130854	MS. AARTI RAMESH RAMSINGHANI ACA	01/10/2010
1063	130894	MR. ZULFIKAR M. TRIVEDI ACA	01/10/2010
1064	130896	MS. PRERANA G. SALASKAR ACA	01/10/2010
1065	130917	MR. ADITYA S. RAVIKUMAR ACA	01/10/2009
1066	130925	MR. ADITYA SRINIVAS HEBBAR ACA	01/10/2010
1067	130956	MR. AFZAL HARUNBHAI MALKANI ACA	01/10/2010
1068	130961	MR. ANIL KUMAR DROLIA ACA	01/10/2010
1069	130966	MR. SUNIL MADANLAL SACHDEV ACA	01/10/2010
1070	130968	MS. ASHKA SURESH DAVE ACA	01/10/2010
1071	130975	MR. PRAKASH SHYAMLAL SHARMA ACA	01/10/2010
1072	131075	MR. MAHESH K GAUR ACA	01/10/2010
1073	131089	MR. VAIBHAV SUBHASH AGRAWAL ACA	01/10/2010
1074	131118	MS. ANURADHA RAMESH AGRAWAL ACA	01/10/2010
1075	131120	MR. RAKESH JAYARAM S. SHETTY ACA	01/10/2010
1076	131186	MR. SARANG SUDHIR GUDHATE ACA	01/10/2010
1077	131213	MRS. RUCHI SUDHIR JEJURKAR ACA	01/10/2009
1078	131228	MR. CHAITANYA D. SUCHITA JOSHI ACA	01/10/2010
1079	131230	MR. ABHISHEK ANAND APTE ACA	01/10/2010
1080	131246	MR. HITESH SHIVMUNDIYAL SHARMA ACA	01/10/2010
1081	131278	MR. SHALIN ATULKUMAR PARIKH ACA	01/10/2010
1082	131287	MR. VINAY GOPINATH BENDKE ACA	01/10/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
1083	131289	MR. ASHISH JAIN ACA	01/10/2010
1084	131341	MR. GAURAV DILEEP PHADNIS ACA	01/10/2010
1085	131369	MS. DAINI THOMAS ACA	01/10/2010
1086	131404	MR. RAJESH UMAKANT AMETA ACA	01/10/2010
1087	131433	MR. SAURABH RAJGOPAL KARWA ACA	01/10/2010
1088	131458	MR. SUSHIL NARENDRANATH THAKER ACA	01/10/2010
1089	131486	MS. SAYALI H. CHANDALIYA ACA	01/10/2010
1090	131493	MR. SHAHURAJ G. SOMWANSHI ACA	01/10/2010
1091	131515	MR. AMAR NAMDEO PAWAR ACA	01/10/2010
1092	131573	MRS. PRADNYA SACHIN SHAH ACA	01/10/2010
1093	131591	MR. RABINDRA KUMAR JAISWAL ACA	01/10/2010
1094	131627	MS. MEENAKSHI B. SHINDE ACA	01/10/2010
1095	131677	MR. MAHESH MANILALBHAI LIMBANI ACA	01/10/2010
1096	131690	MRS. POOJA ASHISH SHELKE ACA	01/10/2010
1097	131695	MR. SACHIN VIKRAMRAO GHAYAL ACA	01/10/2010
1098	131820	MR. KUMAR NEMICHAND PHULFAGAR ACA	01/10/2010
1099	131847	MS. ARCHI DINESH MEENA PARIKH ACA	01/10/2010
1100	131979	MS. KANNAGI KALYANASUNDARAM ACA	01/10/2010
1101	132014	MS. POONAM ANILKUMAR GUPTA ACA	01/10/2010
1102	132053	MR. MAHESH SURESH JAMDAR ACA	01/10/2010
1103	132124	MR. HETANG RAJENDRA SHAH ACA	01/10/2010
1104	132131	MR. SHASHANK M. SHUKLA ACA	01/10/2010
1105	132146	MS. ADITI KULBHUSHAN SINGHAL ACA	01/10/2010
1106	132148	MS. SNEHBALA GOPAL BIYANI ACA	01/10/2010
1107	132220	MS. SINDHU RADHAKRISHNAN ACA	01/10/2010
1108	132248	MR. HITENDRA GHELBHAI DAGRA ACA	01/10/2010
1109	132294	MR. PANKAJ RATHI ACA	01/10/2010
1110	132362	MR. NIMESH JAYANT GEETA SACHDE ACA	01/10/2010
1111	132412	MR. KAPIL ARVIND PAPADE ACA	01/10/2010
1112	132451	MR. RAMESH KUMAR R. DADHICH ACA	01/10/2009
1113	132459	MR. VINOD KUMAR G. CHANDWANI ACA	01/10/2010
1114	132821	MR. DAYAKAR SHAMBHU SHETTY ACA	01/10/2010
1115	133043	MRS. SURBHI SUMIT SARDA ACA	01/10/2010
1116	133057	MR. SANJAY DEMAN GHOLAP ACA	01/10/2010
1117	133235	MR. ROBIN KUMAR GUPTA ACA	01/10/2010
1118	133266	MR. VRUSHANG BHARAT SHETH ACA	01/10/2010
1119	133269	MS. RINA PRABHUDAS LAL ACA	01/10/2010
1120	133301	MR. SUMIT KUMAR LODHA ACA	01/10/2010
1121	133364	MRS. NISHA KALPESH SHAH ACA	01/10/2010
1122	133386	MS. RICHA SURINDER CHAUDHARY ACA	01/10/2010
1123	133434	MR. BHAYDEEP BHIKHALAL VORA ACA	01/10/2010
1124	133552	MR. NAVNEET DAKHERA ACA	01/10/2010
1125	133613	MR. SANTOSH TUKARAM SHINDE ACA	01/10/2010
1126	133623	MR. MOIZ SHABBIR KARACHIWALLA ACA	01/10/2010
1127	133638	MS. GANGA ALIAS P. R. KHOLKAR ACA	01/10/2010
1128	133676	MR. IMDAD H. A. SURVE ACA	01/10/2010
1129	133798	MR. JEET BIBHAS CHATTERJEE ACA	01/10/2010
1130	133835	MR. HEMANT KIRANCHANDRA WANI ACA	01/10/2010
1131	133839	MR. SAURABH VINODBHAI KOTHARI ACA	01/10/2010
1132	133944	MR. SUSHANT ARUN NAGRE ACA	01/10/2010
1133	133973	MRS. BHAGYASHRI SATISH CHANDAK ACA	01/10/2010
1134	134025	MS. SWETA S. SUSHILA KAWAR ACA	01/10/2010
1135	134135	MR. SANT SANWARMAL SHARMA ACA	01/10/2010



S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
1136	134150	MR. AMARVIR SARAN DAS ACA	01/10/2010
1137	134194	MR. NISHANT NANDKISHORE MUNDADA ACA	01/10/2010
1138	134237	MR. MAYUR RAMJI DEDHIA ACA	01/10/2010
1139	134274	MS. NEHA JAYANTKUMAR RAINA ACA	01/10/2010
1140	134284	MS. BHAVIKABEN J PATEL ACA	01/10/2010
1141	134332	MR. VISHAL LAXMANRAO DESHMUKH ACA	01/10/2010
1142	134333	MR. VIKRANT K. AGARWAL ACA	01/10/2010
1143	134335	MR. GAURAV M. M. POKHARNA ACA	01/10/2010
1144	134352	MR. AJAY RAMESHKUMAR JAIN ACA	01/10/2010
1145	134385	MS. INDRA RAMSHAI KABRA ACA	01/10/2010
1146	134420	MR. NITIN JAIN ACA	01/10/2010
1147	134429	MR. SANJAYBHAI M. KEVADIYA ACA	01/10/2010
1148	134457	MR. HITARTHKUMAR A. PATEL ACA	01/10/2010
1149	134508	MR. RAKESH GOVIND MALI ACA	01/10/2010
1150	134510	MRS. SHRIPAL PRIYANK DHOLAKIA ACA	01/10/2010
1151	134516	MR. DAMODAR J. JANGID ACA	01/10/2010
1152	134572	MR. ARUN KUMAR PODDAR ACA	01/10/2010
1153	134582	MR. VINEET VINOD LODHA ACA	01/10/2010
1154	134589	MS. VRISHALI U. KOTHAWALE ACA	01/10/2010
1155	134619	MR. VISHWAS GOYAL ACA	01/10/2010
1156	134690	MR. AADITYA SADASHIV HAVALDAR ACA	01/10/2010
1157	134726	MR. VIVEK DHARAMPAUL MAHAJAN ACA	01/10/2010
1158	134749	MR. VIKRAM KOTHARI ACA	01/10/2010
1159	134768	MR. AMIT SHANKAR BHATT ACA	01/10/2010
1160	134801	MS. SHITAL ASHOK PATKARI ACA	01/10/2010
1161	134811	MS. RACHANA R. ALKA GAVHANE ACA	01/10/2010
1162	134823	MR. AMEYA ANIL KULKARNI ACA	01/10/2010
1163	134966	MR. KIRTIKUMAR AMRUTLAL PATEL ACA	01/10/2010
1164	135041	MR. PIYUSH RAMESH AGRAWAL ACA	01/10/2010
1165	135119	MS. CHARU MEHROTRA ACA	01/10/2010
1166	135121	MR. HIREN A. AARTIBEN DARJI ACA	01/10/2010
1167	135171	MS. NEHAL PRABHUDAS DATTANI ACA	01/10/2010
1168	135172	MR. YUSUFI HUSAINI TINWALA ACA	01/10/2010
1169	135278	MRS. JASMIN BHAVESH BID ACA	01/10/2010
1170	135313	MR. JITENDRA JAYKUMAR GULWANI ACA	01/10/2010
1171	135320	MS. DIPTI RAJENDRA CHAVAN ACA	01/10/2010
1172	135322	MR. SAMIR SHABBIR KAPADIA ACA	01/10/2010
1173	135327	MS. KALYANI SHRIKANT VAIDYA ACA	01/10/2010
1174	135361	MR. MANOJ NILKANTH RANDIVE ACA	01/10/2010
1175	135489	MR. VINAY GIRISH SHAH ACA	01/10/2010
1176	135495	MR. AMOL MANAN PARIKH ACA	01/10/2010
1177	135580	MR. SAGAR SUDHIRBHAI SHUKLA ACA	01/10/2010
1178	135604	MS. ADITI MITTAL ACA	01/10/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
1179	135685	MR. ANAND VAIDYALINGAN ACA	01/10/2010
1180	203169	MR. RAJENDRAN C ACA	01/10/2009
1181	204753	MR. CHANDRA SEKHAR G NAGA FCA	01/10/2010
1182	206190	MRS. RADHIKA HARIHARAN FCA	01/10/2010
1183	207685	MR. SHIMMY M MATHEW ACA	01/10/2010
1184	208687	MR. VENKATESH KESHAV SHET FCA	01/10/2010
1185	209116	MR. JAGADESH S ACA	01/10/2009
1186	210291	MR. PARDHA J. GUPTA GODE ACA	01/10/2010
1187	211369	MR. BALRAM V ACA	01/10/2010
1188	212382	MR. MANOJ MAHESHKUMAR SHAH ACA	01/10/2009
1189	215712	MS. APARNA R WARRIER ACA	01/10/2010
1190	220178	MS. LAKSHMI DEVI A J ACA	01/10/2010
1191	400136	MR. KRIPLANI HARISH ACA	01/10/2009
1192	400808	MS. AGRAWAL SWATI FCA	01/10/2010
1193	400875	MR. MISRA MANOJ KUMAR ACA	01/10/2010
1194	401879	MR. BIYANI RAJ GOPAL ACA	01/10/2010
1195	401941	MS. BHANDARI MEENAL ACA	01/10/2009
1196	402278	MR. PUNMIYA ANAND FCA	01/10/2010
1197	403666	MR. HITENDRA AGARWAL ACA	01/10/2010
1198	405807	MR. RAHUL KOCHAR ACA	01/10/2010
1199	405808	MR. PRADEEP KUMAR ACA	01/10/2010
1200	406322	CA. GEETA SHIVANI FCA	01/10/2010
1201	407167	CA. HIMANSHU KHANDELWAL ACA	01/10/2010
1202	407347	MRS. NEETU VISHAL SINGHANIA ACA	01/10/2010
1203	407632	CA. AJAY KUMAR AGARWAL ACA	01/10/2010
1204	408211	CA. NEERAJ KUMAR JAIN ACA	01/10/2010
1205	408544	CA. JAYANT KUMAR JAIN ACA	01/10/2010
1206	410193	CA. VIKAS JAIN ACA	01/10/2010
1207	500941	MR. SHARMA MANOJ KUMAR FCA	01/10/2010
1208	501227	MR. CHANDAK SANDEEP KUMAR FCA	01/10/2010
1209	506991	MR. SHANKAR LAL BAJAJ ACA	01/10/2010
1210	507307	MS. NEHA MIDHA ACA	01/10/2010
1211	508006	MR. SIDHARATH JAIN ACA	01/10/2010
1212	508864	MR. KULDEEP SINGH ACA	01/10/2010
1213	511065	MR. AJEET KUMAR JHA ACA	01/10/2010
1214	511506	MR. PIYAN KUMAR SINGH ACA	01/10/2010
1215	511650	MR. KAPIL DHAKAL ACA	01/10/2009
1216	511782	MR. MANOJ KR AGRAWAL ACA	01/10/2010
1217	511940	MR. BIPIN KUMAR CHOUDHARY ACA	01/10/2010
1218	512538	MR. KUNWAR RIZWAN ACA	01/10/2010
1219	514188	MR. VIKASH RAI ACA	01/10/2010
1220	515365	MR. ANUJ BAJPAI ACA	01/10/2010

T. KARTHIKEYAN

Secy.

3WCA(5)/2/2010-11 : With reference to this Institute's Notification Nos. 25-CA(117)/1999 dated 17 Jul 2010, 25-CA(135,138,139,140,254)/2001 dated 17 Jul 2010, 25-CA(226)/2002 dated 17 Jul 2010, 25-CA(52)/2002 dated 17 Jul 2010, 25-CA(61)/2000 dated 17 Jul 2010, 3WCA(4)/1/2000-001 dated 15 Jan 2001, 3WCA(4)/1/2001-2002 dated 07 Jan 2002, 3WCA(4)/1/2002-2003 dated 10 Feb 2003, 3WCA(4)/3/2003-04 dated 20 Apr 2004, 3WCA(4)/3/2004-2005 dated 02 Sep 2005, 3WCA(4)/3/2005-06 dated 28 Apr 2006, 3WCA(4)/3/2006-07 dated 10 Mar 2008, 3WCA(4)/3/2007-08 dated 04 Jul 2008, 3WCA(4)/3/2009-10 dated 28 Dec 2010, 3WCA(4)/3/2010-11 dated 04 Oct 2011, 3WCA(4)/3/99-2000 dated 31 Mar 2000, 3WCA(4)/1/98-99 dated 12 Jan 1999, it is hereby notified in pursuance of Regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulations, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following members :-

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
1	006388	MR. VINOD K.G. ANAND FCA	03/06/2010
2	007096	MR. SHAH SHARAD NATVERLAL FCA	02/08/2010
3	007557	MR. N S PARASURAMAN FCA	15/10/2010
4	007953	MR. COOPER ASPI DADY FCA	29/06/2010
5	008466	MR. JAYARAMAN R ACA	04/08/2010
6	009504	MR. VORA PRAFULL BALCHAND FCA	21/03/2011
7	010295	MR. BUCK MALCOLM FCA	27/09/2010
8	011548	MR. CHIRANIA SURESH CHANDRA FCA	20/08/2010
9	011904	MR. PRAVINCHANDRA C VYAS FCA	03/03/2011
10	012898	MR. SANTOSH O. DESAI ACA	11/10/2010
11	013561	MR. BAHERANWALA S. SAIFUDDIN ACA	11/08/2010
12	014679	MR. RAMESHCHAND G. BADJATE ACA	24/05/2010
13	015351	MR. YESHWANT MEHTA FCA	15/11/2010
14	015572	MR. K SANKARA NARAYANAN ACA	17/05/2010
15	016087	MR. AVANISH KIKABHAI GANDHI FCA	16/07/2010
16	016463	MR. VELAMURI VENKATA KRISHNA ACA	10/06/2010
17	016937	MR. DAULAL HANUMANDAS BHATTER FCA	17/08/2010
18	017044	MR. HOSHANG RUSTOM IRANI ACA	30/08/2010
19	017236	MR. BANSAL VISHNU KUMAR ACA	10/08/2010
20	017523	MR. GHANSHYAM SWAROOP ACA	31/12/2010
21	017984	MR. VAIDYANATHAN K ACA	10/12/2010
22	017996	MR. ADVANI SURESH PRITAM SINGH ACA	09/12/2010
23	018184	MR. SATYANARAYANAMURTY V ACA	31/03/2010
24	020372	MR. R SRINIVASAN ACA	03/08/2010
25	020526	MR. SIVARAMA KRISHNAN D FCA	28/09/2010
26	021655	MR. MANICKAM V ACA	26/05/2010
27	023115	MR. AMAR CHINTOPANTH ACA	11/05/2010
28	023564	MR. SUBBA RAO Y V ACA	23/06/2010
29	023599	MR. RAMESH K FCA	19/05/2010
30	024096	MR. ANJANEYAN SURESH ACA	03/06/2010
31	025571	MR. NARASIMHAN V ACA	31/01/2011
32	026706	MR. GANESH S ACA	27/01/2011
33	030006	MR. SHRIDHAR L MIRANI FCA	04/06/2010
34	030042	MR. MANDHIR SINGH GUJRAL ACA	18/01/2011
35	030465	MR. SHAH YOGESH JAYANT ACA	29/06/2010
36	030730	MR. DILIP SINGH LODHA ACA	12/04/2010
37	030785	MR. DINESHCHANDRA U. GOPIYANI FCA	24/09/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
38	030880	MR. NANDAN HARESHWAR JOSHI ACA	07/10/2010
39	031221	MR. SHAH HIREN CHINUBHAI ACA	28/09/2010
40	031415	MR. RAVI IYER VENKATARAMAN ACA	13/09/2010
41	031444	MR. RAMAKRISHNAN GOPALKRISHNAN FCA	07/01/2011
42	031513	MR. JAISWAL P. NANDANPRASAD ACA	09/06/2010
43	031546	MR. VAIDYA JAYANT BABUBHAI ACA	20/09/2010
44	031855	MR. RAJNIKANT LALLUBHAI PATEL FCA	14/07/2010
45	032242	MR. SHETH SUNILKUMAR NATVARLAL ACA	06/12/2010
46	032253	MR. KALYANI ASHWIN SHANTILAL ACA	15/11/2010
47	032354	MR. TRIVEDI MUKESH PRATHUKANT ACA	01/12/2010
48	032859	MR. SRIDHARAN RAJAGOPALAN ACA	29/11/2010
49	032943	MR. BAROT P. GHANSHYAMBHAI FCA	15/03/2011
50	032972	MR. SHAH NITINKUMAR CHANDULAL ACA	07/06/2010
51	033107	MS. AMEETA SHAH ACA	14/07/2010
52	033150	MR. AVADHANI R. JAGANNATH ACA	17/05/2010
53	033191	MR. VENKATA K. S. PAMIDIGHANTAM	28/04/2010
54	033210	MR. NAIK M. A. ABDUL RAZA ACA	20/05/2010
55	033382	MR. NASIR BACHCHOO ACA	05/05/2010
56	033406	MR. NEGANDHI NITIN LAXMIDAS ACA	28/12/2010
57	033421	MR. DAVE SUBHASH MAHIPATRAM ACA	08/11/2010
58	033483	MR. SARAF P PARMESHWARLAL ACA	26/04/2010
59	033723	MR. GANDHI KAMLESH ZAVERILAL ACA	21/06/2010
60	033785	MR. SURESH SHRIPADRAO BHATTU FCA	15/04/2010
61	033818	MR. AJAYKUMAR N. JOSHI FCA	18/01/2011
62	033894	MR. JAYANTKUMAR G. SHAH FCA	20/07/2010
63	034583	MR. NAGARKAR N. KASHINATH FCA	16/11/2010
64	034744	MS. MADHUMATI N. SHAH FCA	23/06/2010
65	034799	MR. RAJIV SAXENA FCA	04/06/2010
66	034874	MR. RAMANATHAN VAIDYANATHAN ACA	16/04/2010
67	034966	MR. PADAM CHAND JAIN FCA	30/08/2010
68	035249	MR. AGARWAL YOGENDRA KUMAR ACA	14/03/2011
69	035260	MR. LALPURIA KAILASH RAMNIWAS ACA	02/07/2010
70	035458	MR. SHARAD KUMAR V JIWRAJKA FCA	21/06/2010
71	035881	MR. SHAH JANAK PRAVINLAL ACA	18/02/2011
72	036299	MR. AJAYKUMAR N. THAKKAR FCA	29/04/2010
73	036344	MR. PARIKH AMEET NALIN FCA	07/02/2011
74	036421	MR. SHARMA RAJENDRA PRAHLAD FCA	12/05/2010
75	036464	MR. PEREIRA LIONEL FELIX ACA	06/12/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
76	036471	MS. PARANJAPE REKHA ANEESH ACA	06/04/2010
77	036699	MR. ADENWALLA HUSHNEN MOIZ FCA	06/12/2010
78	037091	MR. BATRA RAGHUBIR ACA	14/02/2011
79	037125	MR. VASA DEEPAK MAHENDRA FCA	28/07/2010
80	037286	MR. VIJAY FAKIRCHAND SABADRA FCA	21/02/2011
81	037301	MR. KADRI KHALID SYED ACA	27/08/2010
82	037416	MR. KHAKI JAFFERALI AKBARALI FCA	11/06/2010
83	037483	MR. SUNILKUMAR P. SHAH FCA	03/09/2010
84	037944	MR. HITESH KUMAR YAGNIK ACA	26/04/2010
85	037969	MR. VYAS KISHOR GOVERDHANLAL ACA	11/02/2011
86	037992	MR. RODRIGUES LEO MARSHALL FCA	02/03/2011
87	038039	MR. PATEL VASANT PRAGJIBHAI ACA	26/08/2010
88	038067	MR. LAMBA ANIL FCA	15/11/2010
89	038103	MR. VENKATESAN RANGARAJAN ACA	31/08/2010
90	038242	MR. DHARMESH BHUPENDRA MEHTA ACA	25/08/2010
91	038460	MR. HEMANT KESHAO KOLWADKAR FCA	04/08/2010
92	038552	MR. CHOPRA ROHIT ACA	10/05/2010
93	038810	MR. GANESH G. CHHABRIA FCA	18/08/2010
94	038831	MR. KRISHNAN RAMESH ACA	09/09/2010
95	038864	MR. MILIND LAXMAN KELKAR FCA	13/05/2010
96	038879	MR. SABNIS MAHESH PRABHAKAR ACA	09/07/2010
97	038961	MS. NAMJOSHI RAJANI RAJESH ACA	27/09/2010
98	039308	MR. BOSCO WELLINGTON CALDEIRA ACA	03/02/2011
99	039449	MS. VINITA SANKLECHA ACA	12/04/2010
100	039476	MR. SHAH SANJAY VIRENDRA ACA	07/07/2010
101	039530	MR. NARESHKUMAR B. AHUJA ACA	31/05/2010
102	039547	MR. ANIL KOSH ACA	08/11/2010
103	039559	MR. BELANI VASUDEV RIJHUMAL FCA	20/04/2010
104	039698	MS. JYOTI HITESH SOMAIYA ACA	10/08/2010
105	039722	MR. NIMKAR NITIN KRISHNAJI ACA	24/11/2010
106	039769	MR. ATUL KUMAR NANDLAL PATHAK FCA	21/09/2010
107	039938	MR. SANJAYKUMAR A. JAIN FCA	21/05/2010
108	039994	MR. SUBHEDAR RAJEEV SHRIKRISHNA ACA	27/04/2010
109	040331	MRS. BRINDA AMAR PANTH ACA	11/05/2010
110	040555	MR. NEELESH NARSHI VORA FCA	08/04/2010
111	040644	MR. SHAH ZAFAR ALTAF HASAN FCA	23/06/2010
112	040929	MR. JOGLEKAR PRASAD KRISHNA ACA	17/03/2011
113	041110	MR. SHETTY S. PADMANABHA ACA	18/05/2010
114	041407	MR. IYER M VENKATRAMAN ACA	01/09/2010
115	041413	MR. DESHPANDE MUKUND VASUDEO FCA	01/11/2010
116	041650	MR. AJIT SHARAD KALE ACA	21/12/2010
117	041698	MR. KADAM PRASHANT MANOHAR ACA	29/12/2010
118	041773	MR. SHETH BHUPENDRA BABULAL ACA	17/05/2010
119	041797	MR. SHIVAJI MOTIRAM AHIRE FCA	03/02/2011
120	041805	MR. RAJEEV RAMESH GUPTA ACA	22/04/2010
121	041927	MR. NABIJEE TAWFEEQ MOHAMMED ACA	17/05/2010
122	041930	MR. JOSHI ABHAY BHALCHANDRA ACA	24/06/2010
123	042332	MR. MALA SHABBAR HOUSEINI ACA	20/05/2010
124	042347	MR. IYENGAR S. SUNDARARAJAN ACA	23/08/2010
125	042370	MR. RAKESH GURNOMAL ROHERA ACA	27/12/2010
126	042405	MR. SETHJIWALA FAKHRUDDIN ACA	16/08/2010
127	042494	MR. JITENDRA KALYANJI PANCHAL ACA	07/05/2010
128	042576	MR. SHIROL MAHALING GANGAPPA ACA	03/11/2010
129	042721	MR. NIKHIL MOHANDAS GANGOLI ACA	04/02/2011
130	042851	MR. SHANTARAM TUKARAM GAIKWAD FCA	17/09/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
131	042876	MR. SHRIDHAR SHIVARAM ACHARI ACA	01/11/2010
132	042978	MR. IYENGAR R. NARASIMHAN ACA	21/07/2010
133	043113	MR. NAMJOSHI HEMANT MADHUKAR ACA	06/05/2010
134	043162	MR. SAVNAL GURUNANDAN SOMESH ACA	18/06/2010
135	043170	MR. NALAMUTT J. CHANNABASAPPA FCA	02/02/2011
136	043220	MR. SHAH SACHIN KIRITKUMAR ACA	08/06/2010
137	043304	MR. UPADHYAY C. NATWARLAL FCA	26/04/2010
138	043307	MR. VIRAL KUMAR K. DOSHI FCA	06/12/2010
139	043425	MR. JAIN ASHOK KUMAR FCA	25/03/2010
140	043475	MR. KAPIL KAILASHCHAND JAIN ACA	12/04/2010
141	043613	MR. PRADEEP K. AGRAWAL FCA	15/09/2010
142	043625	MR. SANKARANARAYANAN SRIRAM ACA	09/04/2010
143	043652	MR. MONTEIRO MOHAN MICHAEL ACA	03/06/2010
144	043766	MR. VIJAYASARATHY RAGHAVAN ACA	2/03/2011
145	043770	MR. NIRMALKUMAR S. SHAH FCA	06/09/2010
146	043854	MRS. KALPANA KISHORE SAH FCA	13/08/2010
147	043867	MR. TULSIAN PIYUSH ACA	15/11/2010
148	044034	MRS. ARUNDHATI R. CHATTERJEE ACA	14/07/2010
149	044221	MR. MAHESHKUMAR R. JALAN ACA	31/05/2010
150	044316	MRS. PALLAVI P. JAMSANDEKAR ACA	19/04/2010
151	044404	MR. SUNDARAM RAMCHANDRAN ACA	17/01/2011
152	044531	MR. ANTANI URMISH DILSUKHARAY ACA	28/04/2010
153	044620	MR. ALOYSIS WICKET ACA	29/12/2010
154	044715	MR. RAJIV ANAND PRATTIPATI ACA	19/07/2010
155	044749	MS. DESHPANDE ASHWINI MUKUND FCA	01/11/2010
156	044863	MR. GOPALAKRISHNAN R. ACA	01/11/2010
157	045021	MS. MELITA D'SOUZA ACA	12/04/2010
158	045155	MR. KISHORCHANDRA P. SOMPUA ACA	26/10/2010
159	045221	MR. GANDHI MILAN VINODCHANDRA ACA	10/02/2011
160	045223	MR. VAZ SUNIL PETER EDWIN FCA	06/09/2010
161	045315	MR. RAJENDRA CHHAGANLAL VORA ACA	10/11/2010
162	045374	MR. SREE KUMAR B S ACA	17/09/2010
163	045480	MR. PATEL MUKESHKUMAR AMBALAL ACA	24/01/2011
164	045612	MR. SHAH DHARMEN HARISHKUMAR ACA	19/01/2011
165	045648	MR. KOTWAL ATUL ARVIND FCA	08/06/2010
166	045650	MRS. MADHURI RAJENDRA RISBUD ACA	24/03/2010
167	045694	MR. ZAVERI MANISH MAFATLAL ACA	08/10/2010
168	045796	MR. MAHESH KUMAR ROONGTA ACA	19/05/2010
169	045858	MR. DANTAS GEORGE THOMAS ACA	23/12/2010
170	045965	MR. MOHANTY MRUTYUNJAYA ACA	12/07/2010
171	046054	MR. MEHTA KARTIK SHAILESH ACA	21/09/2010
172	046186	MR. AJAYKUMAR POPATLAL PARMAR ACA	01/02/2011
173	046324	MR. SAIRAM SUBRAMANIAN ACA	21/06/2010
174	046404	MR. AMIT B. NANIWADEKAR FCA	20/05/2010
175	046424	MR. SOHONI N. RAMAKRISHNA ACA	20/01/2011
176	046426	MR. VIVEK VAMAN SANIL ACA	19/10/2010
177	046432	MR. JIMMY ERACH DADREWALLA ACA	12/08/2010
178	046474	MS. DAVDA INDIRA DUNGARSHI ACA	30/08/2010
179	046600	MR. VINOD R. PANCHAMIA FCA	25/11/2010
180	046647	MR. VAROON SHARDA FCA	10/08/2010
181	046674	MR. RAVICHANDRAN RAMAN ACA	25/02/2011
182	046686	MR. THANGADURAI J. PANDIAN FCA	16/08/2010
183	046872	MR. ASPANDIYAR K. KAWASIA FCA	30/03/2010
184	046948	MR. KAMATH SANJAY MOHAN ACA	17/05/2010
185	047114	MR. VORA VIJAYKUMAR JAMNADAS ACA	30/07/2010
186	047183	MR. ANAND M. CHANDAK FCA	26/04/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
187	047190	MR. PANJABI HARESH LALCHAND FCA	28/04/2010
188	047193	MR. KHALID NIHAL FAIZ ACA	19/04/2010
189	047263	MR. SREEDHAR K. GANAPATHY FCA	21/09/2010
190	047384	MR. JEETENDRA RAJPAL DARYANI FCA	29/06/2010
191	047406	MR. UMER SIDDIQ SARESHWALA ACA	29/06/2010
192	047748	MR. SANTOSH ANKUSH NALAWDE ACA	07/03/2011
193	047963	MR. KUTTY ANGEPAT RAJIV ACA	18/05/2010
194	048001	MR. KHANDWALA HABIB ACA	20/07/2010
195	048226	MR. PANDEY ABHAY CHANDRA ACA	30/12/2010
196	048251	MR. MALWADKAR J. MARUTRAO ACA	25/06/2010
197	048293	MRS. MANEESHA ATUL ALATE ACA	20/12/2010
198	048329	MS. SHAILA PEREIRA FCA	01/03/2011
199	048344	MS. AMITA PANKAJ GUJAR ACA	19/11/2010
200	048380	MR. KABRA MANISH RANCHHODAS ACA	26/08/2010
201	048413	MR. ANIL JAYARAM SHETTY FCA	20/04/2010
202	048461	MR. VEERARAGHAVAN P R ACA	16/03/2011
203	048700	MS. WADKAR VEENA DASHRATH ACA	21/04/2010
204	048713	MS. TRIVEDI GIRA VIPIN ACA	15/07/2010
205	048728	MS. VIDYA BALAKRISHNAN IYER ACA	23/09/2010
206	048848	MR. SHETH BIJAL VIKRAM ACA	16/04/2010
207	048869	MR. GANGADHAR R. SHANBHAG ACA	09/04/2010
208	049087	MR. CHACKO SAJI ACA	25/08/2010
209	049214	MR. SANDEEP B. SWAROOP GOEL ACA	03/08/2010
210	049302	MS. HEERA SAMEERA HATIM ACA	09/03/2011
211	049433	MRS. VEENA SANTOSH BADE ACA	31/03/2009
212	049463	MR. BHUWAN P. KALIPRASAD ACA	06/07/2010
213	049528	MR. MEHTA TANMAY VYOMESH ACA	09/08/2010
214	049574	MR. RAJESH JIWANSINGH OCHANI ACA	26/04/2010
215	049608	MR. NARAYAN RAMALINGAM ACA	08/11/2010
216	049667	MR. DINESH DAYARAM PRAJAPATI ACA	14/05/2010
217	049711	MR. D'SOUZA DERRICK ACA	12/10/2010
218	049755	MR. PRABHU ASHWIN RAMNATH ACA	24/12/2010
219	049760	MR. IRANI SHEREZAD JEANGIR ACA	29/07/2010
220	049834	MR. SANJIV HIRACHAND JHAVERI FCA	21/01/2011
221	049881	MS. BADSHAH IFFAT AHMED ACA	29/11/2010
222	049936	MS. PRAJAKTA M. SHIDHORE ACA	15/11/2010
223	050034	MR. RAM NARESH ACA	07/12/2010
224	050050	MR. VENKATARAMAN T ACA	19/04/2010
225	050139	MR. BINAL KUMAR CHAKRABORTY FCA	14/05/2010
226	050859	MR. AMIT KUMAR PAUL FCA	29/12/2010
227	051294	MR. SETT VIVEK FCA	07/05/2010
228	054174	MR. DAS MANAS ACA	05/08/2010
229	054322	MR. RANABIR MITRA ACA	27/04/2010
230	054374	MR. VISWANATH P ACA	12/07/2010
231	054787	MR. CHATTERJEE RIJU ACA	28/07/2010
232	055379	MR. NARANJAN B PUNJABI FCA	07/12/2010
233	055490	MR. SONTALIA ASHOK KUMAR ACA	09/04/2010
234	055545	MR. PRODYOT BHATTACHARYYA ACA	06/12/2010
235	055591	MR. SENAPATI KEDAR NATH ACA	13/04/2010
236	055713	MR. RAJ KRISHAN ACA	16/07/2010
237	056056	MRS. MINI ARON ACA	17/03/2010
238	056269	MR. GOEL VIVEK FCA	01/06/2010
239	056415	MR. AGARWAL GOPAL ACA	11/08/2010
240	056525	MR. DEBA PRASAD MISHRA ACA	19/08/2010
241	056795	MR. AGARWAL BASANT KUMAR ACA	21/02/2011
242	057291	MR. PRASUN BANEREE ACA	18/08/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
243	057520	MS. ANJALI K PARAB ACA	29/06/2010
244	057818	MR. MEHTA SUNDEEP ACA	17/08/2010
245	058096	MR. DAS ARGHYA ACA	29/03/2010
246	058164	MR. KUMAR ANUP ACA	04/02/2011
247	058714	MR. JHA BIJENDRA KUMAR ACA	09/04/2010
248	058979	MR. NAIR RANJIT ACA	07/04/2010
249	059252	MR. SHARMA HANUMAN KUMAR ACA	04/11/2010
250	059378	MR. BALDWA DEEPAK ACA	10/06/2010
251	059974	MR. AGARWALA MANOJ ACA	29/07/2010
252	060468	MR. PODDAR VIVEK ACA	18/01/2011
253	060703	MR. BEBORTA SANKET ACA	10/01/2011
254	061230	MR. PANKAJ KUMAR ACA	17/09/2010
255	061815	MR. ODEKA MANISH ACA	23/08/2010
256	062386	MR. MANISH JAIN ACA	26/05/2010
257	063596	MR. GUPTA PIYUSH ACA	27/12/2010
258	063743	MR. MADNANI HARISH ACA	08/04/2010
259	063807	MR. AGARWAL ASHISH ACA	27/08/2010
260	064227	MR. SURESHA KUMAR ROUTA ACA	21/12/2010
261	064532	MR. DIPAYAN DAS ACA	06/05/2010
262	065330	CA. RAMESH CHANDRA MUNDHRA ACA	22/07/2010
263	065723	CA. GOPAL AGARWAL ACA	09/06/2010
264	071325	MR. AGRAWAL PRADEEP KUMAR FCA	20/05/2010
265	071438	MR. DADHICH NAND KISHORE ACA	07/02/2011
266	074567	MR. SURESH MAHESHWARI ACA	07/07/2010
267	074693	MR. SUDHINDRA BAFNA ACA	15/04/2010
268	074951	MR. MATHUR AMIT ACA	10/05/2010
269	077141	MR. ANIL KUMAR BAJPAI ACA	20/04/2010
270	077192	MR. BALKARAN SINGH DHILLON ACA	15/03/2011
271	077384	MR. ANURAG JOSHI ACA	06/04/2010
272	078250	MR. MUKHERJEE SOURAV FCA	20/09/2010
273	079796	CA. GUPTA SURUCHI ACA	11/01/2011
274	080781	MR. REGUNATHAN S FCA	23/06/2010
275	084693	MR. RAHEJA NARINDRA ACA	02/11/2010
276	085517	MR. SHIV HARI GARG FCA	26/08/2010
277	088517	MR. SUMAN KUMAR GADIA FCA	20/06/2010
278	090692	MR. ANIL ARJUN ACA	20/08/2010
279	091250	MR. SANJEEV KUMAR ACA	23/09/2010
280	091934	MR. DHARMENDER KUMAR ACA	14/05/2010
281	092258	MR. BAHL RAJESH FCA	20/09/2010
282	093775	MR. JAIN RAJAT FCA	16/06/2010
283	094413	MR. VINEET SRIVASTAVA ACA	13/05/2010
284	095211	MR. ANINDA DATTA ACA	13/05/2010
285	095721	MS. KANSAL MONICA ACA	15/12/2010
286	097921	MR. GAURAV S. K. PARASRAMPURIA ACA	18/11/2010
287	098815	MR. RAHUL KUMAR ACA	07/03/2011
288	100015	MR. ENGINEER A. Q. K. A. KHAN ACA	18/12/2010
289	100091	MR. HUSSEIN ASGARALI TELWALA ACA	23/08/2010
290	100095	MR. TARUN JAMNADAS MUNDADA ACA	29/09/2010
291	100161	MR. JOSHI MANDAR VINAYAK ACA	26/04/2010
292	100176	MR. KABRA MADHU SHREE ACA	02/06/2010
293	100465	MR. K T VINOD NAMBIAR ACA	01/04/2010
294	100526	MS. DEDHIA VIJAYA MEGHJI ACA	15/02/2011
295	100584	MR. SHAH RAJAN SURESH ACA	14/12/2010
296	100619	MR. RAJENDRANATH S. KATKAR ACA	27/07/2010
297	100720	MR. M ANANTHA NARAYANAN ACA	24/06/2010
298	100746	MR. MAHAVEER PRASAD JAIN ACA	19/08/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
299	100792	MR. SHAH ANISH DINESH ACA	02/08/2010
300	100876	MR. CHAUHAN BHARAT NARSINHBHAI ACA	02/06/2010
301	100906	MR. PATEL VIKAS GAUTAMKUMAR ACA	12/11/2010
302	100916	MR. DADLANI SHARAD K. HARIRAM ACA	20/09/2010
303	100964	MRS. NEHA NISHITH SHAH FCA	24/01/2011
304	101032	MR. SRIPRASANNA S N R ACA	26/11/2010
305	101061	MR. SALIAN SUJIT JANARDHAN ACA	03/09/2010
306	101089	MR. MUSTUFA A. MOMIN FCA	11/03/2011
307	101171	MR. DAHIVELKAR D. DATTATRAYA ACA	13/05/2010
308	101350	MR. TYAGI PRAVEEN ACA	08/06/2010
309	101763	MR. MUKHERJEE DEBESH ACA	24/05/2010
310	101826	MR. PANDIT SANDEEP KAMALKANT ACA	01/06/2010
311	101883	MS. REKHA ARJANDAS BHAMBHANI ACA	10/06/2010
312	101925	MR. SONAR R. CHOTELAL ACA	29/07/2010
313	102095	MR. KALBAG SAMEER ARUN ACA	29/03/2011
314	102122	MR. SALIA AJAY POPATLAL ACA	11/08/2010
315	102170	MRS. USHA ANAND AHUJA ACA	03/12/2010
316	102229	MR. SHARMA RAJESH KUMAR ACA	20/08/2010
317	102292	MR. KULKARNI SACHIN PRABHAKAR ACA	23/03/2011
318	102589	MR. NARAYAN GANESH ACA	20/12/2010
319	102687	MR. SONI ANIL ACA	22/06/2010
320	102692	MRS. MANISHA Y. CHAVAN ACA	14/12/2010
321	102729	MS. INDU CHELLAPPA PILLAI ACA	15/12/2010
322	102815	MR. SAPRA KUNWAR MOHIT ACA	23/12/2010
323	102852	MS. KAMDAR TEJAL HARISH ACA	22/11/2010
324	102911	MS. NARVANKAR S. SHASHIKANT ACA	18/05/2010
325	102950	MS. NEHA LAXMI SAGAR AGARWAL ACA	29/03/2010
326	102993	MR. ADWAIT C. JOSHI ACA	24/01/2011
327	103057	MR. JITENDRA R. SHAH FCA	20/09/2010
328	103135	MR. PATEL V. NATWARLAL ACA	28/04/2010
329	103179	MR. VISHWAKARMA A. RAMFER ACA	15/06/2010
330	103191	MS. CHANDIRAMANI R. KISHIN ACA	30/12/2010
331	103196	MR. MIHIR SURENDRA DAIYA ACA	17/01/2011
332	103202	MR. ABHIJIT PERIWAL ACA	25/06/2010
333	103285	MRS. GEHNA ROMU MALKANI ACA	13/09/2010
334	103675	MRS. MANISHA YOGESH LAKHANI ACA	22/04/2010
335	103712	MR. KUMAR GOPALAN ACA	11/10/2010
336	103842	MS. NAIK SHEETAL RAMESH ACA	11/10/2010
337	103897	MR. ROHIT ANIL MILHOUTRA ACA	26/05/2010
338	103974	MR. BARVE MAKARAND GOPAL ACA	16/03/2011
339	103994	MR. PRAWAL J NAHAR ACA	21/05/2010
340	104030	MR. AMBAKHUTWALA N. NOORUDDIN ACA	15/10/2010
341	104165	MRS. PRABHA BALUR ACA	10/08/2010
342	104206	MR. ANAND MANJIBHAI DIVECHA FCA	16/04/2010
343	104345	MS. GURBANI TARUNA PRATAPRAI ACA	04/02/2011
344	104370	MR. BUDDHADEV P. CHANDRAKANT ACA	25/06/2010
345	104387	MR. KAMLESH NALIN SHAH FCA	03/05/2010
346	104479	MR. SAMEER ANILKUMAR SHAH ACA	16/01/2011
347	104532	MR. AMIT AVINASH NADKARNI ACA	19/04/2010
348	104542	MR. NIKHIL RAMESH NAIK ACA	10/11/2010
349	104568	MRS. JUI AMIT NADKARNI ACA	19/04/2010
350	104575	MR. SANJAY GOYAL ACA	22/04/2010
351	104717	MR. ANIL TILAKRAJ SONEJA ACA	03/09/2010
352	104741	MS. RACHANA SATYANAND SINGH ACA	15/04/2010
353	104923	MS. RUPALI RAMESH PITALE ACA	07/04/2010
354	104951	MR. VIKAS SHRIDHAR MAINDALKAR ACA	08/09/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
355	105002	MR. RAJESH KUMAR MANDALE ACA	15/10/2010
356	105108	MR. SUBRAMANIAN L. IYER ACA	03/11/2010
357	105176	MR. ALOK M. SANGANERIA ACA	11/05/2010
358	105218	MR. SHABBIR J. BANDUKWALA ACA	20/07/2010
359	105337	MR. RAJIWATE SAMAD HUSAIN ACA	10/05/2010
360	105372	MRS. SWATI MANDAR BANKHELE ACA	24/12/2010
361	105410	MR. VINOD MADHAVJI JOSHI ACA	30/06/2010
362	105432	MR. KAUSHIK T. GANDHI ACA	13/01/2011
363	105446	MR. RAJESH S. REWATKAR ACA	17/06/2010
364	105479	MR. MAYUR MULCHAND GANGAR FCA	24/05/2010
365	105532	MR. KUNJAL MAHENDRA MEHTA ACA	23/06/2010
366	105673	MR. SUJIT ANIL RONGHE ACA	04/08/2010
367	105710	MR. JIGNESH VIPINCHANDRA PATEL ACA	24/09/2010
368	105728	MR. JOSEMON THOMAS ACA	19/04/2010
369	105832	MR. DAS PUSPAMITRA ACA	03/06/2010
370	105898	MRS. JOY SAMUEL MATHAI ACA	22/11/2010
371	105931	MS. MONALI MOHAN PATKI ACA	18/03/2011
372	106062	MR. PAREEK RAJESH ACA	17/05/2010
373	106141	MRS. NISHA OMPRAKASH SHARMA ACA	28/04/2010
374	106152	MS. MADHURAM GURUMURTHY ACA	16/12/2010
375	106288	MR. HARSH INDRASEN NEGANDHI ACA	13/05/2010
376	106321	MR. BIRJU NIRVANKUMAR BHATT ACA	05/10/2010
377	106364	MS. PERVIN FALI PARDIWALA ACA	20/12/2010
378	106377	MR. BAJAJ DINESH K ACA	17/02/2011
379	106457	MR. ANEESH VRAJENDRA MALOO ACA	24/01/2011
380	106471	MR. SHAILESH V. HALDANKAR ACA	11/05/2010
381	106565	MRS. DEEPALI MENON ACA	19/04/2010
382	106623	MR. SUMEET KANTILAL TANK FCA	20/09/2010
383	106719	MR. SHAH PARAG INDRAVADAN ACA	30/08/2010
384	106749	MR. RAVIKIRAN D. HEGDE ACA	06/08/2010
385	106754	MRS. MEENA KETAN SHAH ACA	21/07/2010
386	106764	MR. DHAVAL ANANTRAI BHATT ACA	31/05/2010
387	106771	MRS. VAISHALI COOPER ACA	06/10/2010
388	106772	MR. YAZAD KERSI COOPER ACA	06/10/2010
389	106857	MRS. REENA S. CHOUDHARY ACA	02/02/2011
390	107171	MS. SANDHYA RAMKARAN SHARMA ACA	04/09/2010
391	107220	MR. MILIND EKNATH SHINDE ACA	11/11/2010
392	107314	MR. ABBAS AQUEEL AZIZUDDIN ACA	20/07/2010
393	107363	MR. SUMIT MOHAN SINGH ACA	16/07/2010
394	107383	MS. GURDEEP KAUR BANSAL ACA	09/10/2009
395	107399	MR. KUNJ DILEEPKUMAR VAIDYA ACA	20/05/2010
396	107442	MR. RAMESH SHANTILALJI DAVE ACA	16/08/2010
397	107587	MR. CHIRAG KANTILAL JUTHANI ACA	16/04/2010
398	107644	MR. AMIT DAULATRAI DOSHI ACA	30/11/2010
399	107668	MS. BAKUL R. GADIA ACA	27/04/2010
400	107707	MR. NIRAV D PANCHAMIYA ACA	04/08/2010
401	107716	MR. DOMNIC FRANCIS PEREIRA ACA	28/02/2011
402	107826	MS. ADITI AVINASH SAPRE ACA	17/08/2010
403	107894	MS. ZAHARAH CHHOTU SHERIFF ACA	01/04/2010
404	107912	MR. HARSHAL AVINASH SULAKHE ACA	06/05/2010
405	107943	MR. PHOPHALIYA VIRENDRA ACA	12/03/2011
406	107948	MR. MEHTA ASHISH ACA	09/12/2010
407	107987	MR. SOMANI JITENDRA ACA	13/09/2010
408	108052	MR. LADDHA SATYANARAYAN ACA	23/09/2010
409	108061	MR. RITESH K. VAKHARIA ACA	10/12/2010
410	108191	MR. MANOHAR M MURALI FCA	26/05/2010



S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
411	108201	MR. VIRAL BHUPENDRA SANGHANI ACA	21/06/2010
412	108250	MR. RAJSHEKHAR GOPAL NAIK ACA	12/11/2010
413	108327	MR. SIRSALEWAL NIRAJ ACA	24/08/2010
414	108328	MR. VICTOR DESOUZA FCA	10/05/2010
415	108332	MR. UMESH MOHAN JADHAV ACA	27/07/2010
416	108470	MR. AMIT SURESH GUPTA ACA	06/08/2010
417	108536	MS. PACHECO ANITA MAY ACA	13/04/2010
418	108658	MR. SAMEER AJIT LATEY ACA	20/04/2010
419	108682	MR. SAMEER BALAKRISHNAN ACA	20/09/2010
420	108810	MR. ASHISH MANIKLAL REWANI ACA	05/08/2010
421	108818	MR. AMITKUMAR R. MEHTA ACA	16/06/2010
422	109142	MR. ASHISH BHALCHANDRA NIMKAR ACA	17/03/2011
423	109255	MR. OMKAR SUBHASH JOSHI ACA	10/05/2010
424	109277	MR. SITARAM K. MAHARANA ACA	31/08/2010
425	109302	MR. ABHIJIT M. CHOUDHARY ACA	21/12/2010
426	109439	MR. NAVIN V. AGARWAL ACA	26/11/2010
427	109454	MR. DHEERAJ SURESH JAYSWAL ACA	07/04/2010
428	109583	MR. DIPESH K. DALAL ACA	18/01/2011
429	109621	MR. SACHIN PRAVIN PATEL ACA	23/03/2011
430	109777	MRS. AMRUTA SASWADKAR ACA	15/12/2010
431	109822	MR. KEYUR DEEPAK NAGORI ACA	07/06/2010
432	110119	MS. AHUTI HIMMATLAL JAIN FCA	01/07/2010
433	110149	MR. GOPAL SHRIRATAN LAKHOTIA ACA	18/11/2010
434	110155	MR. SANDEEP ARUN NENE ACA	09/12/2010
435	110246	MRS. ANUJA PRATAP MALANI ACA	02/06/2010
436	110322	MR. BHUPESH D. AGARWAL ACA	03/12/2010
437	110330	MS. SNEHAL V. MANDLEKAR ACA	04/06/2010
438	110385	MS. ABHIDA A. DAKSHINKAR ACA	27/07/2010
439	110518	MR. MANISH UTTAMCHAND JAIN ACA	05/01/2011
440	110525	MR. ABHISHEK K. DANGRA ACA	19/04/2010
441	110747	MR. SANDEEP JAYANT POTDAR ACA	11/03/2011
442	110818	MR. VINIT KOMAL JAIN ACA	08/09/2010
443	110820	MR. DAYANIDHI HARICHANDAN ACA	21/10/2010
444	110843	MR. AMITKUMAR S. AMLANI FCA	13/01/2011
445	110919	MRS. DIPTI TAPARIA ACA	21/05/2010
446	110963	MR. KIRIT MULCHAND LODAYA ACA	05/04/2010
447	111005	MR. DARSHAK RAMESH VORA ACA	12/07/2010
448	111011	MR. GANESH L. NARAYAN ACA	07/07/2010
449	111084	MS. PURVI ANSHUMAN DUTIA ACA	14/01/2011
450	111158	MR. SANJEEV C. RATHI ACA	14/12/2010
451	111242	MR. JAGDISH KUMAR JAISWAL ACA	15/12/2010
452	111269	MR. JUNAID ALI SOLKAR ACA	12/01/2011
453	111344	MR. ANIL KUMAR JAIN ACA	15/07/2010
454	111505	MR. AJAY MAVJI NISAR ACA	13/07/2010
455	111563	MS. YUKTI BALJIT CHANDOK ACA	04/05/2010
456	111577	MR. MANISH PARMANAND AHUJA ACA	29/09/2010
457	111658	MR. HEMANT D. WAGHELA ACA	22/06/2010
458	111768	MR. SUBRAMANIAN RAMAN IYER ACA	01/12/2010
459	111951	MS. AMITA SURESH GHAG ACA	10/06/2010
460	111969	MR. SAMIR PRASAD DAHAL ACA	13/10/2010
461	112047	MR. BHALCHANDRA B. KHANDEKAR ACA	21/09/2010
462	112055	MR. SAURABH SUDHIR JOSHI ACA	07/03/2011
463	112121	MR. KUNAL PRADEEP CHITNIS ACA	24/09/2010
464	112254	MR. HAKIMUDDIN S. COLOMBOWALA ACA	29/10/2010
465	112305	MS. SUPRABHA SOMANATH KARANATH ACA	13/05/2010
466	112466	MR. BHAUMIK NEMICHAND KHATODIA ACA	05/10/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
467	112545	MR. AMRISH HASMUKHBHAI SHAH ACA	22/10/2010
468	112551	MS. SONAL SATISH NIMBALKAR ACA	19/04/2010
469	112641	MRS. NIDHI VIVEK JALAN ACA	05/05/2010
470	112741	MS. PURVI KISHOR SOALI ACA	13/07/2010
471	112800	MR. JAYESH S. SALGAONKAR ACA	27/09/2010
472	112811	MR. SUDEEP J. BHAMBARE ACA	13/04/2010
473	112974	MR. AVISH R. MUTHREJA ACA	19/01/2011
474	112997	MS. ANITA V. IYER ACA	20/05/2010
475	113034	MR. PREMANATHA KARKERA ACA	17/09/2010
476	113048	MR. RAHUL SUNDARA POOJARI ACA	08/09/2010
477	113130	MR. RAJESHKUMAR S. P. SINGH ACA	22/12/2010
478	113153	MS. NEETU KULDIPSINGH ARORA ACA	19/01/2011
479	113178	MR. HRISHIKESH C. JOSHI ACA	24/01/2011
480	113224	MR. SATISH JAYARAM ACA	12/08/2010
481	113274	MRS. DEEPAI RAJESH TALEKAR ACA	30/09/2010
482	113309	MS. ROMA RAMESH BHATIA ACA	08/04/2010
483	113386	MR. SAIYUMKHAN N. L. PATHAN ACA	18/10/2010
484	113405	MR. KUNAL DIPAK VORA ACA	10/08/2010
485	113618	MS. UNNATI BHADRESH MEHTA ACA	15/09/2010
486	113652	MR. JAGDISH N. PATEL ACA	03/09/2010
487	113662	MR. PRASHANT P. JOSHI ACA	12/07/2010
488	113691	MRS. ALPANA ASHISH MONANI ACA	19/07/2010
489	113704	MRS. PRITI C. BORKAR ACA	10/06/2010
490	113724	MR. NITIN KUMAR BAPNA ACA	18/11/2010
491	113725	MR. PARAG M. KACHALIA ACA	16/04/2010
492	113740	MR. HARSHAD S. KHURJEKAR ACA	09/04/2010
493	113798	MR. BHAGWAN DASS SOMANI ACA	10/08/2010
494	113821	MR. PRESHIT MOHAN GADKARI ACA	10/06/2010
495	113883	MR. PRADEEP K. J. PRASAD SARAF ACA	11/02/2011
496	113909	MR. AKILANDESHWARAN A. G IYER ACA	19/07/2010
497	114009	MR. KAUSTUBH V. PURANIK ACA	27/10/2010
498	114050	MS. MAMTA R. SUMANGALA SETHIA ACA	22/08/2010
499	114058	MR. ARVIND BAPUSAHEB KALE ACA	13/08/2010
500	114219	MR. NILESH ASHOK K. KAMBLI ACA	29/07/2010
501	114276	MR. ABBAS H. GILLITWALLA ACA	05/10/2010
502	114285	MRS. PRACHEE ATUL NAMJOSHI ACA	18/06/2010
503	114401	MS. ADITI PADMANABH MERCHANT ACA	07/02/2011
504	114475	MR. NILESH BHAGCHAND BORANA ACA	02/07/2010
505	114505	MRS. RASHMI PANKAJ MUNDRA ACA	23/03/2010
506	114587	MR. ASHWANIKUMAR S. LADHA ACA	24/05/2010
507	114631	MR. DANNY JOHN FERNANDES ACA	21/07/2010
508	114769	MR. ANKUR VILAS KULKARNI ACA	17/09/2010
509	114925	MR. MANGESH KALYANRAO DIXIT ACA	26/04/2010
510	115000	MS. DEEPTI CHANDRAKANT THORAT ACA	13/08/2010
511	115005	MRS. PRACHI SAMEER KARYEKAR ACA	14/12/2010
512	115051	MS. SUCHARITA SANJEEV SHETTY ACA	15/10/2010
513	115174	MR. MUSTAFA A. KAGALWALA ACA	14/07/2010
514	115210	MR. SANKET M. KALPANA SANGHAVI ACA	03/08/2010
515	115244	MR. MANISH DINKAR JOSHI ACA	14/07/2010
516	115358	MR. SANJAY HARSHADRAJ MEHTA ACA	24/09/2010
517	115360	MR. HITESH JAGDISH RATHOD ACA	24/06/2010
518	115403	MR. PANKAJ HARESH MANIK ACA	29/04/2010
519	115424	MR. UJJWAL KUMAR JAIN ACA	27/01/2011
520	115484	MR. KALPESH KUNTILAL MUTHA FCA	31/05/2010
521	115517	MRS. TEJAL AMIT BANDEKAR ACA	11/05/2010
522	115518	MR. SANDEEP JAIN ACA	01/06/2010



S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
523	115622	MR. AJAY DAMODAR UPADHYAY ACA	26/05/2010
524	115735	MR. PRASEN GIRISH HAWAL ACA	12/05/2010
525	115811	MR. MANISH RAMESHLAL MAMTANI ACA	13/01/2011
526	115911	MR. AMARENDRA ARVIND VIDWANS ACA	23/07/2010
527	115924	MR. ANIL RAVASO GADAGE ACA	20/10/2010
528	116103	MR. SOURABH SEKHRI ACA	23/08/2010
529	116170	MR. ASHWIN ARVIND BIJUR ACA	03/06/2010
530	116261	MR. ROOPAM SACHIDANAND BHURKE ACA	28/07/2010
531	116395	MS. CHARMI JITESHCANDRA MEHTA ACA	21/05/2010
532	116551	MR. VINYAS DEVNAS KHADELWAL ACA	10/05/2010
533	116556	MR. CHINMAY VISHNU V. KATDARE ACA	17/08/2010
534	116685	MR. VIKASH KUMAR JAIN ACA	07/10/2010
535	116690	MRS. PAYAL PALAK THAKKAR ACA	29/09/2010
536	116843	MR. PRATIK KANHAIYALAL BANSAL ACA	31/05/2010
537	116858	MS. SNEHAL DAMODAR BALAPURE ACA	13/04/2010
538	116968	MRS. SAI SUNIL DHAMANKAR ACA	11/02/2011
539	116984	MR. KETAN K. BHUPENDRA PALAN ACA	05/01/2011
540	117223	MR. ANAND NARAYAN DAMA ACA	04/03/2011
541	117265	MS. RESHMA LIYAQUAT INAMDAR ACA	28/05/2010
542	117284	MR. KENIL PARESH SHETH ACA	06/05/2010
543	117329	MR. SANDESH BHASKAR SHETTY ACA	07/01/2011
544	117399	MR. KUNAL SHAILESH SHAH ACA	19/11/2010
545	117437	MR. SACHIN NANDKISHOR AGRAWAL ACA	11/01/2011
546	117483	MR. CHETAN SITARAM NARSULE ACA	23/04/2010
547	117520	MR. DHANAJI MAHADEO MORE ACA	27/09/2010
548	117532	MR. UTKARSH P. MAHESHWARI ACA	05/08/2010
549	117585	MR. MANISH BAGARIA ACA	07/02/2011
550	117650	MR. SHEEJO JOHN ACA	20/01/2011
551	117668	MRS. APARNA AGRAWAL ACA	05/10/2009
552	117673	MRS. LOVELEENA PATNI ACA	21/06/2010
553	117691	MR. ARVIND SHARMA ACA	27/08/2010
554	117848	MR. BHAVIK NARENDRA TIMBADIYA ACA	11/05/2010
555	117859	MR. SANDEEP RASIKLAL SHETH ACA	21/09/2010
556	117969	MR. VIREN MAHIPATRAI GHAGHADA ACA	11/11/2010
557	118052	MS. RASHMI RAMESH BANYAL ACA	21/06/2010
558	118074	MR. AMIT KUMAR KULKARNI ACA	15/06/2010
559	118150	MR. AMIT B. BARASKAR ACA	05/05/2010
560	118187	MS. SHITAL NARAYAN SARANG ACA	03/08/2010
561	118232	MR. UMAKANT D. KODMUR ACA	20/12/2010
562	118344	MR. RAVIKUMAR S. JAIN ACA	30/12/2010
563	118349	MR. RAHUL SHANTILAL GANDHI ACA	28/12/2010
564	118371	MRS. REENA N. MITTAL ACA	21/05/2010
565	118374	MR. RAJIV R. NAIR ACA	07/06/2010
566	118525	MR. YOGESH KANITLAL SHAH ACA	12/07/2010
567	118538	MR. ANAND RAMNATH IYER ACA	09/09/2010
568	118574	MR. ADWAIT H. PATHAK ACA	08/06/2010
569	118594	MR. PRAMOD G. RELEKAR ACA	23/03/2011
570	118606	MS. HAMIDA S. CHARANIA ACA	29/04/2010
571	118752	MR. CHINTANKUMAR A. VYAS ACA	05/05/2010
572	118790	MR. HARI SHANKAR MODI ACA	25/01/2011
573	118795	MR. PRASHANTH R. MENON ACA	22/04/2010
574	118898	MS. PREETI SHIVKUMAR BHATIA ACA	13/05/2010
575	118999	MR. KAUSHAL ANIL GEETA GATHANI ACA	18/03/2011
576	119018	MR. VINAY DANGI ACA	28/09/2010
577	119113	MS. NEETA NARAYAN DAMA ACA	17/02/2011
578	119132	MR. VIREN RAJESH THAKKER ACA	22/11/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
579	119223	MR. RAVINDRA SHARAD INGAVALA ACA	05/01/2011
580	119259	MS. KIENZLE NARESH PAREKH ACA	13/04/2010
581	119358	MR. DEEPAK BABEL ACA	25/05/2010
582	119386	MR. PRITESH B. CHHAJED ACA	13/05/2010
583	119416	MS. PAYAL ARUN KANITKAR ACA	30/07/2010
584	119543	MR. VIJAY RAMPRAKASH DUBE ACA	10/06/2010
585	119548	MR. PRATIK R. DOSHI ACA	04/11/2010
586	119648	MR. HIMANJAL J. BRAHMBHATT ACA	17/08/2010
587	119711	MS. MONA RAMANIKBHAI YACHHANI ACA	09/04/2010
588	119787	MRS. CYNTHIA VALERIE L. PEREIRA ACA	20/08/2010
589	119851	MR. ANKIT ASHOKKUMAR MISTRY ACA	06/07/2010
590	119928	MR. MANISH T. R. SUNITA KAYAL ACA	26/04/2010
591	119951	MR. ARPIT BHUPENDRA PALAN ACA	05/01/2011
592	119979	MR. ANAND P. TOTALA ACA	30/09/2010
593	120231	MR. YASH PRITHVIRAJ MUTHA ACA	16/04/2010
594	120346	MR. BHUSHAN KEWAL ARORA ACA	29/09/2010
595	120361	MR. ROHIT F. SAJJAN JAIN ACA	16/08/2010
596	120391	MR. DILIP RAMESH LOHANI ACA	16/08/2010
597	120437	MR. DHARMESH D. CHAUHAN ACA	02/07/2010
598	120451	MR. RAJESH N. MUNDADA ACA	26/07/2010
599	120479	MR. KUNAL J REKHA DHARIA ACA	24/05/2010
600	120508	MR. VIPIN BIHARI GOYAL ACA	13/04/2010
601	120525	MR. AJAY PRAKASH KERING ACA	31/01/2011
602	120605	MS. NEHA MAHENDRA NERURKAR ACA	28/06/2010
603	120716	MR. MILIND SHIRISH SONALKAR ACA	21/05/2010
604	120823	MRS. NIVEDITA N. NAYAK ACA	22/12/2010
605	121088	MR. ANAND R. KHADATKAR ACA	25/11/2010
606	121094	MR. VISHWANATH BALASUBRAMANIAN ACA	18/06/2010
607	121181	MR. SANJEEV MODI ACA	03/06/2010
608	121182	MR. JAYESH ASHOKKUMAR JAIN ACA	27/12/2010
609	121187	MS. HETAL JAYANT KATUDIA ACA	22/06/2010
610	121348	MR. AMIT KUMAR CHAWLA ACA	12/07/2010
611	121404	MR. BHAVESH VASUDEVBHAI CHELANI ACA	21/04/2010
612	121454	MR. HARSHAD S. VAJA ACA	13/12/2010
613	121567	MR. GAURANG BHUPENDRA SHAH FCA	01/10/2010
614	121651	MS. TANVI NALIN TRIVEDI ACA	09/07/2010
615	121695	MRS. SHRUTI PRIYANK CHAUDHARY ACA	01/04/2010
616	122002	MRS. ASHWINI MAYURESH BAKSHI ACA	02/06/2010
617	122051	MR. SUDESH BABLO NAIK ACA	08/06/2010
618	122061	MS. SWARUPA VISHNU LATA DATE ACA	27/12/2010
619	122078	MS. ARCHANA ARJUN LONDHE ACA	21/06/2010
620	122193	MR. SACHIN JITENDRA S. HINGU ACA	28/05/2010
621	122251	MR. JITENDRA VIJAY KHEDEKAR ACA	22/07/2010
622	122279	MR. RISHIT K. D. CHANDRA SAMRANI ACA	29/07/2010
623	122407	MR. NILESH MAHESHBHAI THACKER ACA	03/12/2010
624	122445	MR. PRANAY NARESH RANIWALA ACA	07/05/2010
625	122525	MR. TEJAS ARVINDBHAI SHAH ACA	07/07/2010
626	122594	MS. DEVALKUMARI V. SHAH ACA	27/07/2010
627	122612	MR. PRAKASH BADIYA BILLAVA ACA	30/03/2010
628	122613	MR. SANJIV K. KHILNANI ACA	30/08/2010
629	122625	MS. SHRIVANI G. P. GAONKAR ACA	26/05/2010
630	122900	MR. JATA SHANKER THAKUR ACA	08/12/2010
631	123007	MR. PAREEN JAYPRAKASH SONI ACA	24/05/2010
632	123245	MS. KAPILA VIJAY S. TEMKAR ACA	03/08/2010
633	123278	MR. SANJAY SABLE ACA	01/02/2011
634	123287	MS. AMI JITENDRA T. KAMANI ACA	28/05/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
635	123353	MR. HITEN CHANDRAKANT PANDYA ACA	19/11/2010
636	123381	MR. VINODBHAI R. PATEL ACA	13/12/2010
637	123389	MR. BHAVESH V. THAKKAR ACA	28/12/2010
638	123500	MR. ABHIJIT S. DESHPANDE ACA	08/04/2010
639	123565	MR. AFTAB GUMANI ACA	13/04/2010
640	123638	MR. RAHUL ROHIT KAMAT ACA	02/02/2011
641	123908	MR. VIRESH KISHORBHAI BATAVIA ACA	01/06/2010
642	123935	MR. SUNIL RAMAVTAR SAH ACA	17/09/2010
643	123960	MR. SANTOSH S. CHOPDA ACA	25/05/2010
644	124109	MR. MUKESH D. MAHANTWAR ACA	30/11/2010
645	124188	MR. SUDHAKAR N. PODCHETTI ACA	15/10/2010
646	124207	MS. KARISHMA P. S. SAWANT ACA	24/12/2010
647	124273	MS. JAGRUTI J. SAHU ACA	12/01/2011
648	124276	MR. NIKHIL ASHOK JOSHI ACA	05/04/2010
649	124321	MR. MUKESH KUMAR TATER ACA	19/11/2010
650	124499	MS. DEEPTHI D. S. SHETTY ACA	11/05/2010
651	124617	MR. BHAVESH DULCHAND NAHTA ACA	04/08/2010
652	124749	MS. KHYATI J. MAMTORA ACA	21/02/2011
653	124791	MR. RAJENDRAKUMAR R. KABRA ACA	18/01/2011
654	124824	MR. CHETAN HIRALAL SHARMA ACA	06/05/2010
655	124842	MR. PRADEEP KHARBANDA ACA	04/03/2011
656	124866	MR. YATIN MOHAN NAGESHKAR ACA	25/08/2010
657	124903	MR. MADHAV MADAN KATPATAL ACA	11/05/2010
658	124905	MR. NIRAV JAYESH KIRAN SHAH ACA	23/03/2010
659	124990	MR. YUSUF M. RANGOONWALA ACA	08/07/2010
660	125023	MR. MAHESH B. BIRLA ACA	25/05/2010
661	125090	MR. SUDHIR KUMAR ACA	08/09/2010
662	125137	MS. ARPANA GOVINDLAL DAS ACA	13/04/2010
663	125278	MR. SAMRAT SHREE MAHESHWARI ACA	06/09/2010
664	125390	MR. ABHIJEET MITTAL ACA	28/09/2010
665	125397	MR. AMIT RATHI ACA	16/08/2010
666	125465	MR. PRATIP CHIKKAYA SHETTY ACA	11/05/2010
667	125519	MS. TEJASWITA VILAS BHANUSHALI ACA	08/09/2010
668	125580	MR. PRINCE GEORGE ACA	13/08/2010
669	125650	MR. VISWANATHAN NARAYANASWAMY ACA	18/06/2010
670	125685	MS. BHAVANA B. M. SAMPAT ACA	07/07/2010
671	125781	MR. SUREL JAYARAM MHATRE ACA	09/08/2010
672	125835	MR. PRITAM P. KULAPKAR ACA	26/04/2010
673	125844	MR. SOURABH ASHOK PALOD ACA	22/11/2010
674	125899	MS. MARY EBENEZER RAJ ACA	12/07/2010
675	126007	MR. HARSHEEL P. RITA VITHALANI ACA	03/03/2011
676	126056	MR. KEDAR SOMNATH PANDE ACA	21/10/2010
677	126157	MR. GOVIND VILAS ADKI ACA	09/08/2010
678	126218	MR. CHINTAN P. KALPANA SHAH ACA	29/06/2010
679	126239	MR. PRATEEK SARDA ACA	03/06/2010
680	126244	MR. VISHAL RATHI ACA	13/10/2010
681	126353	MR. MILAN HARESHBHAI ASHARA ACA	11/08/2010
682	126422	MR. NARESH LULANI ACA	04/03/2011
683	126471	MR. JUZER MOHAMED H. KALABHAI ACA	31/12/2010
684	126638	MR. GURURAJ ANNAPPA KULKARNI ACA	07/07/2010
685	126661	MR. VINIT GARG ACA	28/05/2010
686	126728	MR. AMOL ARUNRAO GUPTA ACA	22/11/2010
687	126895	MS. SABRINA S. ZEENA ATTERWALA ACA	29/06/2010
688	127023	MR. NISHEETH JAIN ACA	19/07/2010
689	127110	MR. PAWAN KUMAR R.O CHOUDHARY ACA	18/08/2010
690	127115	MS. NEHA RANJEET CHAUBE ACA	14/05/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
691	127186	MR. NIRAV MANOJ KHATRI ACA	27/10/2010
692	127214	MR. PRASHANT GUPTA ACA	21/06/2010
693	127242	MR. IMRAN AHMAD ACA	11/01/2011
694	127259	MS. DEEPA PRAKASH KADAM ACA	12/04/2010
695	127425	MRS. ANJALI RAHUL NIGADE ACA	19/06/2010
696	127488	MR. REAGAN ANTONIO ALMEIDA ACA	18/10/2010
697	127555	MR. ABHISHEK GOPAL MITTAL ACA	05/08/2010
698	127643	MR. PAWAN NAWAL ACA	07/12/2010
699	127712	MR. ANILKUMAR D. YADAV ACA	03/09/2010
700	127779	MR. ANURAG SHRIVASTAVA ACA	06/07/2010
701	128089	MR. AMIT KUMAR SHARMA ACA	07/06/2010
702	128218	MS. ALJA JACOB ALPHONSA ACA	16/11/2010
703	128223	MR. VIVEK JHUNJHUNWALA ACA	24/08/2010
704	128467	MR. ARUN LAXMINARAYAN VYAS ACA	11/02/2011
705	128589	MS. VAISHALI P. SALUNKE ACA	03/08/2010
706	128823	MR. MARUTINANDAN S. SARDA ACA	21/07/2010
707	128940	MR. ANKUR VIPRADAS VYAS ACA	01/10/2010
708	128975	MS. RITA SARWAN GOENKA ACA	28/05/2010
709	128987	MR. DIVYESH K. CHHATBAR ACA	27/04/2010
710	128992	MRS. AVANI NEELESH PATEL ACA	29/10/2010
711	129161	MR. SANDEEPKUMAR M. ZANVAR ACA	28/05/2010
712	129250	MS. DEEPIKA MAHESHWARI ACA	20/10/2010
713	129278	MR. SUKHBIR OBEROI ACA	29/06/2010
714	129302	MR. GIRIRAJ D. MANTRI ACA	02/07/2010
715	129518	MR. RANDHIR S. B. SINGH SANDHU ACA	08/10/2010
716	129542	MR. APURV DEEPAK GANDHI ACA	26/05/2010
717	129685	MR. SANTOSH KUMAR PANDEY ACA	01/06/2010
718	129763	MR. SHRIRAM VASANT NATEKAR ACA	13/04/2010
719	129909	MR. RAJESH BHIMRAO AMBEKAR ACA	09/09/2010
720	130260	MR. TARUN KUMAR JAIN ACA	20/09/2010
721	130407	MR. SHAIL SINGH SOLANKI ACA	21/06/2010
722	130453	MS. MUGDHA R. PHADKE ACA	24/12/2010
723	130666	MR. HEMRAJ S. JOSHI ACA	28/04/2010
724	130702	MR. BALAKRISHNAN C. N. ACA	20/09/2010
725	130820	MS. VAIDEHI SRINIVAS KULKARNI ACA	04/03/2011
726	130955	MR. ANAND MUKUND JOSHI ACA	18/08/2010
727	130999	MR. GIRISH GANESH CHAUDHARI ACA	15/11/2010
728	131006	MR. AASHISH VIPIN TRIVEDI ACA	21/03/2010
729	131166	MR. KUSHAL C. H. CHHABRIA ACA	16/04/2010
730	131241	MS. MAITHILI ANIL R. LOKE ACA	04/03/2011
731	131431	MR. SHRIKANT V. AGRAWAL ACA	20/04/2010
732	131449	MR. TEJESH KUMAR JAIN ACA	01/06/2010
733	200036	MR. G SUDHEENDRA KUMAR ACA	08/04/2010
734	200680	MR. SUNDARAM N ACA	20/01/2011
735	200852	MR. K SUBRAMANIAN FCA	23/08/2010
736	201624	MR. LAKSHMI NARASIMHA RAO P FCA	27/07/2010
737	203257	MR. GANESH R FCA	31/12/2010
738	203734	MR. ANANTHARANGARAJAN M P ACA	29/04/2010
739	203876	MR. G CHANDRAMOHAN ACA	09/09/2010
740	204969	MR. CHALUVADI NAGESWAR RAO ACA	07/05/2010
741	205877	MS. MANISHA GUPTA ACA	07/07/2010
742	206135	MR. MADHUSUDAN SHARMA S ACA	27/01/2011
743	206136	MR. SYAM SUNDER G ACA	5/06/2010
744	206432	MR. ATUL JOSHI ACA	03/08/2010
745	206791	MR. PAUSKAR V. VENKATARAMAN ACA	05/05/2010
746	206987	MS. AGRAWAL P. U. CHANDRA ACA	10/12/2010

S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE	S.No.	MRN	MEMBER NAME	RESTORATION DATE
747	208115	MRS. JAGRUTI SHAM HOLKAR ACA	14/04/2010	765	401861	MS. RANI NEOTIA ACA	21/07/2010
748	208345	MR. VIJAY G ACA	30/08/2010	766	402424	MR. CHHABRA PRABHJOT SINGH ACA	10/01/2011
749	208491	MR. UPADHYE MAHAVEER PRAKASH ACA	03/08/2010	767	402433	MS. SHIVRAN PRIYANKA ACA	31/08/2010
750	209046	MR. KRISHNA PRASAD C R ACA	17/08/2010	768	402894	MR. MEHROTRA VARUN ACA	15/11/2010
751	209769	MR. PREMANAND V S ACA	06/04/2010	769	402939	MRS. JASPREET MALIK ACA	18/02/2011
752	210031	MR. THYAGARAJAN R ACA	15/04/2010	770	403909	MR. PALI WALA MURTAZA ACA	19/04/2010
753	210236	MR. HARIHARAN R FCA	06/08/2010	771	403926	MR. JAIN MANISH KUMAR ACA	30/11/2010
754	210393	MR. VISHAL SHARMA ACA	04/08/2010	772	404269	MR. NAHATA TUSHAR ACA	15/07/2010
755	211472	MR. JAHANGIR HUSSAIN A ACA	08/07/2010	773	406003	CA. PRAVEEN UPADHYAY ACA	12/05/2010
756	212803	MR. KRISHNAN R S ACA	21/05/2010	774	406865	CA. BHANU PRAKASH PARASHAR ACA	22/11/2010
757	214504	MR. KARTHIK S ACA	27/08/2010	775	407042	MS. ABHA SURANA ACA	02/12/2010
758	215346	MR. NEERAJ KUMAR GAGGAR ACA	01/12/2010	776	409589	CA. RAHUL KATARIA ACA	28/09/2010
759	400197	MR. DEEPAK GUPTA ACA	28/05/2010	777	409931	CA. JAI KUMAR SINGHAL ACA	19/11/2010
760	400334	MR. SINGHAL PAWAN KUMAR ACA	29/06/2010	778	501105	MR. PANKAJ ACA	03/08/2010
761	400471	MR. TIWARI ABHISHEK ACA	04/11/2010	779	504624	MR. GANDHI AMIT ACA	27/09/2010
762	400579	MRS. RUCHI PRAMOD DOKANIA ACA	23/08/2010	780	505399	MR. MISHRA JNANENDRA ACA	31/08/2010
763	400742	MR. SHARMA NISHANT ACA	16/04/2010	781	505466	MR. SHARMA DHIRAJ ACA	08/09/2010
764	401825	MRS. APARNA AGARWAL ACA	10/08/2010	782	511981	MR. MUSTAQ YUSUF KHATRI ACA	06/09/2010

T. KARTHIKEYAN  
Secy.

#### EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

Bangalore-560023, the 4th April 2012

File No. DMC/SZ/A/19/11/2006.KAR—In pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.04.1951 conferring upon the Director General the power of the Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such power delegated to the Medical Commissioner, E.S.I.C., Hqrs., New Delhi vide Director General Order File No. Pt. File U-13/12/13/2005-PTMR (Med. I) dated 04.08.2008 and further re-delegated to me vide Headquarters, ESIC, New Delhi order File No. U-13/12/13/2005-Med.I/PTMR dated 09.09.2008. I hereby authorized the following doctor(s) to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with norms w.e.f the date given below for one year or till the date of attaining the age of 65 years or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centers as stated below for areas allocated by undersigned, for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certification to them, when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name	Period	Name of the Centre
Dr. K. R. Ramachandra	03.03.2012 to 02.03.2013	Malleshwaram

B. R. KAVISHETTI  
State Medical Commissioner (Kar.)

Ahmedabad, the 23rd April 2012

File No. U-16/53/2003/Med. II/(Guj) 37/PTMR/DMK/BRD/SMC/12—In pursuance of resolution passed by ESI Corporation at its meeting held on 25.04.1951 conferring upon the Director General the power of Corporation under regulation 105 of the ESI (General) Regulation, 1950 and such power further delegated to me vide Director General order on File No. Pt. File-U-13/12/13/2005-PTMR-(Med-I.) dated 04.08.2008. I hereby authorized the following doctor(s) to function as Medical Authority at a monthly remuneration in accordance with norms w.e.f. the date given below for one year or till a full time Medical Referee joins, whichever is earlier, for centers as stated below for areas allocated by undersigned, for the purpose for medical examination of insured persons and grant of further certification to them, when the correctness of the original certificate is in doubt.

Name	Period	Name of Centre/Place/Distt./State
Dr. Darshansingh M. Khalsa PTMR	03.05.2012 to 02.05.2013	Baroda/Gujarat

H. P. SINGH  
State Medical Commissioner

## EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION

Bangalore-560025, the 19th April 2012

No.EPFO/ACC(K&G)/VOL-COV(6-83)/83/2012-13 dated 19.04.2012  
WHEREAS it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provision of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions, Act 1952 (19 of 1952), should be made applicable to their respective establishments namely:

Sl. No.	Code No.	Name of the establishment	Date of coverage & Consent
1	KN/PNY/31855	M/s. DAVID BROWN HYDRAULICS INDIA PVT. LTD.	02-05-11
2	KN/PNY/31390	M/s. VI COAST INDIA	01-03-10
3	KN/PNY/30492	M/s. GOLOKA SEVA TRUST (REGD.)	01-06-07
4	KN/PNY/30779	M/s. FASYL TECHNOLOGIES INDIA PVT. LTD	01-09-08
5	KN/PNY/31642	M/s. MASTER DTH EQUIPMENTS INC	01-11-10
6	KN/PNY/31962	M/s. DIRAK INDIA PANEL FITTINGS PVT. LTD.	01-08-11
7	KN/PNY/31300	M/s. FIXOTECH ENGINEERING SYSTEMS PVT. LTD.	01-11-09
8	KN/PNY/31248	M/s. FRAGRANZ INDIA PERFUMES PVT. LTD	01-11-09
9	KN/PNY/31981	M/s. G E TRIVENI LTD	01-08-11
10	KN/PNY/31497	M/s. ENVAC ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY PVT LTD	01-07-10
11	KN/PNY/31655	M/s. KAMALA ENTERPRISES	01-12-10
12	KN/PNY/31733	M/s. UNITEK SYSTEM	01-01-11
13	KN/PNY/31795	M/s. AIR FORCE TECHNICAL COLLEGE CANTEEN	01-02-11
14	KN/PNY/30718	M/s. ASSOCIATED ENGINEERING ENTERPRISES	01-06-08
15	KN/PNY/30818	M/s. INBIOPRO SOLUTIONS PVT. LTD	01-10-08
16	KN/PNY/30828	M/s. UFT BEEKEN ENGINEERING SERVICES PVT. LTD	01-10-08
17	KN/PNY/30954	M/s. TOKAI RIKAI MINDA INDIA PVT LTD.	01-04-09
18	KN/PNY/31807	M/s. NUOVA FAOS INTERNATIONAL MANUFACTURING COMPANY PVT. LTD	01-03-11
19	KN/MNG/38883	M/s. TOUR ARABIA	01-08-09
20	KN/MNG/38842	M/s. KULUR SERVICE STATION, KULUR	01-08-09
21	KN/MNG/38860	M/s. M T EDUCARE CHARITABLE TRUST, KUDROLI	01-08-09
22	KN/MNG/58103	M/s. VITTAL FIRKA MAHILA VIVIDDODHESHA CO-OPERATIVE SOCIETY LTD, BANTWAL	01-03-11
23	KN/MNG/38943	M/s. THE PROTESTANT CHRISTIAN CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.	01-03-10
24	KN/MNG/58151	M/s. SRI DAMODARA K, CONTRACTOR, BABUGUDDA, ATTAVARA	01-07-11
25	KN/MNG/38792	M/s. I-POINT CONSULTING SERVICES PVT. LTD, MANGALORE	01-03-09
26	KN/MNG/58055	M/s. MAHALINGESHWARA TEMPLE, PUTTUR	01-10-10
27	KN/MNG/58086	M/s. UNITED TRADING & CONTRACTING, MG ROAD, MANGALORE	01-01-11
28	KN/MNG/58127	M/s. STUDIO FRINGGE, MANGALORE	01-04-11
29	KN/MNG/58131	M/s. FRINGGE ETHNIC, MANGALORE	01-04-11
30	KN/MNG/38581	M/s. VIDYA JYOTHI PRIMARY SCHOOL, VAMANJOOR	01-06-08
31	KN/MNG/38867	M/s. ALANKARU MILK PRODUCERS CO-OP. SOCIETY @ PUTTUR	01-09-09

32	KN/MNG/38949	M/s. SUDHIR TRAVELS, KULAI	01-03-10
33	KN/MNG/38988	M/s. SAMANVAYA VIVIDHODDDDESHA CO-OP. SOCIETY LTD, BELTHANGADY	01-06-10
34	KN/MNG/58006	M/s. SHYAM ENTERPRISES, RAIKATTE, KULLOOR	01-08-10
35	KN/MNG/58018	M/s. K V G VIVIDODESHA SOWHARDA SAHAKARI (L) KURUNJIBAG	01-08-10
36	KN/MNG/58031	M/s. JAYAMBIKA CHIT FUNDS, KODIALBAIL	01-09-10
37	KN/MNG/58050	M/s. DEVELOPMENT EDUCATION SERVICE, KADRI	01-10-10
38	KN/MNG/58084	M/s. STEEVAN BROTHERS, BOLOOR	01-01-11
39	KN/MNG/38140	M/s. SATHISH KUMAR, CONTRACTOR, ANUGRAHA NIVAS, HALEYANGADI	01-08-04
40	KN/MNG/38390	M/s. SANTHATHI CENTRE FOR REPRODUCTIVE MEDICINE, MANGALORE	01-05-06
41	KN/MNG/38476	M/s. SAN MARKETING, ALAKE, MANGALORE	01-04-07
42	KN/MNG/38506	M/s. GLOW TOUCH TECHNOLOGIES, MG ROAD, MANGALORE	01-06-07
43	KN/MNG/38755	M/s. APEX ENGINEERS, BAIKAMPADY, MANGALORE	01-10-08
44	KN/MNG/38844	M/s. SHRI RAMA VIDYA KENDRA TRUST @ KALLADKA, BANTWAL	01-08-09
45	KN/MNG/38899	M/s. MARKAZUL HUDA WOMEN'S PU COLLEGE, PUTTUR	01-10-09
46	KN/CKR/37421	M/s. MPCs KARIGODANAHALLI, ALUR TALUK	01-09-10
47	KN/CKR/37422	M/s. MPCs, KOTTIGANAHALLI, ALUR TALUK	01-09-10
48	KN/CKR/37434	M/s. MPCs, SINGODANAHALLI, PALYA HOBLI	01-12-10
49	KN/CKR/37425	M/s. PACC BANK, SALAGAME	01-09-10
50	KN/CKR/37441	M/s. JANAKALYANA RESEARCH AND CHARITABLE TRUST, HASSAN	01-03-11
51	KN/HBL/17977	M/s. BHAVASAR KSHATRIYA CO-OP SOCIETY LTD, HUBLI	01-10-00
52	KN/HBL/27112	M/s. SANGAL PRATHAMIKA KRISHI PATTIN SAHAKARI BANK NIYAMIT, SANGAL	01-10-01
53	KN/HBL/27397	M/s. JAGRUTI URBAN CO-OP. CREDIT SOCIETY LTD	01-08-03
54	KN/HBL/27398	M/s. PRATHAMIKA KRISHI PATTINA SAHAKARI BANK NIYAMIT, MURGOD, BELGAUM	01-11-03
55	KN/HBL/27399	M/s. JIJAMATA MAHILA SAHAKARI BANK LTD	01-11-03
56	KN/HBL/27421	M/s. THE HARUGERI URBAN CO-OPERATIVE CREDIT BANK LTD	01-11-03
57	KN/HBL/27424	M/s. J M PATEL & SONS	01-11-03
58	KN/HBL/27475	M/s. JA I BHARAT CO-OPERATIVE CREDIT SOCIETY LTD, BELGAUM	03-02-04
59	KN/HBL/27569	M/s. PRATHAMIKA KRISHI PATTINA SAHAKARI BANK LTD, RAIBAG, BELGAUM	01-05-04
60	KN/HBL/27605	M/s. HARSHA ELECTRICALS	01-06-04
61	KN/HBL/27686	M/s. S P M CONTROLS	21-10-04
62	KN/HBL/27689	M/s. NUTAN MAHILA URBAN CO-OP. CREDIT SOCIETY LTD	01-08-04
63	KN/HBL/27710	M/s. KAILASTEJ ENGINEERS	31-10-04
64	KN/HBL/27716	M/s. DNYAN PRABODHAN MANDIR, BELGAUM	01-10-04
65	KN/HBL/27855	M/s. CELEBRATE REST-O- BAR	28-02-05
66	KN/HBL/40014	M/s. SMARTH URBAN CO-OP. CREDIT SOCIETY LTD	01-09-05
67	KN/HBL/40054	M/s. SHRI. MAHALAXMI URBAN CO-OP. CREDIT SOCIETY LTD	01-09-05
68	KN/HBL/40097	M/s. SHRI BASAVESHWAR URBAN CO-OP. CREDIT SOCIETY LTD, MUNAVALLI	01-12-05
69	KN/HBL/40712	M/s. ROHIT RADIOGRAPHY SERVICES, BELGAUM	01-01-08

70	KN/MYS/49346	M/s. G V GOWDA MEMORIAL VIDAYARTHI NILAYA, VOKKALIGARA SANGH (D.Ed) COLLEGE, KOLLEGALA	01-12-10
71	KN/MYS/49272	M/s. BOMMANAHALLI MPCs LTD., DUDDA HOBBI, MANDYA	01-07-10
72	KN/MYS/49266	M/s. MPWCS LTD., SOWDENAHALLI, MANDYA	01-07-10
73	KN/MYS/49267	M/s. MPWCS LTD., BILLENAHALLI, MANDYA	01-07-10
74	KN/MYS/49239	M/s. MPCs LTD., THIRUGANAHALLI, NAGAMANGALA, MANDYA	01-05-10
75	KN/MYS/49240	M/s. MPWCS LTD., MARUTHIPURA, NAGAMANGALA, MANDYA	01-05-10
76	KN/MYS/49225	M/s. NALKUNDI MPCs LTD., NAGAMANGALA, MANDYA	01-04-10
77	KN/MYS/49237	M/s. MPWCS LTD. MARANAYAKANAHALLI, MANDYA	01-05-10
78	KN/MYS/49263	M/s. MPWCS LTD., HOMBALEGOWDANADODDI, MADDUR	01-07-10
79	KN/MYS/49264	M/s. MPWCS LTD., B HULLUKERE, MANDYA	01-07-10
80	KN/MYS/49265	M/s. MPWCS LTD., GUDIDODDI, MADDUR	01-07-10
81	GOA/12290	M/s. CABLE POINT INDIA	01-03-08
82	GOA/12514	M/s. ARZ TRUST	01-05-09
83	GOA/12586	M/s. SANKALP NURSING HOME	01-08-09

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-Section (4) of the Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments from and with effect from the date mentioned against the name of each of the said establishments.

P. SUDHAKAR BABU  
Additional Central PF Commissioner (KN & Goa)

Ahmedabad-380014, the 4th April 2012

S.O. ACC/GJ&MP/EDLI/EXEMPTION/14—Whereas the employers of the establishment mentioned in Schedule-I (hereinafter referred to as the said establishment) have applied for exemption under Sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) hereinafter referred to as the said Act.

And whereas the Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India which are more favorable to such employees than the benefits admissible under the Employee's Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme)

Now therefore, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act Central Provident fund Commissioner in continuation Notification No. and date shown against the name of each of the said establishments from the conditions specified in Schedule-II annexed hereto the Central Provident Fund Commissioner hereby exempt each of the said establishment from the operation of all the provisions of the said scheme & further period of 3 years as indicated in attached Schedule-I against their names.



**SCHEDULE-I****GUJARAT (VADODARA REGION) :**

Sr. No.	Previous Notification No. and Date	Name of the Establishment with Code No.	Period of Exemption	Agency from which alternative policy has been taken
1.	---	M/s. Nitro Aromatics (A Divn. Of Deepak Nitrite Ltd.) GJ/BD/5278-A	01.04.05 to 31.03.08 01.04.08 to 31.03.11 01.04.11 to 31.03.14	LIC OF INDIA
2.	No.2/1959/DLI/EXEMP/89/P-I/5439 dated 26.02.01	M/s. Deepak Nitrite Ltd. GJ/BD/5278	24.06.00 to 23.06.03 24.06.03 to 23.06.06 24.06.06 to 23.6.09 24.06.09 to 23.6.12	LIC OF INDIA
3.	---	M/s. Voltampt Transformers Ltd. GJ/BD/4445	1.03.03 to 28.02.06 1.03.06 to 28.02.09 1.03.09 to 29.02.12	LIC OF INDIA
4.	The Gazette of India, 19.12.2009 AGRAHAYANA 28,1931	M/s. Nirma Limited. GJ/BD/26092	01.08.11 to 31.07.14	LIC OF INDIA
5.	No.2/1959/DLI/ EXEMP/89/Pt-I/433 dated 17.01.94	M/s. Paushak Ltd. GJ/BD/6851	01.11.95 to 31.10.98 01.11.98 to 31.10.01 01.11.01 to 31.10.04 01.11.04 to 31.10.07 01.11.07 to 31.10.10 01.11.10 to 31.10.13	LIC OF INDIA
6.	Fresh	M/s. Unimed Technology Ltd. GJ/BD/20328	01.04.92 to 31.03.95 01.04.95 to 31.03.98 01.04.98 to 31.03.01 01.04.01 to 31.03.04 01.04.04 to 31.03.07 01.04.07 to 31.03.10 01.04.10 to 31.03.13	LIC OF INDIA
7.	No.2/1959/DLI/EXEMP/89/Pt-I/1732 dated 12.05.92	M/s. Alembic limited GJ/BD/1053	01.01.93 to 31.12.95 01.01.96 to 31.12.98 01.01.99 to 31.12.01 01.01.02 to 31.12.04 01.01.05 to 31.12.07 01.01.08 to 31.12.10 01.01.11 to 31.12.13	LIC OF INDIA
8.	No.2/1959/DLI/EXEMP/89/Pt-I/1002 dated 28.05.02 Earlier proposal for 01/01/04 to 31/12/06 was sent to HO but notification does not appear to have issued.	M/s. Sulaimani Co-operative Bank Ltd. GJ/BD/11952	01.01.04 to 31.12.06 01.01.07 to 31.12.09 01.01.10 to 31.12.12	LIC OF INDIA

9.	No.2/1959/DLI/EXEMP/ 89/Pt-I/83 dated 14.01.92 Earlier proposal for 01.12.92 to 30.11.07 was sent to HO but notification does not appear to have issued.	M/s. Patwa & Sons GJ/BD/951-A	01.12.92 to 31.11.95 01.12.95 to 30.11.98 01.12.98 to 30.11.01 01.12.01 to 30.11.04 01.12.04 to 30.11.07 01.12.07 to 30.11.10 01.12.10 to 30.11.13	LIC OF INDIA
10	Nil	M/s. Bock India Pvt. Ltd. GJ/BD/22223	01.09.09 to 31.08.12	LIC OF INDIA
11	No.2/1959/DLI/EXEMP/ 89/Pt-I/2744 dated 17.11.2000	M/s. Royal Knitting Pvt.Ltd. GJ/BD/16388-B	24.06.00 to 23.06.03 24.06.03 to 23.06.06 24.06.06 to 23.6.09 24.06.09 to 23.6.12	LIC OF INDIA
12	No.2/1959/DLI/EXEMP/ 89/Pt-I/815 dated 02.02.94 Earlier proposal for 01/03/96 to 29/02/08 was sent to HO but notification does not appear to have issued	M/s. Special Engg. (Halol) Pvt. Ltd.  GJ/BD/14687	01.03.96 to 28.02.99 01.03.99 to 28.02.02 01.03.02 to 28.02.05 01.03.05 to 29.02.08 01.03.08 to 28.02.11 01.03.11 to 28.02.14	LIC OF INDIA
13	No.2/1959/DLI/EXEMP/ 89/Pt-I/222 dated 10.01.94 Earlier proposal for 01/03/96 to 29/02/08 was sent to HO but notification does not appear to have issued	M/s. Shreno Ltd.  GJ/BD/4382	01.11.92 to 31.10.95 01.11.95 to 31.10.98 01.11.98 to 31.10.01 01.11.01 to 31.10.04 01.11.04 to 31.10.07 01.11.07 to 31.10.10 01.11.10 to 31.10.13	LIC OF INDIA

M. P. SINHA

Addl. Central PF Commissioner

For and on behalf of Central PF Commissioner, New Delhi

**GUJARAT****AHMEDABAD REGION:**

Sr. No.	Previous Notification No. and Date	Name of the Establishment with Code No.	Period of Exemption	Agency from which alternative policy has been taken
1.	---	M/s. Sabarmati Ashram Gaushala Bidaj (GJ/6775-B)	01.05.96 to 30.04.99 01.05.99 to 30.04.02 01.05.02 to 30.04.05 01.05.05 to 30.04.08 01.05.08 to 30.04.11 01.05.11 to 30.04.14	LIC OF INDIA
2.	-----	M/s. Cama Motors Pvt. Ltd. (GJ/1134)	01.01.95 to 31.12.97 01.01.98 to 31.12.00 01.01.01 to 31.12.03 01.01.04 to 31.12.06 01.01.07 to 31.12.09 01.01.10 to 31.12.12	LIC OF INDIA
3.	---	M/s. Mother Dairy Foods Processing Ltd. (GJ/50013)	01.03.04 to 28.02.07 01.03.07 to 28.02.10 01.03.10 to 28.02.13	LIC OF INDIA
4.	-----	M/s. Mamta Brampton Engineering Pvt. Ltd. (GJ/AHD/26717)	01.06.04 to 31.05.07 01.06.07 to 31.05.10 01.06.10 to 31.05.13	LIC OF INDIA
5.	No.2/1959/DLI/EXEM P/89/Pt-I/1681 dated 06.04.93	M/s. Vijay Nagar Primary School (GJ/13663)	01.03.92 to 28.02.95 01.03.95 to 29.02.98 01.03.98 to 28.02.01 01.03.01 to 29.02.04 01.03.04 to 28.02.07 01.03.07 to 28.02.10 01.03.10 to 28.02.13	LIC OF INDIA
6.	-----	M/s. C. Somabhai & Co. (GJ/AHD/4826)	01.09.06 to 31.08.09 01.09.09 to 31.08.12	LIC OF INDIA
7.	2/4789/92	M/s. Torrent Cable Ltd. (GJ/AHD/4367)	01.02.01 to 31.01.04 01.02.04 to 31.01.07 01.02.07 to 31.01.10 01.02.10 to 31.01.13	LIC OF INDIA

(M.P.SINHA)  
ADDL. CENTRAL P F COMMISSIONER  
GUJARAT & MADHYA PRADESH

**SCHEDULE-II**

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional PF Commissioner concerned and maintain such account and provide such facilities for inspection, as the Central PF Commissioner may direct from time to time.
2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Govt. may from time to time, direct under clause (A) Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.
3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of account, submission of returns, payment of insurance premia, transfer accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.
4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended along with translation of salient feature thereof in the language of the majority of the employees.
5. Where as an employee, who is already a member of the Employees Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to Life Insurance Corporation of India/approved private insurance company.
6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under said scheme are enhanced so that the benefits available under Group Insurance Scheme are more favorable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.
7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) legal heir(s) of the employees as compensation.
8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees his approval, give a reasonable opportunity to the employees to explain point of view.

9. Therefore any reason the employer of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India/approved private insurance company as already adopted by the said establishment, for the benefits to the employees under this scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.
10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation on India/approved private Insurance Company and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.
11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominees(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.
12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme, this Life Insurance Corporation of India/approved private Insurance Company, shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominees(s) and Legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

(M.P.SINHA )

ADDL. CENTRAL P F COMMISSIONER  
FOR AND ON BEHALF OF CENTRAL PF COMMISSIONER,  
NEW DELHI.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012